
जब हृदयमें भगवान्की ज्योति जग उठती है, तब दीखता है कि समस्त विश्व प्रभुमें ही स्थित है एवं विश्वके कण-कणमें प्रभु अवस्थित है

—इसी पुस्तकसे

श्रीहरिः

सत्सङ्ग-सुधा



एक साधु

मुद्रक तथा प्रकाशक

घनश्यामदास जालान

गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० २००९ प्रथम संस्करण १०,०००

मूल्य ॥) आठ आना

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीहरिः

निवेदन

इस पुस्तकमें प्रकाशित लेख हमारे एक अति निकटस्थ ऐसे साधुके द्वारा बड़ा आग्रह करनेपर लिखे गये हैं, जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते । लेखोंमें 'भगवान्‌के विश्वास' की बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं । इनसे पाठकोंको विशेष लाभ उठाना चाहिये ।

गोरखपुर

श्रावण शु० १५, नं० २००९

हनुमानप्रसाद पोदार



श्रीहरि

विषय-सूची

विषय .	पृष्ठ-संख्या
१-प्रार्थना .	५
२-प्रभुके साथ सम्पर्क . .	१७
३-हृच्छाशक्ति या प्रभु-कृपापर विश्वास .	३८
४-चाहनेयोग्य सत्य वस्तु .	४८
५-प्रभुका आदेश . .	५६
६-विचारोंका समय .	६२
७-मनकी सँभाल . . .	७२
८-हमारा जगत् .	८०
९-श्रद्धाका बीज बोयें . . .	९०
१०-समयका सदुपयोग . . .	१०३
११-दुःखके कारण . .	११०
१२-काम या प्रेम .	१२३
१३-दुःखनाशका अमोघ उपाय . . .	१३८
१४-भगवान्की ज्योति जगा लें . . .	१४७
१५-प्रभुका आश्रय . . .	१६०
१६-भगवान्का सम्बन्ध ही सच्चा सम्बन्ध है . . .	१६९
१७-भगवान्की पूजा-आरती . . .	१८१
१८-मानसिक विष और उसके त्यागके उपाय . . .	१९३
१९-भयकी निवृत्ति . . .	२०६
२०-गान्तिकी खोज . . .	२१६



॥ श्रीहरि ॥

सत्सङ्ग-सुधा

प्रार्थना

जिस समय हमारे चारों ओर विपत्तिके वादल मँडराने लगते हैं, अन्धकार छा जाता है, कोई साथी नहीं रहता, पथ दिखानेवाला भी कोई नहीं होता, उस समय—यदि हमारे अंदर योडी भी आस्तिकता रहती है तो हम वरवस भगवान्की ओर मुडकर पुकार उठते हैं—
‘नाथ ! रक्षा करो, पथ दिखाओ ।’ तथा हममेंसे बहुतोंका यह अनुभव है कि पुकार लगाते ही ऐसे विचित्र ढंगसे हमारी रक्षा हो जाती है कि जिसकी कल्पनातक नहीं हो सकती । ऐसा क्यों होता है ? इसीलिये कि भगवान् अपने सम्पूर्ण ज्ञान, अनन्त सामर्थ्य, अनन्त सौहार्दको लिये नित्य हमारे साथ हैं, उनसे हृदयका संयोग होते ही उनकी सम्पूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूर्ण करनेके किये प्रकट

हो जाती है। जहाँ उनकी अप्रमेय शक्ति, अपरिसीम सौहार्दको व्यक्त होनेका अवसर मिला कि काले बाँदल बिखर गये, निर्मल प्रकाश छा गया, भार हर लेनेवाले साथी आ पहुँचे, सुविस्तीर्ण निष्कण्टक पथ दीख गया तथा कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे प्रभुके चरणोंमें सिर झुकाकर हम गन्तव्यकी ओर चल पड़े।

किंतु प्रभुसे हमारे हृदयका यह सयोग स्थायी नहीं हो पाता, इस क्षणके बाद हमारा जीवन भगवत्-प्रार्थनामय नहीं बन जाता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभुको भूलने लगते हैं, 'प्रभुकी प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कारकी वस्तु है' यह स्मृति भी हम धीरे-धीरे खो बैठते हैं।

इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी भी हैं, जो स्वाभाविक प्रायः भगवान्की प्रार्थना करते हैं। उनमें सब तो नहीं, पर अधिकांश कैसी प्रार्थना करते हैं, यह विचारणीय है। संक्षेपमें कहनेपर उनकी प्रार्थनाका रूप यह है—'नाथ ! मुझे अमुक वस्तु दो, अमुक प्रकारसे दो और अमुक समयमें दो।' अर्थात् कौन-सी वस्तु मिले, इसका निर्णय तो हम कर ही देते हैं। उस वस्तुकी प्राप्ति किस उपायसे हो तथा किस समय हो, यह भी हम ही पहलेसे उन्हें सूचित कर देते हैं। मानो भगवान्में यह ज्ञान नहीं कि वे हमारी यथार्थ आवश्यक वस्तुका निर्णय कर सकें, उसकी प्राप्तिका उपाय स्थिर कर सकें तथा ठीक समयपर हमें लाकर दे सकें। होना तो यह चाहिये कि हम प्रार्थना करें कि 'नाथ ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वह मुझे दो, जिस प्रकारसे देना चाहो, उस प्रकारसे ही दो तथा जब देना चाहो तभी

दो ।' क्योंकि उनके समान या उनसे बढ़कर सर्वज्ञ तथा सर्वथा निर्मूल शुभचिन्तक हमारे लिये और कौन होगा ? किंतु यह न करके हम प्रभुके सामने अपनी क्षुद्र भावनाओको ही रखते हैं । फिर भी यह प्रार्थनाकी श्रेणीमें अवश्य है, क्योंकि उस समय हमारे हृदयका प्रभुसे संयोग तो होता ही है । भगवान् ऐसी प्रार्थनासे नाराज बिल्कुल नहीं होते, वे तो कभी भी किसीपर भी किसी कारणसे भी नाराज होते ही नहीं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओका यथोचित परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाय यह निश्चित नहीं । ये सफल भी हो सकती हैं, नहीं भी; क्योंकि प्रभुके अनन्त मङ्गलमय विधानसे अविरोधी प्रार्थनाएँ ही तत्क्षण सफल होती हैं । जो प्रार्थीके लिये परिणाममें अहितकर प्रार्थनाएँ हैं, वे सफल नहीं होतीं । परम मङ्गलमयसे अमङ्गलका दान किसीको मिल जो नहीं सकता ।

उपर्युक्त दोनोंसे अतिरिक्त कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं, जो भगवान्से केवल भगवान्के लिये—भगवत्प्रेमके लिये ही प्रार्थना करते हैं । जगत्की किसी वस्तुकी चाह उनके मनमें नहीं होती । विषयोंका प्रलोभन उन्हें जरा भी नहीं सताता । उनका हृदय सहज और सतत भगवान्से जुडा हुआ होता है ।

इस तीसरी श्रेणीकी प्रार्थनामें तो प्रार्थीको कुछ सीखनेकी आवश्यकता नहीं होती, प्रार्थनाकी सारी विधियाँ उसकी प्रार्थनामें सहज ही वर्तमान रहती हैं । वास्तवमें सच्ची और कल्याणमयी भगवत्प्रार्थना है भी यही, मानव-जीवनकी सफलता भी इसी प्रार्थनामें है । क्षुद्र भोगोंके लिये भगवान्से प्रार्थना करना तो भगवान्की

कृपामयतापर, उनके परम मङ्गलमय विधानपर अविश्वासका ही धोतक है । मानो भगवान्को हमारी चिन्ता नहीं, हमारी आवश्यक वस्तु वे हमें नहीं दे रहे हैं, ऐसी भावना हमारी अन्तश्चेतनामें छिपी होती है । फिर भी हमें तो वहाँसे आगे बढ़ना है, जहाँ हम खड़े हैं । यदि हम प्रभुपर सर्वथा निर्भर नहीं हो सकते तो पूर्ण निर्भरताका खँग भरनेसे काम नहीं चलता । हमें तो अपने मानसिक धरातलके अनुरूप ही मार्ग अपनाना पड़ेगा । हममेंसे अधिकांश पूर्ण निर्भरताका मार्ग नहीं ग्रहण कर सकते, अतः पहलेकी दो प्रार्थनाओंको ही हमलोग अपनाते हैं; किंतु इन दोनों प्रार्थनाओंमें भी कुछ जानने योग्य बातें हैं, उन्हें जानकर, समझकर फिर की हुई प्रार्थना बड़ी मूल्यवान् होती है । वह प्रार्थना जीवनको नीचे स्तरसे उठाकर भगवान्के दिव्य आलोकमें पहुँचा देती है ।

१—भगवान्से हम जिस वस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं, उस वस्तुकी तीव्र चाह हमारे मनमें हो, यदि उस वस्तुके बिना भी हमारा काम किसी और चीजसे चल जाता हुआ दीखता हो तो समझना चाहिये कि उस वस्तुकी तीव्र चाह हमारे मनमें नहीं है ।

२—उस वस्तुको पाना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो । यदि वस्तुकी प्राप्तिमें रह-रहकर उत्साह शिथिल पड़ जाता हो तो मानना चाहिये कि निश्चय दृढ़ नहीं है ।

३—पूर्ण धैर्य हो । प्रार्थना आरम्भ करनेके बाद फल प्रकट होनेतक अधीरताकी छाया भी मनको न छू पावे, साथ ही फल प्रकट हुआ कि नहीं यह देखनेकी ओर वृत्ति ही न जाय । बीज

बोकर जलसे सींचकर फिर तुरत ही उसे उखाडकर देखा नहीं जाता कि बीजमें अङ्कुर लगा या नहीं ।

४—प्रार्थनाका तार न टूटे । फल प्रकट होनेतक यथासाध्य अनवरत अविराम पूर्ण तत्परताके साथ प्रार्थना चलती रहे ।

५—यह अखण्ड अविचल विश्वास मनमे निरन्तर जागरूक रहे कि प्रभु यहाँपर अवश्य हैं, यह वस्तु वे हमे दे सकते हैं, अवश्य देगे । जो कोई भी उनके सामने जिस वस्तुके लिये उपस्थित होता है, उसे वे वह वस्तु अवश्य देते हैं । हमें भी वे अवश्य देगे । हमें यह वस्तु निश्चय ही मिलेगी । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ।

६—किंतु प्रार्थनाके समय प्रभुके समक्ष उस वस्तुके लिये रोना रोनेकी आवश्यकता नहीं है । प्रार्थनाका रूप तो होना चाहिये— प्रभुसे हृदयका मिलन, हृदयका एकीकरण, प्रभुके रूपमे तन्मयता, अज्ञका अशीमें मिल जाना, प्रभुके समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्यमे अपनी सत्ता खो देना । इस मिलनका आनुषङ्गिक परिणाम होगा इच्छाकी पूर्ति—इष्ट वस्तुकी प्राप्ति । कल्पना करें, गलित कुष्ठसे शरीर पीडित है, अथवा भयानक फोडा होकर उसमे मवाद भर आया है, वेदनासे प्राण व्याकुल हैं । इनसे त्राण पानेके लिये हम प्रभुसे प्रार्थना करने चले । अब यह नहीं कि हम अपने मानसिक नेत्रोंके सामने गलित कुष्ठका चित्र रखकर उसका चिन्तन आरम्भ करे, फोडेका विकराल रूप प्रभुके सामने रखें । ऐसा करना तो प्रार्थनाकी पद्धतिसे दूर चले जाना है । हमे तो चाहिये कि हम प्रभुके उस निरामय स्वरूपका चिन्तन करें, जिसमें

विकृति नहीं, अभाव नहीं, दुर्गन्ध नहीं, मलिनता नहीं, जो अनिन्द्य सुन्दर है, सर्वथा सत्र ओरसे सदा पूर्ण है, अनन्त सौरभका निवास है और जो परम दिव्य है। उनकी वह निरामय, मञ्जु, समग्र सुरभित, ज्योतिर्मय सत्ता हमारे शरीरके अणु-अणुमें व्याप्त है, ऐसी दृढ़ भावना हम बार-बार करे। प्रभुसे अनुप्राणित हमारे इस शरीरका अणु-अणु रोगसे शून्य, मनोहर सुन्दर नित्य पूर्ण सुवास-मय, एक चिन्मय ज्योतिसे उद्भासित हो रहा है, ऐसा अनुभव करनेका बारंबार हम प्रयास करें। कुष्ठकी, फोड़ेकी हमें सर्वथा विस्मृति हो जाय; उसके स्थानपर अविकारी, सम्पूर्ण, नित्य रुचिर, सुरभिमय, परमोज्ज्वल प्रभुकी सत्ता व्यक्त दीखने लगे, ऐसी चेष्टा हमारी हो। विश्वास एवं लगनके साथ ऐसी धारणा करनेपर ऐसी भावना हो जाना कठिन नहीं है। तथा भावना दृढ़ हुई कि प्रभुका दिव्य चमत्कार हमारे अनजानमें ही उस गले शरीरपर—फोड़ेसे व्याकुल त्वचापर प्रकट हो जायगा। यह कल्पना नहीं, ध्रुव सत्य है। भारतीय शास्त्र तो ऐसे अगणित प्रमाणोंसे भरे हैं ही। आज भी ऐसी घटनाएँ प्रत्यक्ष होती हैं। इस विज्ञानयुगके प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओंकी दृष्टिके सामने भी होती हैं, हुई हैं। नोबेल पुरस्कारविजेता, संसारप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सर्जन डाक्टर अलेक्सिस कारेल (Gr Alexis Carrell) का कहना है कि उन्होंने स्वयं आँखोंसे देखा है—एकमात्र केवल प्रार्थनासे कुछ ही क्षणोंमें मुँहके घाव, शरीरके अन्य घाव, कैंसर, मूत्राशयके रोग और यक्ष्मा (Tuberculosis) आदि रोगोंसे पीड़ित रोगियोंके ये रोग मिट गये हैं।

अच्छा, रोगसे मुक्त होनेकी बात तो ठीक । हमे तो धन चाहिये । घरमे युवती कन्या है, उसका विवाह करना है, पर भरपेट भोजनके लिये अन्न नहीं है, शरीर ढकनेके लिये पर्याप्त वस्त्र नहीं है । क्या भगवत्-प्रार्थना-मात्रसे हमे धन मिल जायगा ? अवश्य मिल जायगा, किंतु प्रार्थना ठीक-ठीक होनी चाहिये । अन्य आवश्यक बातोंके साथ-साथ हमे प्रार्थनाके समय अपनी दरिद्रताकी भावना, अपनी गिरी हुई स्थितिकी स्मृति मिटा देनी होगी । उसके स्थानपर हम प्रभुके सर्वसम्पन्मय रूप, अनन्त श्रीसम्पन्न सत्ताका स्मरण करें, उसमे अपना मन डुबा दे । यह अनन्त आकाश, अपरिसीम सागर, विस्तीर्ण भूभाग, ऊँची पर्वत-मालाएँ, नदी-निर्झर, सरोवर, वन, उपवन, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, भृङ्ग, सोना, रूपा, हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, पुखराज—इन अगणित वैभवोंके निर्माण करनेवाले जो प्रभु हमारे अदर नित्य वर्तमान हैं, उनमे अपने मनको लीन करें । हम ऐसी भावना करें कि प्रभुका अनन्त वैभव हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उसपर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम तो उनके हैं । भावनाके नेत्रोंसे यह स्पष्ट अनुभव करे कि प्रभुकी अनन्त विभूति हमें तो प्राप्त ही है । हमारे लिये तो किसी अभावकी कल्पना ही नहीं है । विश्वास-पूर्वक यदि वास्तवमें हम ऐसी भावना दृढ कर सके तो निश्चित है हमारे लिये आवश्यक इच्छित धनकी व्यवस्था प्रभुके विधानसे होकर ही रहेगी ।

सारांश यह है कि हम जो वस्तु चाहते हैं, उसके अभावकी ओरसे वृत्तियोंको हटाकर, वह वस्तु जिन प्रभुमें पूर्णरूपमे नित्य

वर्तमान है, उनमें केन्द्रित करें। हम 'अमुक वस्तु नहीं है, अमुक नहीं है' इस प्रकारके चिन्तनसे विरत होकर जहाँ हमारी चाहकी वस्तु पूर्णरूपमें सदा अवस्थित है, उसका चिन्तन करे।

७—यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि विश्वस्रष्टा प्रभुके ही हम एक अंश हैं। अतः प्रभुके गुण हममें भी अंशरूपसे अवश्य वर्तमान हैं। प्रभुने सृष्टिसे पूर्व यह सकल्प किया—'एकोऽहं बहु स्या प्रजायेय' मैं एक ही बहुत हो जाऊँ। इस चिन्तन—संकल्पका परिणाम यह हुआ कि यह विशाल विश्व सृष्ट हुआ, मूर्त हो गया। तो चिन्तनके द्वारा वस्तुको निर्माण करनेकी शक्ति हमारे अंदर भी अवश्य है, क्योंकि हम विश्वस्रष्टाके अंश जो ठहरे। इसीलिये हम भी चिन्तनके द्वारा अपने लिये वस्तुका निर्माण कर सकते हैं, करते हैं। यह नियम है, हमारे प्रत्येक विचार मनमें सृष्ट होनेपर बाहर भी उसके अनुरूप ही आकार वारण करते हैं। यदि प्रार्थनाके समय हम अभावका, मलिनताका ही चिन्तन करे—'नाथ ! देखो, इस वस्तुके अभावमें मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हाय ! मेरी कौसी गिरी दगा है।' इन भावोंकी ही आवृत्ति करते रहें, तो अभावजन्य व्यथाकी, पतनकी मूर्तियाँ ही निर्मित होंगी। तथा प्रभुकी पूर्ण, परम सौन्दर्यमयी सत्तासे हमारे हृदयका क्षणिक सयोग होकर भी ये विचारकी अशुभ मूर्तियाँ बीचमें व्यवधान बनती जायँगी। पर ठीक इससे विपरीत यदि हम प्रार्थनाके समय ऐसा चिन्तन आरम्भ करें—'हमें तो सब कुछ प्राप्त है, हमारा सब कुछ सुन्दर है, नाथ ! तुम्हारी कृपासे मैं कितने आनन्दमें हूँ, किस प्रकार मैं प्रतिक्षण ऊपर उठ

रहा हूँ ।' ऐसे विचारके समय महागहिम प्रभुसे हमारा सयोग तो हो ही रहा है, साथ ही इष्टप्राप्तिजन्य सुखकी, उत्थानकी शुभ गूर्तियों भी निर्मित हो रही है । विचारोसे निर्मित ये शुभ गूर्तियों हमारे लिये सहायक बनती जा रही है । करुणारागर भगवान्की ओरसे जो कृपाकी लहरें हमारी ओर आती रहती है, उन्हें ये गूर्तियों नष्ट वेगसे आकर्षित करने लगती है । देवते-ही-देवते हमारे शुभ विचार भगवान्के गङ्गालमय विधानसे जुड़ जाते है तथा फिर हमारे लिये बाहर एक शुभसे पूर्ण समार गूर्त हो जाता है । तुरत ही ने प्रतिकूल परिस्थितियों गिठ जाती है तथा उनके स्थानपर हमारी मनोवाञ्छित परिस्थिति प्रकट हो जाती है । कहनेका तात्पर्य यह कि किररी वस्तुके लिये प्रार्थना करनेपर हमारे अंदर जो विचारके द्वारा वस्तु निर्माण करनेकी शक्ति है, इसका भी सहायक बना लेना चाहिये । यह नाशक न बन जाय, इस बातसे सावधान रहना चाहिये । हर्ष, उत्थान, पूर्णता आदिकी भावना करना अपनी उग्र शक्तिको सहायक बना लेना है और विषाद, निराशा, शोक तथा दुःखकी भावना करना उन्हें नाशक बना लेना है ।

८-प्रार्थनासे पूर्व धीरतापूर्वक हमें विचार कर लेना चाहिये कि हमारी इच्छित वस्तु, जिसके लिये हम प्रार्थना करने जा रहे है, कहीं दूसरेके हितकी विरोधी वस्तु तो नहीं है ? मान ले यह इच्छा उत्पन्न हुई कि 'हमारे अमुक शत्रुका विनाश हो जाय' तथा इस इच्छाकी पूर्तिके लिये हम प्रार्थना करने चले—तो शत्रुकी पूर्तिके लिये प्रार्थनाका आधार हमें भगवान्के कदापि नहीं मिलेगा । हम

अपने भ्रान्त मलिन मनसे प्रभुमे ऐसे आवारका आरोप कर लें, यह बात दूसरी है, पर वास्तवमे ऐसी प्रार्थनाके लिये आश्रय भगवान्मे है ही नहीं । प्रभुमे किसीके भी प्रति शत्रुत्व अथवा द्वेषकी कल्पना ही जो नहीं है । उनकी दृष्टिमें उनके सिवा और है ही क्या जिसके प्रति वे द्वेष करें । अपने आपके ही प्रति किसीका द्वेष होना है क्या? अतः ऐसी प्रार्थना करनेवालेको तो निराश ही होना पडेगा । काकतालीय-न्यायसे कोई घटना घट जाय और हम उसे अपनी प्रार्थनासे हुई मान लें तो यह तो हमारी बुद्धिका भ्रम है । वास्तवमे भगवान्में ऐसी प्रार्थनाका बीजतक टिकनेका स्थान नहीं है । हमे चाहिये कि यदि ऐसी इच्छा हमारे मनमे कभी जाप्रत् हो तो उस इच्छामें हम पहलेसे ही सुधार कर लें । हम यह इच्छा करें कि 'हमारा वह विरोधी, जिसे हम शत्रु मानते हैं, उसका हृदय विशुद्ध हो जाय और वह हमसे प्रेम करने लगे' तथा इस इच्छाकी पूर्तिके लिये हम प्रार्थना करने चलें । प्रार्थनाकी यही कुजी अपना लें । अनन्त प्रेमार्णव प्रभुमें मनको तन्मय कर दें । यह भावना करें, 'विश्वके अणु-अणुमें प्रभुका प्रेम भरा है, अणु-अणुसे दिव्य प्रेम झर रहा है, मेरे हृदयमें प्रेमकी सरिता प्रवाहित हो रही है, मेरे चारों ओर प्रेमका सागर हिलोरें ले रहा है ।' कोई शब्द सुन- पड़े तो भावना करें कि 'ओह ! प्रभुके प्रेमसे सना यह शब्द कितना मधुर है ।' कैसा भी स्पर्श प्राप्त हो, सोचें, 'ओह ! कितना प्रेमिल स्पर्श है ।' कैसा भी रूप क्यों न दीखे, अनुभव करें कि 'ओह ! प्रभुका प्रेम तो इस रूपके अणु-अणुमें व्याप्त है ।' रसनेन्द्रियको जिस रसकी अनुभूति

हो, नासिकाका जिस गन्धसे संयोग हो, सोचे—‘इस रसमें, इस गन्धमें प्रमुका दिव्य प्रेम ही तो ओत-प्रोत है ।’ फिर हम देखेंगे हमारे उस विरोधीमें, जिसका हम विनाश चाहते थे, प्रेममय प्रमुका चमत्कार प्रकट हो गया है, हमारी प्रार्थना सफल हो गयी है ।

इसका निष्कार्ष यह है, पर-हित-विरोधी अपवित्र इच्छामें सुधार करके उसे प्रभुसे जुड़ने लायक पवित्र बनाकर फिर हम प्रार्थना करें ।

९—मनसे यह धारणा निकाल दें कि प्रभु हमारी प्रार्थनासे ढबकर हमारी इच्छाकी पूर्तिके लिये (जैसे खुशामदसे राजी होकर यहाँका अफसर कर देता है वैसे) अपने परम मङ्गलमय विधानमें हेर-फेर कर देंगे । प्रभुका मङ्गलमय विधान तो निश्चित है, अनादि-कालसे निश्चित क्रमसे क्रियाशील है, अनन्तकालतक निश्चित क्रमसे क्रियाशील रहेगा । इसमें हेर-फेर वे प्रायः नहीं करते । हेर-फेर तो हमारी इच्छामें होकर हमारी इच्छाका उनके मङ्गलमय विधानके अनुकूल हो जाना आवश्यक है, तभी उस इच्छाकी पूर्ति सम्भव है ।

१०—प्रार्थनासे पूर्व हम अपनी इच्छित वस्तुको कुछ देरके लिये प्रसन्नचित्तसे पूर्ण एकाग्रतासे स्मरण करते रहें, फिर अपनी भाषामें भगवान्‌के तत्सम्बन्धी रूपका निरूपण एवं मनन तथा भावना आरम्भ करें । किसीसे सीखी हुई भाषामें प्रार्थना करनेपर उसमें प्रायः कुछ-न-कुछ कृत्रिमता आ ही जाती है, जो प्रभुसे हृदयका शीघ्र संयोग होनेमें आवरणका-सा काम करने लगती है । इसीलिये अपनी स्वाभाविक भाषाका प्रयोग ही वाञ्छनीय है ।

११—हम इच्छापूर्तिकी अवधि, पूर्तिके प्रकार प्रभुके लिये निर्धारित न कर दे। हमारी वह इच्छित वस्तु कब मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये दोनों बातें हम सर्वथा प्रभुकी मङ्गलमयी इच्छापर ही छोड़ दें।

१२—जहाँतक अधिक-से-अधिक सम्भव हो, हम प्रार्थना करते रहें, पर यह बात प्रभुके अतिरिक्त किसी भी दूसरेपर प्रकट न होने पावे।

उपर्युक्त बारह बातोंपर ध्यान रखकर इच्छितकी प्राप्तिके लिये हम यदि प्रार्थना करते हैं तो तत्काल लाभ हमें मिलता ही है। केवल मनचाही वस्तु हमें मिल जाय, इतना ही नहीं, क्रमशः हमारे हृदय-मन-प्राणमें प्रभुकी दिव्य ज्योति भरने लगती है। ये आलोकित हो उठते हैं। यह आलोक एक दिन हमें अपने अदर नित्य अवस्थित प्रभुके मन्दिरका दर्शन करा देता है। बस, यहींसे हमारी सच्ची प्रार्थना—भगवान्से भगवान्के लिये—भगवत्प्रेमके लिये प्रार्थना आरम्भ होती है। फिर तो हमारे मनकी समस्त वृत्तियाँ सब ओरसे सिमटकर प्रभुके दिव्य मन्दिरकी ओर ही केन्द्रित हो जाती हैं। कदाचित् कोई वृत्ति किसीकी करुण पुकार सुनकर पीछेकी ओर मुड़ती है तो उस समय हम यही पुकार उठते हैं—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

हे नाथ ! सभी सुखी हों, सभी रोगरहित हों, सभी कल्याणके दर्शन करे, दुःखका भागी कोई भी न बने ।'



प्रभुके साथ सम्पर्क

किसी भी भावसे हम प्रभुकी ओर मुड़े हमारा परम कल्याण ही होगा । यदि हम अपने स्वरूपको जानकर प्रभुके साथ हमारा जो सम्बन्ध है, उसे समझकर हम उनकी ओर बढ़ें तो सर्वोत्तम बात है ही, किंतु यह सब कुछ भी न जानकर किसी सासारिक दुःखसे ही व्याकुल हुए, उस दुःखसे त्राण पानेकी इच्छामे ही अथवा किसी लौकिक अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिको ही उद्देश्य बनाकर हम उन्हें अपने मनमे स्थान देने लगे, तब भी हम एक-न-एक दिन उनसे अवश्य जा मिलेंगे । इसमें तनिक भी सदेहके लिये स्थान नहीं है ।

आजके युगमे, जब कि हमारा मानसिक वरातल अत्यन्त नीचा हो गया है, अतिशय सकुचित विचारोंमे हमारा मन भरा हुआ है, हम यह आशा करे कि हमको पहले अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाय, प्रभुके साथ अपने सम्बन्धका भान होने लग जाय, तब इसके बाद हम जड जगत्मे ऊपर उठकर, निष्काम होकर केवल प्रेमके लिये ही प्रभुमे प्रेम करे, भजनेके लिये ही उन्हें भजें,

तो यह आशा केवल दुराशामात्र सिद्ध होगी । ऐसा हो जाय, यह कौन नहीं चाहेगा । प्रभुकी उपासनाका, भजनका, प्रार्थनाका आदर्श तो यही है । पर सर्वसाधारणके लिये इस आदर्शका अनुसरण सम्भव नहीं दीखता । कहनेको तो हम हजारों ऐसे हैं जो आत्मज्ञानी होनेका दम भरते हैं, किंतु हजारोंमेंसे किसी एकको भी वास्तवमे स्वरूपज्ञान है या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि यदि सचमुच ही स्वरूपज्ञान हो गया होता तो हममेंसे प्रायः एक-एककी ऐसी भेडियाधसान गति सर्वथा नीचेकी ओर—अधिक-से-अधिक केवल सासारिक सुख ही बटोरनेकी ओर प्रवृत्ति कदापि न होती । अपने इस शरीरको आराम देनेके पीछे, अथवा शारीरिक कष्ट उठाकर भी अपने इस कल्पित नामकी झूठी ख्याति समाजमें, देशमें, ससारमें फैलानेके पीछे हम पागल-से नहीं बन गये होते । स्वरूपका ज्ञान होनेपर यह सम्भव ही नहीं कि एक ओर तो हम धर्माचरण करनेका, दान-पुण्य करनेका, देश-सेवा तथा समाज-सेवा करनेका, गरीब-दुखियोंको सुख पहुँचानेका, तीर्थसेवनका और ईश्वर-भक्तिसम्बन्धी विविध कर्मोंका अभिनय करें तथा दूसरी ओर धन बटोरनेके जितने भी अन्यायपूर्ण, पापपूर्ण साधन हैं, उनमें घृणा, लज्जा आदि सर्वथा छोड़कर उन सबको सदा अपनाये रखें । विश्व-विद्यालयकी दार्शनिक कक्षाओंमें, वेदान्तकी पाठशालाओंमें आत्माके स्वरूपपर विचार कर लेना, पाठ पढ़ लेना तथा भरी सभामे जनताके समक्ष आत्मज्ञानकी महत्ता और त्यागकी प्रशंसाके पुल वॉंधते हुए मनोरञ्जक सुन्दर-से-सुन्दर प्रवचन कर देना सहज है । ऐसा मौखिक स्वरूप-ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान और दिखाऊ वैराग्य तो हममेंसे बहुतोंको

है, परतु यहाँ प्रस्तुत प्रसङ्गमें ऐसे ढुलमुल, कथनमात्रके ज्ञान-वैराग्यसे तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो उस यथार्थ स्वरूपज्ञानसे मतलब है, जिसके आलोकमें बुद्धि यह दृढ़ निश्चय कर लेती है, मन सच-मुच यह स्वीकार कर लेता है—

जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः ।
 फलानामिव वृक्षस्य कालनेश्वरमूर्तिना ॥
 आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः ।
 अविक्रियः स्वदृग् हेतुर्व्यापकोऽसङ्गव्यनावृतः ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ७ । १८-१९)

जन्म, अस्तित्वकी प्रतीति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश —ये छ विकार देहके हैं, देहमें ही दीखते हैं, ये आत्मामें नहीं हैं। आत्मासे, हमारे स्वरूपसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे काल भगवान्की प्रेरणासे वृक्षोंमें प्रतिवर्ष फल लगते हैं, फलोंके अस्तित्वका अनुभव होता है, वे बढ़ते हैं, पकते हैं, क्षीण होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, वृक्ष ज्यों-का-त्यों सदा बना रहता है, वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त छहो विकार देहके ही होते हैं, आत्माके नहीं, आत्मा तो सदा एक-रस बना रहता है।* इस प्रकार शरीरके धर्मोंकी दृष्टिसे तो आत्मा विलक्षण है ही, स्वरूपगत धर्मोंके कारण भी वह शरीरसे सर्वथा भिन्न है। आत्मा नित्य है,

* वृक्षसे आत्माकी तुलना भी यहाँ आशिक रूपसे ही समझनी चाहिये, क्योंकि वास्तवमें तो वृक्ष भी षड्विकारयुक्त है और आत्मा है सर्वथा विकाररहित। आत्माकी तुलनाके योग्य तो असलमें अन्य कोई वस्तु ही नहीं है।

उत्पत्ति-विनाशरूप दो विकारोंसे रहित है, पर यह शरीर अनित्य है, उत्पत्ति-विनाशयुक्त है, आत्मा अव्यय है, क्षय नामक विकारसे रहित है और शरीर क्षयसे युक्त है, आत्मा अविक्रिय—अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, इन तीनों विकारोंसे भी सर्वथा रहित है, शरीर इन तीनों विकारोंसे युक्त है, आत्मा शुद्ध है, शरीर मलिन है, आत्मा एक है, शरीर अनेक, आत्मा क्षेत्रज्ञ—ज्ञाता है, शरीर जड क्षेत्र है, आत्मा आश्रय है, शरीर उसके आश्रित है, आत्मा स्वयंप्रकाश है, शरीर परप्रकाशित है; आत्मा कारण है, शरीर कार्य है, आत्मा व्यापक है, शरीर व्याप्य है, आत्मा असङ्ग है, शरीर ससक्त है, और आत्मा निरावरण है एवं शरीर है आवरणरूप ।’

—ऐसा निश्चय, ऐसी स्वीकृति हो जानेपर, आत्माके उपर्युक्त वारह उत्कृष्ट लक्षणोंको सचमुच हृदयङ्गम कर लेनेपर अनिवार्य परिणाम यह होता है कि देह आदिमें अज्ञानजनित ‘मैं’ एव ‘मेरा’ जो मिथ्या भाव हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं, छोड़ ही देना चाहिये—

एतैर्द्वादशभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परैः ।

अहंममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ७ । २०)

शरीर आदिमेंसे ‘मैं’ ‘मेरा’ निकालने भरकी देर है । फिर तो प्रभुके साथ हमारा जो नित्य सम्बन्ध है, उसका ज्ञान भी हमें उसी क्षण स्पष्ट हो जाता है । इसके बाद अनन्त लीलामय प्रभुकी इच्छासे हमारे लिये दो मार्ग बन जाते हैं । या तो प्रभुका चिदानन्दसिन्धु उमडता है, उसमें भक्तिरसकी वाढ़ आ जाती है

और उसमें डूबकर हम कृतार्थ होते हैं। शास्त्रीय भाषामे इसे भक्ति-निष्ठाका मार्ग कहते हैं। अथवा प्रभुकी चिदानन्द-ज्योति हमारे कण-कणको उद्भासित कर हमे आत्मसात् कर लेती है। उससे एक होकर उसीमे हम सदाके लिये विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान-निष्ठाका पथ है।

स्वरूपज्ञान, इस ज्ञानका आनुषङ्गिक फल देहादिमे 'मै' 'मेरा' इन मिथ्या भावोका नाश, प्रभुके साथ अपने सम्बन्धका स्फुरण, फिर भक्ति या ज्ञानका प्रादुर्भाव—यह एक क्रम हुआ। अब हम सोचकर देखें स्वरूपज्ञानसे आगेकी तो बात दूर, मन-बुद्धिमे सचमुच उतरा हुआ ऐसा स्वरूपज्ञान भी हममेंसे कितनोको है ? कहना पडेगा कि ऐसे इने-गिने उदाहरण ही मिलेगे। किंतु इसे भी जाने दे, इतनी गम्भीरतासे इतने सूक्ष्म विचारके उपरान्त आत्मस्वरूपका निश्चय करके उसमे स्थित होनेकी बात छोड़ दे। केवल सरल विश्वास-मूलक स्वरूपज्ञान भी कितनोको है, यह देखे। 'हम देह नहीं, प्रभुके सनातन अश है, उनके चिदानन्द-सागरकी एक बूँद है, उनसे मिलनेका हमारा नित्यसिद्ध अधिकार है। उनसे मिलकर ही हम कृतार्थ हो सकेंगे' इतना-सा ज्ञान भी हममेसे कितने व्यक्तियोंके पास है ? शास्त्रको पढ़कर, अनुभवी पुरुषोंसे सुनकर इतना-सा विश्वास करनेवाले भी हम आज कितने हैं ? वर्तमान भूगोलपर हम जितने मनुष्य हैं, उनमे कितने ऐसे है, जो प्रभुकी उपासनाको आवश्यक कर्तव्य अनुभव करते हैं ? उपासनाके लिये ही हम उपासना करे, किसी कामनासे प्रेरित होकर नहीं, ऐसी मान्यता, यह सिद्धान्त कितने मनुष्योंका है ? विचार करनेपर

यही निर्णय होगा कि ऐसे पुरुषोकी सख्या बहुत ही कम है । अतएव इस परिस्थितिमें श्रेयस्कर मार्ग यही है कि जिस-किसी भी भावसे हो, एक बार हम प्रभुकी ओर झुकेँ । एक बार उन्हें अपने मनमे स्थान दें तो सही । किसी भी निमित्तसे यदि वे एक बार हमारे मनमें आ गये तो अपने आलोककी अमिट छाप तो वे छोड ही जायँगे । और क्या पता उनकी यही क्षुद्र-सी ज्योति किसी अनुकूल वातावरणका आधार पाकर ऐसी चमक उठे कि हमारा सारा अन्धकार सदाके लिये दूर हो जाय, हम अज्ञान-निद्रासे जग उठें तथा जीवन कुछ-से-कुछ हो जाय ।

आज सर्वत्र दुःख-दैन्यकी भरमार है । लाखोंमे शायद ही एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा, जो छातीपर हाथ रखकर यह कह सके कि 'मुझे कोई दुःख नहीं' । अन्यथा कुछ-न-कुछ दुःख सबके पीछे लगा है । शरीर व्याधिसे ग्रस्त है, पुत्र-कलत्र, बन्धु-बान्धवमेंसे कोई-न-कोई मनके प्रतिकूल है, धनका अभाव है, सम्मान नहीं मिल रहा है । हमारा देश दरिद्र है, जगत्का सुधार कैसे हो— ऐसे न जाने कितने कारण हैं कि जो हमें दुःखी बनाये रखते हैं । इन दुःखोंसे छूटनेके लिये हम कम प्रयास करते हो, यह बात भी नहीं । अपनी जितनी शक्ति है, सब खर्च कर देते हैं । फिर भी दुःखोंसे मुक्त नहीं हो पाते । कहीं एक मिटता है, तो दो नये खडे हो जाते हैं । अब कदाचित् इन दुःखोंसे त्राण पानेके लिये भी हम प्रभुकी ओर मुड़ सकते, तो भी निहाल हो जाते । पर यह भी हम नहीं करते । शरीर रुग्ण होनेपर डाक्टर-वैद्योंके पीछे अनाप-शनाप धन खर्च करेंगे, उनकी वतायी हुई औषधियोंका

आँख मूँदकर सेवन कर लेगे, किंतु एक बारके लिये भी यह मनमें नहीं आता कि सच्चे मनसे सरल विश्वासके साथ उन प्रभुको तो पुकार कर देखे कि जिन प्रभुके अनन्त ज्ञानसागरकी एक बूँदसे विश्वमे ज्ञानका सञ्चार होता है, जगत्मे जितने डाक्टर-वैद्य थे, हैं और होंगे, उन सबमे रोग-निदान करनेका समस्त ज्ञान, जिनके उस विन्दुमात्र ज्ञानसे ही आता है, जिनकी अपरिसीम शक्तिके एक क्षुद्र कणसे ही जगत्की समस्त ओषधियोमे रोग-नाश करनेकी शक्ति आती है, उन प्रभुके प्रति तो हम विश्वास नहीं कर पाते और डाक्टर-वैद्योपर, ओषधियोपर विश्वास कर लेते हैं। कई बार तो हम अपने इस अविश्वासको भ्रमवश अपनी निष्कामताका नाम दे देते हैं, कह बैठते हैं कि 'प्रभुसे रोग-मुक्तिके लिये प्रार्थना क्या करें, उसके लिये तो प्रभुने ओषधिसेवनका विधान किया ही है।' बात भी ठीक है। पर यह बात तो उन्हें शोभा देती है कि जिनका जीवन सचमुच सर्वथा प्रभुको समर्पित हो चुका है, जिनके व्यावहारिक जीवनमे अनाचार-दुराचारकी छाया भी नहीं है, जो कभी किसी भी परिस्थितिमें प्रभुसे कुछ भी याचना नहीं करते। किंतु जब हमारा जीवन पापोंसे पूर्ण है, पद-पदपर हम अपने व्यवहारमे अवैध उपायोका आश्रय ग्रहण करते हैं, प्रभुकी बौधी मर्यादाको तोड़ते हैं, तब यह आदर्शवाद हमारे लिये क्या मूल्य रखेगा ? जो हो, हमारा अविश्वास ही हमे प्रभुके सम्मुख जानेसे रोकता है। इसी प्रकार धनके लिये, मानके लिये, अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेके लिये हम जगत्की खाक छान डालेंगे, जो कभी नहीं करना चाहिये, यह सब करनेमें तनिक भी सकुचित नहीं होंगे, दुरे-से-दुरे अनाचार

और निपिद्ध आचरणका आश्रय ले लेंगे, पर यह सारा जगत् जिनके अनन्त वैभवके किसी क्षुद्र अशकी छायामात्र है, उन प्रभुके द्वारपर जानेका विचारतक मनमे उदय नहीं होगा । इसे हम इस युगका अभिशाप कहे, या अपनी बुद्धिकी जडता ! कुछ भी कहें— आज हमारी दशा तो यही हो रही है ।

अब जैसे भी हो, इस पतनके गड्ढेसे हमे ऊपर उठना है । जितना शीघ्र चेत जायँ, उतना ही कल्याणकर है । अन्यथा हमारे दुःख घटनेके बदले दिनोदिन अधिकाधिक बढ़ते ही जायँगे । जबतक निरामय प्रभुकी शक्तिको हम स्पर्श नहीं करेंगे, तबतक हमारे रोंग मिटनेके ही नहीं हैं, भले ही हजारों अस्पताल खुल जायँ, सैकड़ो नवीन ओषधियोंका आविष्कार हो जाय । जबतक हमारा मन प्रभुकी एकरस, अखण्ड शान्तिको किसी भी अशमे छूने नहीं लगेगा, तबतक यहाँके समस्त साधन हमारे हृदयकी ज्वालाको बुझानेमें व्यर्थ ही सिद्ध होंगे ।

ओषधियोंका, चिकित्साका, जागतिक साधनोंका विरोध नहीं है, क्योंकि वे भी तो भगवान्से ही आये हैं । उनकी भी अपने स्थानपर उपयोगिता है ही । उनकी सहायता लेनी चाहिये, किंतु उसीके साथ-साथ हम ऐसी चिकित्सा क्यों न करे जो यहाँके समस्त रोगोंपर, दुःखोपर तो अव्यर्थ सिद्ध हो ही, लगे हाथ हमारे भव-रोंगको भी शान्त कर दे, अनादिकालसे हम जो जल रहे हैं, उस जलनको भी मिटाकर हमे स्थायी, शाश्वती शान्ति प्रदान कर दे । हमारे ज्योतिहीन नेत्रोंमें श्रद्धाकी ज्योति भर दे, जिससे हमारे इस जीवनमें तथा जीवनके उस पार भी—सर्वत्र सदाके लिये उजाला

हो जाय । सचमुच ही यदि रोगो—दुःखोंमें त्राण पानेके उद्देश्यसे ही ऐसे प्रत्येक अवसरपर ही—यदि हम प्रभुको पुकारे, सरल विश्वासके साथ एकान्त मनमें उनकी महायत्नाका आवाहन करें तो हमारा यहाँका रोग-दुःख तो मिट ही जाय, विना ओपधि किये, विना कुछ प्रयत्न किये ही मिट जाय, साथ ही हमारे अंदर प्रभुके प्रति श्रद्धाका भी उन्मेष होने लगे और यह श्रद्धा निरन्तर बढ़ती ही जाय । इतना ही नहीं, अन्तमें कभी किसी दिन अनादि अज्ञान-में मुँदी हुई हमारी आँखें भी खुल जायँ, मोह-निद्रा टूटकर हमें यह अनुभव होने लगे कि यहाँ तो जगत् नामक कोई वस्तु असल-में है ही नहीं, हैं केवल एकमात्र प्रभु, और है उनकी आनन्द-मयी लीला तथा यह अनुभव करके हम सदाके लिये सुखी हो जायँ ।

आजसे अठारह वर्ष पहलेंकी एक सच्ची घटना है । १९३४ ई० की बात है । पोर्ट्स माउथ नगरके मिस्टर आल्फ्रेड जी सरले (Mr Alfred G Searle) नामक सज्जनकी आँखोंमें ग्लूकोमा (Glaucoma) नामक रोग हो गया । आँखका यह एक भयङ्कर रोग है, जो सहजमें अच्छा नहीं होता । आँखके सर्जनने उन्हें बताया कि यदि तुरंत चर्चा लगाया जाय तो शायद थोड़ी-सी रोगनी बच सकती है, पर यदि चर्चा लगनेमें तनिक भी देर की गयी तो आप सर्वथा अवे हो जायँगे । इतना ही नहीं, इतनी भयङ्कर पीडा शुरू हो जायगी कि आँखोंको निकाल देनेपर ही वह शान्त होगी । किंतु मिस्टर सरलेने चर्चा लगवाना स्वीकार नहीं किया । वे प्रभुके दृढविश्वासी थे, उनका विश्वास था कि प्रभु मेरी आँखोंको विना

चीरा लगाये ही अवश्य ठीक कर देगे । सर्जनके निदानमें तो भूलकी कोई सम्भावना थी ही नहीं । ग्लूकोमा रोगके लक्षण इतने स्पष्ट होते हैं कि आँखका साधारण डाक्टर भी उसे देखकर निश्चित-रूपसे निदान कर सकता है । यहाँ भूलकी, मतभेदकी जगह नहीं रहती । अतः मिस्टर सरलेके लिये सर्जनके निदानपर सदेह करनेका कोई कारण न था, रोगकी भयङ्करताको वे समझ गये थे । फिर भी उनका विश्वास प्रभुपरसे हिला नहीं, और सर्जनसे यह कहकर कि आगामी शुक्रवारको आपसे मिलूँगा—वे लौट आये । जो हो, गुरुवारके प्रातःकालतक तो आँखोंमें कोई सुधार नहीं हुआ, किंतु मिस्टर सरलेके विश्वासमें तनिक भी शिथिलता नहीं आयी । 'मेरे नेत्रोंकी ज्योति पुनः लौट ही जायगी, प्रभु मुझे निराश नहीं करेंगे ।' उनकी यह भावना ज्यों-की-स्यों बनी रही । आखिर प्रभुके प्रति ऐसे विश्वासका जो फल होना चाहिये, वह हुआ ही । गुरुवारकी रात ढलते-न-ढलते उनकी आँख सर्वथा चमत्कारपूर्ण ढंगसे बिल्कुल ठीक हो गयी । नेत्रोंकी पूरी ज्योति लौट आयी, यहाँतक कि दीवालपर टँगे कलेंडरके बहुत छोटे अक्षरोंको भी वे स्पष्ट पढ़ सकते थे ।

जिस प्रकार मिस्टर सरलेकी आँखें बिना चीरा लगाये ही, बिना किसी उपचारके ही, क्षणोंमें प्रभुने ठीक कर दीं, वैसे ही वे औरोंकी आँखें ठीक कर सकते हैं, किसीका भयङ्कर कैंसर मिटा सकते हैं, कुछ दूर कर सकते हैं, यक्ष्मा आराम कर सकते हैं, ज्वरकी ज्वाला शान्त कर सकते हैं, समग्रणी हर ले सकते हैं, जितने रोग हैं, सबसे

मुक्त कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, पर करते नहीं, यह बात भी नहीं। जहाँ विश्वात्मपूर्वक कोई उनमें यह करवाना चाहता है वहाँ अवश्य-अवश्य वे करते हैं। ऐसी घटनाएँ एक नहीं, अनेक—ऊपर वर्णित घटनाकी अपेक्षा भी बहुत अधिक चमत्कारपूर्ण एवं विस्मयमं डाल देनेवाली घटनाएँ आज भी—जहाँ प्रभुके प्रति सशय-हीन विश्वास है वहाँ—घटित होती हैं। यह बात दृग्गरी है कि हमारी श्रद्धाहीन आँवोंके सामने वे व्यक्त न हों, हमें सुननेतकको भी वे न मिलें। हमें अवकाश ही कहाँ है कि ऐसी घटनाओंको ढूँढ़ें, देखें, पढ़ें, सुनें और पक्ष छोड़कर उनपर विचार करें, मनन करें / कदाचित् कभी कोई सुन भी लेते हैं तो उम्मे अपने मनोविज्ञानके अधूरे ज्ञानपर कसकर 'यह तो इच्छाशक्ति (Will-power) का चमत्कार है' यह फतवा दे बैठते हैं। इस इच्छाशक्तिके भी गूढ़ उद्गम प्रभु, प्रभुकी अपरिसीम शक्ति, उनकी शक्तिके अगणित असंख्य चमत्कारोंकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जो हो, यहाँ तो तात्पर्य इतनेमें ही है कि रोग-दुःखमें प्राण पानेके लिये यदि हम प्रभुको पुकारें तो वे अवश्य सुनते हैं। हम निमित्तमें भी यदि हम उनकी ओर तार्किक, उन्हें अपने मनमें उतरने दें तो हमारा बड़ा कल्याण हो। अन्य ममस्त चिकित्सा, उपचार जहाँ व्यर्थ हो जाते हैं, वहाँ प्रभुकी महायत्ना चमत्कार उत्पन्न कर देती हैं। प्रभुकी यह महायत्ना हमें केवल इच्छित फल देकर ही समाप्त नहीं हो जाती है, हमारे अंदर एक अमिट मस्मरण छोड़ जाती है। यह मस्मरण हमारे परम कल्याण-का बीज बन जाता है। अनुकूल माधन मिलते जायँ तो यह बीज

शीघ्र अङ्कुरित, पल्लवित, पुष्पित होकर फल देने लग जाय । पर हम कहीं प्रभुके इस उपकारको भूल जायँ—और अधिकांशमें यही होता भी है—तो भी इस बीजका नाश नहीं होता, यह भीतर-ही-भीतर हमारे अंदर कुछ-न-कुछ काम करता ही रहेगा, कम-से-कम इतना काम तो यह करेगा ही कि पुनः अन्य दुःख-विपत्तिके अवसर-पर प्रभुकी सहायता माँगनेके लिये स्फुरणा उत्पन्न कर देगा । यह क्या कम है ? पथ भूले हुएको गन्तव्य पथका संकेत कर देना कितनी बड़ी सहायता है !

जैसे रोगसे छूटनेकी बात है, वैसे ही अन्य अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिये भी हम प्रभुकी सहायता लेकर अपने कल्याणका पथ विस्तृत कर सकते हैं । यह स्मरण रखनेकी बात है कि अतिशय पवित्र, परम उत्कृष्ट, ऊँचा-से-ऊँचा भाव रखनेवाला एक मनुष्य—

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परामर्शं युक्तामपुनर्भवं वा ।

आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥

(श्रीमद्भा० ९ । २१ । १२)

‘मैं प्रभुसे अष्टसिद्धियोंसे युक्त परम गति नहीं चाहता, वे मुझे त्रिविध दुःखसे मुक्त कर दें, यह कामना भी उनसे नहीं करता । मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि विश्वके समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित हो जाऊँ, और फिर उनका सारा दुःख मैं ही भोगूँ, सबका दुःख-भार मुझपर आ जाय, जिससे और सभी दुःखसे त्राण पा जायँ, कहीं किसीको कोई दुःख रहे ही नहीं ।’

—इस प्रकारका परम शुभ, आदर्ग विचार रखनेवाला व्यक्ति प्रभुके लिये जितना स्नेहपात्र है, उतना ही स्नेहपात्र वह व्यक्ति है जो उनसे विश्वासपूर्वक यह माँग रहा है—‘नाथ ! अमुक आफिसमे मुझे सौ रुपयेवाला स्थान दिला दो ।’ दोनोपर ही प्रभुकी ओरसे तो अपरिसीम स्नेहकी वर्षा हो रही है । प्रभुके लिये यह कदापि सम्भव नहीं कि पहलेका सम्मान करे और दूसरेकी उपेक्षा । पहला ऊँचा और दूसरा क्षुद्र—यह अन्तर तो हमारी दृष्टिमे है । प्रभुकी दृष्टिमे तो दोनो ही उनके हृदयके टुकडे है, दोनोके रूपमें वे ही वे हैं । हाँ, ऐसा तो कह सकते हैं कि पहला तो प्रभुकी स्नेहधारामे बहकर अपनी यात्रा समाप्त करके प्रभुके आनन्दरससिन्धुमे निमग्न होनेके लिये तटके अत्यन्त समीप पहुँचा हुआ उनका प्रौढ पुत्र है एव दूसरा उनकी स्नेहभरी गोदमे खेलनेवाला अवोध शिशु है, जो उनकी ठोडी पकडकर उनसे मिट्टीका एक खिलौना माँग रहा है, खिलौनेके लिये मचला हुआ है, खिलौना न पाकर दुखी हो रहा है । भोला शिशु जो ठहरा, प्रभुके अनन्त पारावारविहीन आनन्द-रस-सागरकी वात जानता तक नहीं, अभी तो उसकी यात्रा आरम्भ हुई है । अस्तु, प्रभुसे अपने अभीष्टकी याचना करनेमे हमे तनिक भी सकोच नहीं करना चाहिये । इस निमित्तसे ही प्रभुसे जो हमारा सम्बन्ध जुड़ेगा, वह हमारे लिये अमूल्य निधि है । अवश्य ही इसमें दो बातोंकी सावधानी रखनेकी आवश्यकता है । एक तो हमारी माँगी हुई वस्तु ऐसी न हो, जिसमें जगत्के किसी भी प्राणीके लिये अमङ्गल—अहितकी भावना सनी हो, क्योकि ऐसी याचनाका उत्तर प्रभुकी ओरसे

निश्चितरूपसे नहीं ही मिलता । तथा दूसरी बात यह है कि मनमें, 'प्रभु देंगे कि नहीं देंगे' ऐसा सशय तनिक-सा भी क्षणमात्रके लिये भी भूलकर भी कभी न आने दें । 'अवश्य देंगे' यह दृढ विश्वास रखकर हम उनसे माँगें । फिर दो बातोंमें एक बात अवश्य होगी । या तो प्रभु वह वस्तु हमें दे देंगे, या हमारे मनसे उस वस्तुके पानेकी इच्छाको सर्वथा मिटाकर हमें शान्ति दे देगे । इतना ही करके वे चुप बैठ जायँगे, सो बात नहीं, इसके साथ ही वे कुछ ऐसी चीज भी दे डालें, जो हमारी दरिद्रताको सदाके लिये जला देगी । भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासका यह अमर सदेश अपने हृत्पट-पर स्वर्णाक्षरोंमें हम लिख लें, यह कभी मिथ्या नहीं होगा—

जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जौं,

जियँ जाचिअ जानकि-जानहि रे ।

जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ,

जो जारति जोर जहानहि रे ॥

'जगत्में किसीसे मत माँगो । यदि माँगना ही है तो मन-ही-मन प्रभुसे माँगो । प्रभुसे माँगते ही याचकता (दरिद्रता, कामना) जो सारे ससारको बरबस जला रही है, स्वयं जल जायगी ।'

सचमुच प्रभुसे माँगनेवालेका माँगतापन सदाके लिये मिट ही जाता है—

तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो ।

यह ठीक है कि अहितकर वस्तु माँगनेपर भी प्रभु नहीं देते । स्नेहमयी जननी भी तो अपने भोले बच्चेके माँगनेपर उसके हाथमें

चमकती हुई छूरी नहीं देती । किंतु कहीं बच्चा मचल जाय, अड़ जाय, किसी भी फुसलावेमे न आवे तो मा छूरी हाथमे दे देती है, पर हाथको पकडे रहती है कि कहीं काट न ले । फिर जगत्की अनन्त माताओके हृदयोमे अनादिकालसे सञ्चरित वात्सल्य-स्नेह, जिस स्नेहसके अनन्त समुद्र प्रभुसे आता है, भूत, वर्तमान, भविष्यकी सब माताओका पुञ्जीभूत, एकत्रित वात्सल्य जिनके स्नेहकी एक बूँदके भी बराबर नहीं ठहरता, वे प्रभु क्या ऐसा नहीं कर सकते ? अवश्य कर सकते हैं । किसी अबोध, पर उनके सर्वथा परायण हुए परम विश्वासी शिशुके मचल जानेपर, अड़ जानेपर, हालाहल विषको भ्रमवश अमृत मानकर उसे ही पिला देनेके लिये हठ कर लेनेपर प्रभु भी ऐसा कर सकते हैं । यहाँकी मातामे तो शक्ति-सामर्थ्य सीमित है, वह किसी अशतक ही अपने लडले शिशुका हठ निभा सकती है । पर प्रभुकी सामर्थ्य तो सर्वथा अनन्त, अपरिसीम है । वे सर्वभवनसमर्थ हैं, अघटन-घटन उनके लिये नित्य हँसी-खेल है । वे सचमुच लोकदृष्टिमे हालाहल विषरूप वस्तु दे सकते हैं, बाह्यदृष्टिमें वह वस्तु ज्यो-की-र्यो विषरूप ही दीखेगी, पर वह उनके जनके लिये, जिसे उन्होंने दी है, या देंगे, उसके लिये परम अमृत बन जायगी, उसे अमर कर देगी । भले ही प्रभुका यह अमित प्रभाव हमारी तर्कशील बुद्धिमे स्थान न पावे, हम इसपर विश्वास न कर सकें, यह बात दूसरी है । अथवा—‘प्रभुके भक्तमें हठ हो ही नहीं सकता, प्रभुका भक्त तो अपनी इच्छा प्रभुकी इच्छामे ही मिला देता है, भक्तकी बुद्धि परम शुद्ध होती है, वह अपने लिये किसी भी अहितकर वस्तुकी याचना कर ही नहीं

सकता'—इस प्रकार आदर्श भक्तोंकी बात कहकर हम इन बातोंका खण्डन भले कर दें । या ऐसा न करके अपने पाण्डित्यके बलसे 'सर्व-समर्थता' शब्दकी व्याख्या करते हुए प्रभुकी शक्ति-सामर्थ्यकी अपनी मनमानी एक सीमा निर्धारित कर दें तथा प्रमाणमे कुछ ऐसे युक्तिपूर्ण वाक्योंकी रचना कर लें कि उनके उत्तरमे बाध्य होकर किसीको कहना ही पड़े कि प्रभु यह तो नहीं कर सकते । पर इससे न तो प्रभुका अमित प्रभाव ही कम होता है, न प्रभुके साम्राज्यका यह अनन्त वैचित्र्य ही मिटता है और न यह सीमा ही बँधती है कि 'विश्वाससे यह तो हो सकता है, यह नहीं हो सकता ।' जो सत्य है, वह सत्य ही रहेगा। हमारी इच्छा, हम उसे माने, ढूँढें, पहचानें, परीक्षा करें अथवा उसकी ओरसे मुँह मोड़े रहें । किंतु बुद्धिमानी इसीमें है कि दुराग्रह त्यागकर हम उसकी एक बार कम-से-कम परीक्षा तो अवश्य करें । यद्यपि प्रभु एव प्रभुकी शक्ति-सामर्थ्यसम्बन्धी बातें परम सत्य होनेपर भी व्यक्त होनेके लिये श्रद्धाकी अपेक्षा अवश्य रखती हैं, किंतु पक्षपातशून्य परीक्षकको उनका आभास अवश्य मिल जाता है । हम सर्वसाधारणके लिये तो—यदि प्रभुके अस्तित्वमें थोडा भी विश्वास है तब—यही परम कल्याणकारी साधन है कि प्रभुपर विश्वास और भी दृढ़ करते हुए उनकी सहायता हम जिस-किसी निमित्तसे भी लेने लग जायँ । इसमे लाभ-ही-लाभ है ।

ऐसा भी कहा जाता है कि 'प्रभुकी सकाम उपासना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वास्तवमे सच्ची श्रद्धा तो होती नहीं और इस कारण इच्छित फल नहीं मिलता, जिससे उल्टे और अश्रद्धा हो जाती

है ।' बात बहुत ठीक है । ऐसा होता है, पर हम यह सोचे कि हमारा इसमें बिगडा क्या ? पहले भी श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धाकी बिल्कुल झूठी नकल थी, श्रद्धा होनेका भ्रम था, क्योंकि सच्ची श्रद्धा होनेपर यह असम्भव है कि प्रभुकी ओरसे प्रत्युत्तर न मिले, अवश्य-अवश्य उत्तर मिलेगा ही । हमे कोई उत्तर नहीं मिला, यही इस बातका ज्वलन्त प्रमाण है कि हमारा विश्वास प्रभुपर नहीं था, नहीं है । अब इच्छित उत्तर न मिलनेपर यदि भ्रम मिटकर हमारे मनका सच्चा रूप प्रकट हो गया तो इसमें लाभ हुआ या हानि हुई ? हमारी स्थिति जो पहले थी वही अब है, अधिक लाभ यह हुआ कि श्रद्धाका दम्भ अब हम नहीं करेंगे । साथ ही एक बहुत बडा लाभ हमारी जानकारीमें न आकर ही और हो गया । उतने मास, उतने दिन या उतने घटे जो प्रभुके सम्पर्कमें बीते, इस निमित्तसे हमने प्रभुको इतने समयके लिये जो अपने मनमें बसाया, यह इतनी मूल्यवान् सम्पत्ति एकत्र हो गयी कि उसकी तुलना नश्वर जगत्के किसी भी पदार्थसे सम्भव ही नहीं । इतना ही नहीं, सचमुच हमारे अदर सच्ची श्रद्धाके बीज भी बिखेर दिये गये । उन बीजोंकी क्रिया बढनेपर अश्रद्धाका हमारा यह आवरण भी नष्ट हो जायगा । फिर हम बाहर-भीतर समान बन जायेंगे । अतः ऐसी अश्रद्धा भी होनेकी सम्भावना हो तो यह भी वरण करने योग्य है, प्रभुसे न जुडनेकी अपेक्षा उनसे जुडकर ऐसी अश्रद्धाको मोल ले लेना भी बहुत ही मङ्गलकारक है । जैसे भी हो, तथा परिणाममें कुछ भी हाथ लगे, किसी निमित्तमें हम प्रभुसे जुडे, यही सार बात है ।

अन्तमे एक बात और रही, जिसका जानना आवश्यक है। रोग-दुःखसे त्राण पानेके लिये अथवा अपनी अभिलषित वस्तुकी प्राप्तिके लिये यदि हम प्रभुकी सहायता लें, तो उसका रूप क्या होना चाहिये, उसका ढंग क्या होना चाहिये ? उसका प्रकार क्या है ? तो इसके लिये अत्यन्त संक्षेपमें तथा सरलतासे समझमे आनेवाली कुछ बातें ये हैं—

१—कल्पना करे, शरीरमे कोई व्याधि हो गयी, गठियाकी पीडासे प्राणव्याकुल हैं, इससे मुक्त होनेके लिये हम प्रभुसे सहायता चाहते हैं। इसके लिये हमें चाहिये कि अपनी सारी शक्ति बटोरकर मनको एक बार पीडासे हटाकर हम ऐसी भावना करे—‘हमारे भीतर, बाहर, दाहिने, बाये, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर हमारे अणु-अणुमें आनन्दमय प्रभु भरे हुए हैं, यहाँ सर्वत्र प्रभुका अनन्त असीम अपार आनन्द भरा है। प्रभुकी अखण्ड अपरिसीम शान्ति सर्वत्र फैली हुई है, हम प्रभुके उस आनन्दमे, उस शान्तिमे ही डूबे हुए हैं, प्रभुके आनन्दका, उनकी शान्तिका समुद्र लहरा रहा है, हमारा अणु-अणु अपार अनन्त असीम आनन्दसे, शान्तिसे भर गया है।’ इस प्रकारकी भावनामे मनको सर्वथा डुबो देनेका प्रयास करे। यह नहीं कि पीडाको याद कर-करके प्रभुको बार-बार पीडाकी स्मृति दिलावें। प्रभु पहलेसे जानते हैं कि हमारी इच्छा क्या है। अब यदि हम सचमुच इस भावनासे मनको एक बार पूरा-पूरा भर सके, उस मनको जिसमे यह विश्वास पहलेसे ही भरा हो कि प्रभु हमारी गठियाकी पीडाको निश्चय मिटा देगे तो सच माने, भावना टूटने-न-टूटते गठियाकी पीडा

भी न जाने कहाँ चली जायगी और हमारा रोम-रोम प्रभुके प्रति कृतज्ञतासे भर उठेगा । दृढ विश्वास एवं मनकी एकाग्रता—दो ही बातें अपेक्षित हैं । ये तो होनी ही चाहिये । इसमें भी पीड़ावश एकाग्रतामें त्रुटि आवे तो वह भी क्षम्य है । पर विश्वास शिथिल न हो यह अत्यन्त आवश्यक बात है । विश्वासकी कमी ही फल-उत्पादनमें विलम्ब करती है । अतः एक बारकी भावनामें पीडा न मिटे तो विश्वासको और भी सुदृढ बनाकर यह भावना बार-बार करते ही जायँ । विश्वासका काँटा जहाँ अपेक्षित स्थानपर आया कि निश्चय ही या तो प्रभु हमारी पीडा हर लेगे, या पीडा मिटानेकी वासना हरकर हमारे अंदर एक अद्भुत शान्ति, सहिष्णुताका सञ्चार कर देंगे । फिर पीडाका अनुभव भले हो, पर मन सर्वथा अनुद्विग्न एव शान्त होकर एक अनिर्वचनीय आनन्दसे भर उठेगा । यह आनन्द कैसा होता है, इसे हम केवल अनुभव कर पायेंगे, दूमरेको बता सके, यह सम्भव नहीं ।

२—किसी अभिलषित वस्तुकी प्राप्तिका उद्देश्य होनेपर एक बार प्रभुसे अपनी इच्छा निवेदन कर दे । प्रभु जानते तो हैं ही पर अपने सतोपके लिये ही ऐसा कर ले । फिर निश्चिन्त हो जायँ—इस भावनासे कि प्रभु हमारी इस इच्छाको अवश्य-अवश्य पूरी करेगे ही । इसके बाद प्रभुके अनन्त वैभवमय स्वरूपमें अपने मनको डुबो दे, डुबाये रखे । हठात् एक दिन देख पायेंगे कि यह मनोरथ पूर्ण हो चुका है अथवा यह प्रत्यक्ष-सा अनुभव हो जायगा कि अमुक समयपर

वह वस्तु हमे मिल जायगी अथवा यह होगा कि मनमे उस वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा ही सर्वथा मिट जायगी ।

३—दुःखमे पडे हुए अपने किसी स्वजन-सम्बन्धी या मित्रके लिये भी हम प्रभुकी सहायताका आवाहन उपर्युक्त भावनाकी प्रक्रिया-से कर सकते हैं । ऐसा करना अपने उस सम्बन्धी मित्रके प्रति हमारी इतनी अद्भुत चमत्कारपूर्ण सेवा होगी कि जिसकी कल्पना भी अभी हम नहीं कर सकते । अपने जिस मित्र-स्वजनके लिये प्रभुकी सहायता अपेक्षित हो, उसकी मानसिक मूर्ति अपने सामने हम खडी कर ले । मन-ही-मन उसे देखते हुए हम यह भावना आरम्भ करे—
‘यहाँ इसके भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाये, सर्वत्र प्रभु भरे हैं, उनका आनन्द, उनकी शान्ति भरी है ।’ ऊपर वर्णित भावनाको ही अपने मित्रकी उस मानसिक मूर्तिमे भर दे । यहाँतक कि मूर्तिका अस्तित्व, स्मृति तो विलुप्त हो जाय और वहाँ बच रहे केवल प्रभु, उनका अखण्ड और अनन्त आनन्द, उनकी शाश्वती शान्ति । हमे पीछे यह जानकर विस्मय होगा कि हमारे उस मित्रके दुःखका अत्यन्त चमत्कारपूर्ण ढगसे अवसान हो गया है, उसकी परिस्थिति अचानक अजीब ढगसे सुधर गयी है अथवा बाह्य परिस्थिति तो ज्यों-की-त्यों है, पर मित्रके स्वभावमें, मनमे, कुछ जादू-सा हो गया है, उसकी चिन्ता, उद्विग्नता मिट गयी है और वह एक अद्भुत शान्तिका अनुभव करने लग है । अवश्य ही इस प्रक्रियामें भी सफलता निर्भर करती है इसी बातपर कि (?) स्वयं हमारे मनमे

प्रभुके प्रति कितनी कैसी श्रद्धा है और (२) सहायताका आवाहन करते समय मनकी एकाग्रता कैसी—किस जातिकी थी ।

वस, सहायताके आवाहनका प्रकार उपर्युक्त दो वातोंमें ही प्रायः आ जाता है । इतना ही बहुत है ।

इसमें किसीका मतभेद हो ही नहीं सकता कि प्रभुके साथ सर्वथा निष्कामतापूर्ण सम्बन्ध ही उपासनाका पवित्र आदर्श है । प्रभुसे कुछ भी माँगना वास्तवमें है अज्ञता ही । हमारे लिये जो भी आवश्यक है, उसे प्रभु हमारे बिना माँगे ही आगे-से-आगे देते रहते हैं, देते रहेगे । परम स्नेहमयी जननीकी भाँति हमारे लिये सब कुछ वे पहलेसे ही सुव्यवस्थित कर रखते हैं । उनसे हम क्या माँगे, क्यों माँगे ? यह बुद्धि भी हमारे अंदर कहाँ कि हम निर्णय कर ले—हमें क्या चाहिये और क्या नहीं चाहिये ? किंतु जब हमें अभावकी अनुभूति हो रही है और प्रभुमें विनुख होकर हम भटक रहे हों, तब इस परिस्थितिमें जो भी निमित्त हमें प्रभुमें जोड़ सकें, उसीको अवश्य-अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिये । यह भी सतोंका अनुमोदित मत है, उसमें भी सभी एकमत है । हमें भी यह अभिप्रेत होना ही चाहिये कि जैसे भी हो हमारा मुख तो प्रभुकी ओर हो जाय । फिर—

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं ।

जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥



इच्छाशक्ति या प्रभुकृपापर विश्वास

आधुनिक युगमें इच्छाशक्तिको बहुत महत्त्व दिया जा रहा है । उचित भी है । यह नितान्त सत्य है कि हमारी इच्छाशक्तिमें बहुत बल है । इस बलका उपयोग करके हम अपनी गिरी दशासे बहुत कुछ ऊपर उठ सकते हैं । पर जबतक इस शक्तिका प्रवाह प्रभुकी ओर नहीं होता, तबतक इसके द्वारा भले ही हम कुछ समयके लिये ऊँचे स्तरपर आ जायँ, किंतु वह स्थिति स्थायी नहीं हो सकेगी । निरन्तर हमारे लिये पतनका भय लगा ही रहेगा और कुसमयमें—जिस समय हमें अन्य दुर्बलताएँ आकर घेरेंगी, उस समय—हम अपनी प्राप्त स्थितिसे भी नीचे गिर सकते हैं, गिरते हैं । कम्पना करे—हमारी इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति किसी कुमार्गकी ओर हुई । अब यदि वास्तवमें हम यह दृढ इच्छा करे, पूरे मनोयोगसे यह चाहे कि 'नहीं, हम अपनी इन्द्रियोंको कुमार्गमें नहीं जाने देंगे, हमारी इन्द्रियों कुमार्गमें नहीं जा सकतीं' इस प्रकार दृढ संकल्प करके इन्द्रियोंको कुपथसे हम पूरी तत्परतापूर्वक हटाना चाहें, हटा दें, तो इन्द्रियोंमें सचमुच यह शक्ति नहीं है कि हमारी आज्ञाका, दृढ संकल्पका वे विरोध कर सकें । उन्हें लौटना पडेगा, वे एक बार निश्चय लौट आयेगी । पर इतनेमात्रसे ही हमारे पतनका भय चला गया हो, इन्द्रियों फिर उस ओर नहीं ही जायँगी, यह सुनिश्चित हो गया हो, सो बात नहीं है । पुन जहाँ वैसा कोई अवसर आयेगा, हम असावधान होंगे, अपनी इच्छाशक्तिपर नियन्त्रण खो बैठे होंगे, कुछ

क्षणों पहले हमने वैसे ही मिलते-जुलते बुरे भावोंको अपनी दुर्बलता-वश मनमें स्थान दे रक्खा होगा कि बस, उस ओरसे लौटी हुई वे [इन्द्रियाँ उछलेगी और बाँध तोड़कर वैसे ही असत् पथकी ओर और भी प्रबल वेगसे भागने लगेगी। अतः स्थितिको स्थायी बनाये रखनेके लिये यह भी परम आवश्यक है कि जैसे अपने अदरकी इच्छाशक्ति-का प्रयोग करके, दृढ सकल्पके द्वारा हमने इन्द्रियोको कुमार्गकी ओरसे हटाया, निषेधात्मक प्रयोगसे उन्हें शान्त किया, वैसे ही, उतनी ही दृढतासे पुनः उसी इच्छाशक्तिका आश्रय लेकर हम उन्हें प्रभुकी ओर प्रवृत्त करे, प्रभुकी ओर उनकी अविराम गति कर दे, निर्माणात्मक प्रयोगके द्वारा हम उन्हें नित्य, सत्य, अखण्ड, अचल, परम मङ्गलमय प्रभुसे जोड़ दें। ऐसा कर लेंगे तो फिर प्राप्त हुई स्थितिसे हमारा पतन असम्भव हो जायगा।

जैसे किसी स्रोतमें एक ओरसे जल आ रहा हो। हमने निश्चय किया कि अमुक दिशाकी ओर जल नहीं जाने देंगे, और फिर उस ओर सुदृढ बाँध बाँध दिया। अब जल रुक तो जायगा, किंतु उसके निकलनेका मार्ग भी हमें बनाना चाहिये। अन्यथा जल एकत्र होते-होते जहाँ बाँधकी सीमाको छूने लगा कि बाँध या तो टूटेगा या बाँधको लॉधकर जल वह चलेगा। ऐसे ही जवतक हमारी इन्द्रियाँ काम कर रही हैं, उनमें प्रवाह है ही। यदि हमने इच्छा-शक्तिका प्रयोग करके उन्हें किसी ओर जानेसे रोक भी दिया तो इसका यह अर्थ नहीं कि उनका उस ओरका प्रवाह बंद हो गया हो। भले ही हमें दीखे नहीं, पर अन्तश्चेतनामें उनकी गति सतत उस ओर ही है। इसीलिये हमें उचित है कि उस ओरसे रोकनेके

साथ-ही-साथ तुरत हम उन्हें प्रभुकी ओर मोड दे । वे उस ओर मुड गयीं, मुडकर प्रभुसे जुड गयीं, तब फिर तो सागरसे मिले हुए सोतेकी भाँति सदाके लिये प्रभुकी ओर ही बहती रहेगी । फिर उनकी दिशा बदल जाय, फिर कुमार्गकी ओर वे दौड चले, इसकी सम्भावना सर्वथा समाप्त हो जायगी ।

किंतु यह तो तब सम्भव है कि जब हमारा विवेक जाग्रत हो, यह भला है, यह बुरा है, यह सुमार्ग है, यह कुमार्ग है— इसकी हमे पूरी पहचान हो, इसकी सजग स्मृति हमारे अदर सदा बनी रहे । यह विवेक यदि मर नहीं गया है, तो फिर इच्छाशक्तिका प्रयोग करके हम नीचे गिरनेसे बच सकते हैं—ऊपर उठ सकते हैं, पर कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम सर्वथा विमोहित हो जाते हैं । क्या करने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी इस चेशका कितना भयानक परिणाम होगा—इन बातोंको हम सर्वथा भूल जाते हैं तथा अचे-से, पागल-से हुए अपनेको नरककी ज्वालामे होम देनेके लिये दौड पडते हैं । उस समय इच्छाशक्ति क्या काम आयेगी ? वचनेकी इच्छा हो तब न हम इच्छाशक्तिका सत्-प्रयोग करेंगे ? जहाँ वचना नहीं, डूबना ही उद्देश्य है, वहाँ तो इस शक्तिकी उपयोगिता नगण्य बन जाती है । वरं ऐसी स्थितिमे किसीकी यदि इच्छाशक्ति बलवती हुई रहती है तो उसका अशुभमें प्रयोग हो जाता है और परिणामस्वरूप भीषण पतन होता है । आसुरी स्वभावत्रालोंकी भी इच्छाशक्ति प्रबल रह सकती है, पर उसका प्रयोग वैसे ही होता है, जैसे प्रयोग करनेवालोंके आसुरी स्वभावके कारण परमोपकार करनेमें समर्थ अणु-शक्ति (एटम) का प्रयोग जनसहारमें, फलतः परम्परागत

विद्वेष और शत्रुताके विस्तारमे हो रहा है । पर ऐसी भीषण परिस्थितिमे भी हममेसे बहुतोका यह अनुभव है कि ठीक मौकेपर कोई आकस्मिक, अप्रत्याशित घटना घट जाती है और आश्चर्यरूपसे हमारी रक्षा हो जाती है, पतनके किनारेसे हम लौट आते है, ठीक गिरते-गिरते बच जाते हैं । जो प्रभुकी सत्तामे विश्वास करना नहीं चाहते, वे तो ऐसी घटनाओंका नाम संयोग (Chance) रख देते है । पर जो प्रभुकी सत्तामे विश्वास रखते हैं वे इसे मानते है 'प्रभुकी अहैतुकी कृपा ।' वास्तवमे यह संयोग (Chance) नहीं है, सर्वथा निश्चित-रूपसे प्रभुकी कृपा ही है । फिर हम क्यो नहीं आरम्भसे ही प्रभुकी कृपापर ही विश्वास करे ? इच्छाशक्तिमे अपार बल होनेपर भी हमे धोखा हो सकता है । उससे उलटा परिणाम भी हो सकता है, वैसे ही जैसे अग्निसे यज्ञादि शुभ कर्म भी हो सकते है और सब कुछ भस्म भी हो सकता है, किंतु प्रभुकी कृपापर विश्वास होनेके उपरान्त कभी धोखा नहीं होगा, यह ध्रुव सत्य सिद्धान्त है ।

हम सोचकर देखेगे तो पता चलेगा कि इच्छाशक्तिको तो हमे जगाना पडता है, अपनी सहायताके लिये बुलाना पडता है, पर प्रभुकी कृपा तो सदा जागी हुई है, निरन्तर हमे बुला रही है, पुकार रही है—'अरे अवोध प्राणी ! जागो, मेरी ओर देखो, क्यो भटक रहे हो ?' पर हमारे कान तो दूसरी ओर हैं, हम क्यो सुनने लगे । इतनेपर भी न जाने कितनी बार वह हमारे सामने आती है, हमे खड्डेमें गिरनेसे बचाती है । साथ ही हमारी रक्षा करके हमपर अहसान करने नहीं आती, अपितु हमारा काम सँवारकर तुरंत छिप जाती है और हम ऐसे कृतघ्न हैं कि उसको भूल ही नहीं जाते,

उसका अस्तित्वतक स्वीकार नहीं करना चाहते, उसके उपकारको संयोगकी बात बताकर टाल देते हैं । इसके बाद भी अत्यन्त गाढे समयमें वह पुनः हमारे सामने आती है और हमारी सहायता करती है । हमसे प्रत्येकको अपने जीवनकी घटनाओपर विचार करनेके उपरान्त, एकमात्र प्रभुकी कृपासे ही अमुक-अमुक 'कार्य' हुए थे— यह कहनेमें तनिक भी सकोचका अनुभव नहीं होगा । अतः यदि हम पतनसे बचनेके लिये पहलेसे ही प्रभुकी कृपापर विश्वास कर लें तो हमारी जीवनयात्रा कितनी सरल, सुखमय हो जाय ।

इच्छाशक्तिमें जो बल है, वह भी आता है प्रभुके यहाँसे ही । हम आखिर हैं कौन ? उन सत्-चित्-आनन्दमय प्रभुके अश ही तो हैं । हमारे अदर जो कुछ भी है, वह सर्वथा सब कुछ प्रभुका ही तो है । हमारे आत्माका बल ही तो इच्छाशक्तिके रूपमें प्रकाशित होता है । यह आत्मबल सर्वथा प्रभुके बलके अतिरिक्त और क्या वस्तु है ? अवश्य ही यहाँ, प्रभुका यह बल हमारे 'अहता' रूपी आवरणके अश्रसे प्रकाशित होता है, हमारा 'मैं' उस बलको जितने अशमें ग्रहण कर पाता है, उप्पे प्रकट होनेके लिये अवकाश दे पाता है, उतने अशमें ही वह बल व्यक्त हो पाता है । इसीलिये उसकी एक सीमा बन जाती है, और इसीलिये हमारी इच्छाशक्तिका बल भी सीमित है, किंतु प्रभुकी कृपापर विश्वास कर लेनेके अनन्तर प्रभुका जो बल व्यक्त होता है, वह असीम बनकर ही व्यक्त होता है । ऐसा इसीलिये कि जिस क्षण हम प्रभुकृपापर विश्वास करने चलते हैं, उस क्षण हमारा 'मैं' अत्यन्त संकुचिन, क्षुद्र, हल्का

वन जाता है, कृपाको पूर्णरूपसे व्यक्त होनेके लिये खुला मार्ग दे देता है। फिर जहाँ वह प्रभुकृपाका बल आया कि बस, हमारे लिये असम्भव भी सर्वथा सम्भव बन जाता है। जो कार्य इच्छाशक्तिके प्रयोगसे वर्णोमे नहीं होता, वह प्रभुकृपासे क्षणोमे पूर्ण हो जाता है।

प्रभुकी कृपापर विश्वास करनेके उपरान्त यदि हम इच्छाशक्तिका प्रयोग करें तब तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो वह स्वयं विशुद्ध होकर विशुद्ध लक्ष्यकी ओर जानेवाली हो जायगी और प्रभुका बल मिल जानेके कारण वह सर्वथा अव्यर्थ और अचूक बन जायगी। भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीने एक पदमे अपने ऐसे ही प्रयोगका वर्णन किया है। वे कहते हैं—‘रे ससार ! मैं तुझे अब जान गया। तेरे अदर अब शक्ति नहीं कि तू मुझे बौध ले। मुझमे अब प्रभुका बल आ गया है। प्रभुके बलसे मैं अत्यन्त बलवान् हो गया हूँ, अब तू मुझे नहीं बौध सकता। तू प्रत्यक्ष कपटका घर है, तेरे कपटमे मैं अब नहीं भूल सकता। × × × तू अपनी सेना समेट ले। हट जा यहाँसे। चला जा, मेरे हृदयमें तू नहीं रह सकता। वहाँ जाकर रह, जिस हृदयमे प्रभुका निवास न हो। मेरा हृदय तो प्रभुका निवास बन गया है। यहाँ अब तेरे लिये स्थान नहीं है, तू टिक नहीं सकता।’

मैं तोहि अब जान्यो ससार ।

बौधि न सकहि मोहि हरिके बल प्रगट कपट आगार ॥

×

×

×

गदित सहाय तहाँ बसि अब जेहि हृदय न नदकुमार ॥

गोखामीजी यहाँ इच्छाशक्तिका ही प्रयोग कर रहे हैं, पर उनकी इच्छाशक्तिके पीछे अपनी 'अहंता' के द्वारसे झरनेवाला आसुरी बल नहीं है, अपितु प्रभुका अनन्त असीम बल—प्रभुकी कृपाका पुनीत बल है। ऐसा समन्वय तो हमारे लिये परम वाञ्छनीय है, बिना हिचक हमें यह कर ही लेना चाहिये। ऊपर उठनेके लिये, पतनसे बचनेके लिये हम यदि प्रभु-कृपाके बलसे बलवान् बनकर इस प्रकार इच्छाशक्तिका प्रयोग करें, तो हमारा जीवन भी देखते-देखते अन्धकारसे निकलकर प्रभुके आलोकमें आ जाय।

बहुत ठीक, पर ऐसा हो कैसे ? प्रभुकी कृपाकी अनुभूति हमें क्यों नहीं होती ? प्रभुका बल हमें कैसे मिले ? तो इसके लिये यह बात है कि हमसे ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रभुकी अनन्त अपरिसीम कृपासे, प्रभुके अपार बलसे वञ्चित हो। हम सभीके ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें, भीतर-बाहर—सर्वत्र प्रभु भरे हैं, सर्वत्र उनकी कृपा, उनका बल भरा है। उनकी कृपा हमें खींच भी रही है, उनका बल हममें निरन्तर बलका सञ्चार भी कर रहा है, हम जब उनकी ओर देखते हैं, तब हमें इसका यत्किञ्चित् अनुभव भी होता है। पर सदा एवं पूर्ण अनुभव इसलिये नहीं होता कि हम अपने-आपको भूले हुए हैं। हमारा लक्ष्य अभी दूसरा है, हम प्रतीक्षा औरकी कर रहे हैं। प्रभुकी कृपाकी ओर वास्तवमें अभी हमारी दृष्टि ही नहीं। हम हैं सच्चिदानन्दमय प्रभुके अश, पर अपनेको मानते हैं साढ़े तीन हाथका शरीर। हमारा लक्ष्य होना चाहिये प्रभुसे भेंट, पर लक्ष्य हो रहा है विविध विनाशशील विषयोंका भोग। चाह होनी चाहिये थी प्रभुकी अनवरत बरसनेवाली कृपाके

दर्शनकी, पर चाह है उस कृपाको पद-पदपर ढक देनेवाले अहंकारके विजयकी । दृष्टि होनी चाहिये प्रभुकी अहैतुकी नित्य कृपाकी ओर, अक्षय असीम बलकी ओर, किंतु दृष्टि लग रही है जगत्मे प्राप्त होनेवाले मिथ्या आश्वासनोकी ओर,— भौतिक नश्वर, सीमित बलकी ओर । इसीलिये हमे प्रभुका, उनकी कृपाका आकर्षण दीखकर भी नहीं दीखता, उनका बल हममे निरन्तर पूर्ण रहनेपर भी हम दुर्बल बने रहते हैं । अब यदि हम केवल एक काम कर ले, प्रभुकी अहैतुकी कृपापर विश्वास कर ले तो आगेका सब क्रम अपने-आप ठीक हो जाय । प्रभुकी कृपापर विश्वास होते ही सब ओरसे दृष्टि सिमटकर कृपाकी ओर लग जायगी, फिर एकमात्र कृपाकी ही प्रतीक्षा रहेगी, प्रभु ही जीवनके एकमात्र लक्ष्य हो जायेंगे और फिर यह भी भान हो जायगा कि हम देह नहीं है, हम है सच्चिदानन्द प्रभुके सनातन अश । इसके अनन्तर पद-पदपर कृपाके आकर्षणकी अनुभूति होगी । साथ ही अपने अंदर प्रभुका दैवी बल भी क्रमशः उतर आयेगा । अब हम चाहे तो इच्छाशक्तिका यह पाठ अवश्य रटना आरम्भ करे—‘जो गया सो गया, अब आगे एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट नहीं होने दूँगा । प्रभुकी कृपासे ससाररूपी रात्रि समाप्त हो गयी । प्रभुने जगा दिया, मैं जाग उठा । अब कभी मायाकी सेज नहीं चिछाऊँगा, मायाके जालमे कभी नहीं फँसूँगा, माया मुझे अब कभी क्षणभरके लिये भी नहीं फँस सकती । यह देखो, मुझे प्रभुका नाम-चिन्तामणि हाथ लग गया । इसे हृदयमे सदा सुरक्षित रक्खूँगा, क्षणभरके लिये भी इसे न भूँदूँगा । अब आजसे इस क्षणसे प्रभुकी विस्मृति मुझे नहीं होगी, मेरा हृदय

निरन्तर प्रभुकी स्मृतिसे पूर्ण रहेगा, प्रभुके स्मरणकी अखण्ड वास मेरे हृदयमे निरन्तर अनन्त-कालतक बहती रहेगी । मेरा चित्त इस क्षणसे सदा निर्मल, निर्मलतर होता रहेगा । इन्द्रियों अब मेरे मनको विक्षिप्त नहीं कर सकतीं, मुझे मनमाना नाच नहीं नचा सकतीं, अब ये मेरी खिल्ली नहीं उड़ा सकतीं, अब तो इनपर मेरा पूर्ण अधिकार हो गया है, मैं जो आदेश दूँगा, वही ये करेंगी, सर्वथा अनुगामिनी रहेंगी । अब आजसे मेरा मन-मधुकर प्रभुपादपद्मोंमें निरन्तर निवास करेगा ।'

अबलों नसानी अब न नसैहैं ।

राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसैहैं ॥

पायेउँ नाम चारु चिंतामनि, उर कर तँ न खसैहैं ।

स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहिँ कसैहौ ॥

परबस जानि हँस्यो इन इद्रिन, निज बस द्वै न हँसैहैं ।

मन मधुकर पनकै तुलसी रघुपति-पद-कमल बसैहैं ॥


साराश यह कि अपनी इच्छाशक्तिके बलपर अपने उत्थानकी बात न सोचकर पहले प्रभुकी अनन्त अपार कृपापर हूँ विश्वास स्थापित करें । इस विश्वासके अनन्तर विश्वासको साथ लिये जो इच्छाशक्ति जागेगी, वह अमोघ होगी, हमें निश्चितरूपसे प्रभुकी ओर ले जाकर निर्बाध पूर्णता प्रदान करेगी । अन्यथा प्रभुके सम्बन्धसे शून्य रहनेपर अकेली वह (Personal willpower) न तो शुभकी ओर ही ले जायगी, यह निश्चय है, और न वह स्थायी स्थिति ही प्रदान कर सकेगी । स्थायी परिणामके लिये तो उसे मङ्गलमय प्रभुकी ओरसे आनेवाली परम मङ्गलमयी (Positive) शक्तिसे युक्त करना

पडेगा । प्रभुकी कृपाशक्ति कभी नहीं चूकती । विश्वास न होनेपर भी वह हमारी रक्षा करती है, फिर विश्वास करनेवालेके मार्गको वह विघ्न-वाधासे सर्वथा शून्य करके अतिशय सरल और सुगम बना दे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

हम कह सकते हैं कि प्रभुपर विश्वास स्थापित कैसे करे ? होता जो नहीं । तो इसका सीधा उत्तर यह है कि या तो हम प्रभुके कृपामय विधानसे आनेवाले दुःखकी प्रतीक्षा करे । दुःख आयेगा, राशि-राशि मात्रामे आयेगा । पर आयेगा हमारी सारी मलिनताको धोकर हमारे अंदर प्रभुका विश्वास भर देनेके लिये । अथवा शास्त्रकी बात मानकर, अगणित सतोंकी बात स्वीकार करके उनके अनुभवको सुन-पढकर हम विश्वास कर ले । जीवनमें न जाने कितनी अनदेखी, अनसुनी बातपर विश्वास करके हम अनेको चेष्टाएँ करते हैं, विश्वके किस कोनेमें क्या हो रहा है, यह बिना देखे केवल समाचारपत्र पढकर विश्वास कर लेते हैं और उसी मान्यतापर कारोवार आरम्भ कर देते हैं । वैसे ही विश्वके समस्त सम्मान्य धर्मग्रन्थोंकी, सभी धर्मके सभी अनुभवों सत महानुभावोंकी बात मानकर प्रभुकी सत्ता स्वीकार करके नियमित रूपसे, प्रतिदिन सच्चे हृदयसे जितनी बार पुकार सके, हम पुकारते रहे—

‘प्रभु हौं जैसो तैसो तेरो ।’

—वस, किसी-न-किसी दिन हमे प्रभुकी कृपापर विश्वास हो ही जायगा और वह विश्वास ही हमारे लिये महान् शक्तिका अप्रतिहत और अपरिमित पुद्गल होगा ।



चाहने योग्य सत्य वस्तु

जो वस्तु सत्य है, उसे अपने अस्तित्वकी रक्षाके लिये यह अपेक्षा नहीं रहती कि कोई उसे माने ही । हम उसे न मानें, उसकी सत्ता अस्वीकार कर दें, पर सत्य तो सत्य ही रहेगा, उसकी सत्ता ज्यो-की-न्यो बनी रहेगी । हमारे मानने न माननेसे उसका तो कुछ बनता-विगडता नहीं । हाँ, उसे न माननेके कारण उसके द्वारा प्राप्त होनेवाले परम लाभसे हम बहुत अशोभे वञ्चित अवश्य रह जाते हैं, इतना अन्तर हमारे लिये तो हो ही जाता है ।

प्रभुकी सत्ता भी ऐसी ही परम सत्य वस्तु है । कोई भले ही उसे न माने, पर वह तो हममें—विश्वके अणु-अणुमें व्याप्त है; अनादिकालसे है, अनन्तकालतक रहेगी, ज्यो-की-न्यो रहेगी । हम यदि उसे मान लेते हैं, तब तो प्रभुका अनन्त वैभव, अनन्त बल, असीम सुयश (सद्गुण), अपरिसीम सौन्दर्य, अथाह ज्ञान, अपार निर्लेपता—उनका सब कुछ हमारा ही है और इसलिये विश्वका कण-कण क्षण-क्षणमें हमारे लिये नये-नये सुखका, नित्य नूतन

आनन्दका द्वार खोलता रहता है, किंतु दुर्भाग्यवश यदि हम उनकी सत्ताको अस्वीकार करते हैं तो जगत्की अगणित भोग-सामग्री पासमे रहनेपर भी सचमुच हमारा कुछ भी नहीं, यहाँकी प्रत्येक वस्तु हमारे लिये पद-पदपर दृ ख-सतापका ही सृजन करती रहेगी ।

यह अटल नियम है कि जहाँ हमने उनकी सत्ताको स्वीकार करना छोड़ा कि बस वहीं रास्ता भूले, सुन्दर सडकसे हटकर उधेड-बुनके बीहड जगलमे भटकने लगे, चिन्तारूपी काँटोसे हमारे अङ्ग छिदने लगे, दुःखरूपी दावानलकी लपटोसे सारा शरीर, मन, प्राण—सब कुछ झुलसने लगा । कहीं कोई रक्षक नहीं, पथ दिखानेवाला नहीं । तीन ओरसे त्रितापरूपी दावाग्नि हमे भस्म करने-को दौडी आ रही है, आगे निराशाका घोर अन्धकार छाया हुआ है । प्रभुकी उपेक्षा करते ही हमारी ऐसी दशा हो जाती है । यह सम्भव है कि जत्रानीके जोशमे विप्रयोकी मदिरा पी-पीकर उन्मत्त हो जानेके कारण हमे अपनी इस दुरवस्थाका भान पहले कुछ देरके लिये न हो, पर यह नशा उतरनेमें अधिक विलम्ब नहीं होता तथा फिर हमे उपर्युक्त अनुभूति ही होती है । प्रभुकी अवज्ञा करने-का यह अवश्यम्भावी परिणाम है । अतएव हममेसे किसीको भी कभी भी तनिक भी ऐसा अनुभव हो—किसी प्रश्नको लेकर उधेड-बुन होने लगे, मनमे चिन्ता चुभने लगे, जलन होने लगे, सहायक-का अभाव खटकने लगे, पीछे हटनेमे तो विनाश दीखे और आगे बढ़ना सम्भव नहीं प्रतीत हो—तो उसे उस समय तुरत निश्चितरूपमे यह समझ लेना चाहिये कि उमने प्रभुकी सत्ताका अवग्य-अवश्य

अनादर किया है । पय मूत्रकर गन्मार्गमें छूटकर कुमार्गपर आ गया है । तथा इस त्रिपत्तिजालमें छूटकर गन्मार्गपर आ जानेका एकमात्र उपाय यह है कि वह जहा जिन परिस्थितिमें है, वही उभी अवस्था-में प्रभुकी सर्वत्र व्याप्त सत्ताको स्वीकार कर ले । ऐसा किया कि वस, उसी क्षण वही प्रभुकी मत्ता व्यक्त हो जायगी, वहीमें सीधा अत्यन्त सुन्दर मार्ग उसे दीव्य जायगा, प्रश्न हल हो जायगा, जलन शान्त हो जायगी, चिन्ता मिट जायगी । साथ ही—प्रभुका ब्रह्म हस्त निरन्तर मेरे सिरपर था और है—यह अनुभूति भी उमे हो जायगी ।

सच तो यह है कि यही इस विश्वमें हमारे लिये कोई भी त्रिपत्तिका जाल नहीं, दुःखका कोई भी तनिक भी कहीं भी कारण नहीं है । सर्वत्र सब ओरसे हमारे लिये मङ्गलका, परम आनन्दका स्रोत बह रहा है । ऐसा इसलिये कि एकमात्र प्रभु ही सदा सर्वत्र विराजित है । हमारे आगे वे है, हमारे पीछे वे है, दाहिनी ओर वे हैं, बायीं ओर वे हैं, नीचे वे भरे हैं, ऊपरकी ओर भी वे ही भरे है, सम्पूर्ण जगत्के रूपमें वे ही हमें दीख रहे हैं—

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥

(मुण्डक० २ । २ । ११)

किंतु हम इस बातको मानते नहीं, इस परम सत्यको स्वीकार नहीं करते । इसलिये हम भ्रान्त हो जाते हैं, हमें कुछ-का-कुछ दीखने लग जाता है, नित्य मङ्गलके स्थानपर अमङ्गलका और सतत आनन्दके स्थानपर दुःख-ज्वालाका अनुभव होने लगता है । अब

यदि हम भ्रान्तिको मिटा दे, सत्यको स्वीकार कर ले, यह मान ले कि हमारा तो प्रभुमे ही निरन्तर निवास है, वस, फिर तो हमारी सारी उधेड़-बुन, चिन्ता, दुःख सदाके लिये मिट जायँ, जहाँ दृष्टि जाय, वहाँ हमे सुख-ही-सुख भरा दीखे। यह कोई आवेगजन्य वारणा (Hypnotic Suggestion) जैसी क्रियाका क्षणिक परिणाम हो, सो बात नहीं। यह तो परम सत्य सिद्धान्त है, मनीषियो-का प्रत्यक्ष स्थायी अनुभव है। कोई भी इसपर विश्वास करके नित्य सत्य प्रभुकी सर्वत्र सत्ता स्वीकार करके सदाके लिये सुखी हो सकता है।

हम कह सकते हैं कि ऐसा करना कौन नहीं चाहेगा ? सुख-की चाह किसे नहीं है ? तो इस सम्बन्धमे यह बात है कि केवल कहने-सुननेमात्रसे ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसके लिये तो हमे अपने जीवनका दृष्टिकोण बदलना पडेगा। मानव-जीवनकी सार्यकता पशुकी भौति भोग भोगनेमे नहीं, अपितु नित्य सत्य प्रभुकी अनुभूति कर लेनेमे है, यह दृष्टि स्थिर करनी पडेगी। सत्-स्वरूप प्रभुसे ही हम निकले हैं, सत्-स्वरूप प्रभुमे ही हमारा निवास है और अन्तमें भी हम सत्-स्वरूप प्रभुमे ही प्रतिष्ठित रहेगे—

‘सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः।’

इस सिद्धान्तको शरीर छूटनेसे पहले ही प्रत्यक्ष अनुभव कर लेनेके लिये कटिबद्ध होना पडेगा। तथा यह करके प्रभुकी ओरसे निरन्तर बहनेवाली प्रेमकी वारा, करुणाकी धाराके लिये हमें अपने अदर मार्ग देना पडेगा, अपने द्वार खोल देने पडेगे। अभी तो हमने सब ओरमे अपनी अगणित स्वार्थमयी इच्छाओंके किंवाड

बनाकर उन्हें वद कर रक्खा है । प्रभुका प्रेम, उनकी कृपा हमे अपने-आपमे मिला लेनेके लिये हमारे द्वारपर आती है, पर सब ओरसे द्वार बढ देखकर लौट जाती है । हमारी इच्छाएँ ही प्रभुके मङ्गलमय, प्रेममय, कृपामय दानसे हमे वञ्चित कर देती है । इसीलिये हमे अपनी इच्छाओंका त्याग करना ही पडेगा, अपनी इच्छा मिश्रकर प्रभुकी इच्छाको अपने अदर व्यक्त होनेके लिये मार्ग देना पडेगा । तभी हमारा काम होगा, तभी हमारे उद्देश्यकी पूर्ति होगी ।

एक दिनमे ऐसा हो जायगा, यह सम्भव नहीं । अपनी इच्छाओंका त्याग कर देना सहज नहीं है । यो तो प्रभुमे अनन्त सामर्थ्य है । उनकी कृपासे क्षणभरमे असम्भव सम्भव हो जाय, यह बात दूसरी है । पर साधारणतया क्रमश ही हम अपनी इच्छाओंका त्याग कर सकोगे । इच्छाएँ छूट जायँ, इसके लिये हमे यह विश्वास बढ़ाना पडेगा, यह दृढ़ वारणा करनी पडेगी कि वास्तवमे हमारे लिये जो भी आवश्यक है, हमे जो भी उचितरूपसे चाहिये, वह हमें प्रभु अवश्य देते हैं तथा आगे भी जो आवश्यक होगा, उसकी पूर्ति वे अवश्य करेगे । जो हमे प्राप्त नहीं है, उसकी आवश्यकता ही हमे नहीं है । हमारे लिये जो आवश्यक है, वह प्रभु न दें, यह असम्भव है । इस भावको जाग्रत् कर प्रत्येक इच्छाकी जड़ काटनी होगी । यह भाव जितनी मात्रामे दृढ़ होता जायगा, उतनी ही मात्रामे इच्छाएँ मिटती जायँगी । और जैसे-जैसे इच्छाएँ मिटेंगी, वैसे-वैसे ही द्वार खुलने लगेंगे, हमारे अदर प्रभुका प्रेम भरने लगेगा । उनकी कृपा भरने लगेगी । धीरे-धीरे हमारा सब कुछ प्रभुसे एकमेक हो जायगा । प्रभुकी सत्तामे ही हमारा 'मैं' भी

विलीन हो जायगा । अन्तमे सब ओर सर्वत्र वच रहेगे एकमात्र केवल प्रभु ही, और कुछ नहीं ।

पर कदाचित् हम अत्यन्त गिरी दशामे हों, इतने निर्वल हो गये हों कि इच्छाओको छोड़नेमे अपनेको सर्वथा असमर्थ अनुभव करे, 'नाथ ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई भी इच्छा नहीं, तुम जैसे चाहो, वैसे ही करो नाथ ।' हमारा हृदय कभी यों न पुकार सके और न हमारा दृष्टिकोण ही बदले, भोग ही हमारे जीवनका उद्देश्य बना रहे, तब हम क्या करें ? हमारे-जैसोंके लिये भी आगे बढ़नेका, प्रभुकी सत्ता अनुभव करनेका कोई उपाय है क्या ? है, अवश्य है । हम अपनी भोगेच्छाको लिये हुए ही प्रभुसे जुडे । हमें धन, जन, परिजन, स्वास्थ्य, मान-सम्मान, यज्ञ-कीर्ति—यही चाहिये तो भी कोई बात नहीं । इन्हे लिये रहकर ही इनकी पूर्तिके लिये हम प्रभुसे जुडे, पर इतनी सावधानी रखे—

(क) प्रभुपर यह बन्धन न लगावें कि वे हमारी अमुक इच्छाकी पूर्ति अमुक रूपमे करे । उनके सामने अपनी इच्छा रख दें, पर उन्हें उपाय न बताने लग जायँ कि इस इच्छाकी पूर्तिके लिये वे अमुक निमित्त ही निर्धारित करे । विश्वास रखें कि उनके असीम ज्ञानमें एक-से-एक बढ़कर इतने सुन्दर-सुन्दर असख्य उपाय हैं कि जिनकी कल्पना भी हमारे मन-बुद्धिके लिये सर्वथा असम्भव है ।

(ख) उनसे कहनेके पश्चात् वे करेंगे कि नहीं यह सजय मनमें न आने दें । वे करेंगे ही, यह विश्वास क्षण-क्षणमे दृढ-दृढतर होता रहे ।

(ग) प्रारम्भमे यदि वे हमारी कुछ इच्छाओंको पूर्ण न करे तो भी हम निराश न हो, पूर्ण उत्साहसे उनके सामने फिर भी अपनी दूसरी-दूसरी इच्छाओंको रखनेके लिये अवश्य आवे ।

(घ) वे यदि पूर्ण करनेमें ढेर करे तो धवराकर हम दूसरेकी ओर देखने न लग जायँ अथवा अपने बलपर पूरा करनेका मनसूबा न बाँधने लगे ।

(ङ) भूलकर भी, किसीको नीचा दिखानेके लिये, किसीकी हानि करनेके उद्देशसे कोई भी वस्तु प्रभुसे कदापि न माँगे ।

यदि उपर्युक्त पाँच बातोंकी सावधानी रखकर हम प्रभुसे कुछ भी माँगेगे तो दोमेसे एक बात निश्चय होगी—या तो वह वस्तु प्रभु हमे दे देगे, या उस वस्तुके प्रति जो हमारी इच्छा है, उस इच्छाको ही मिटा देगे । यदि उन्होंने हमारी इच्छा मिटा दी तो काम बन गया, किंतु कहीं पूर्ण कर दी तो उसमे भी इच्छापूर्तिके अतिरिक्त एक परम लाभ हमे और हो गया । वह यह कि उनके द्वारा प्राप्त होनेवाली वस्तु आगे ऐसी नवीन इच्छामें हेतु नहीं बनेगी जो हमारी प्रगति रोक दे । हमें उनकी ओर बढ़ानेवाले अङ्कुर ही उस वस्तुसे प्रकट होंगे । ये अङ्कुर कुछ ऐसे विचित्र होते हैं कि इनकी ओटमें अन्य समस्त इच्छाएँ मर जाती हैं । फिर तो वही स्थिति आ जाती है—इच्छाएँ मिट गयीं और हममे सब ओरसे प्रभु-ही-प्रभु पूर्ण हो गये ।

अबतक जितनी बातें हमारे सामने आयीं उनका साराश यह है—प्रभु हैं, किसीके न माननेपर भी उनकी सत्ता अक्षुण्ण

रहती है। न माननेवाला माननेके कारण होनेवाले परम लाभसे वञ्चित हो जाता है। उन्हे न माननेका ही परिणाम है जीवनमें उधेड़-बुन, दृग्-ज्वाला। अन्यथा इनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रभु परिपूर्ण है, सर्वत्र आनन्द भरा है। कोई भी इस स्थितिका अनुभव प्राप्त कर सकता है। पर इसके लिये उसे इस ओर मुड़ना पड़ेगा तथा अन्य ममस्त नागरिक इच्छाओंको छोड़ना पड़ेगा। भोगकी इच्छा मित्र देनेमें असमर्थ प्राणीको भी प्रभुकी अनुभूति हो सकती है, पर तब, जब कि इच्छापूर्तिके लिये भी वह अन्य उपायोंको छोड़कर एकमात्र प्रभुपर ही निर्भर हो जाय।

उपर्युक्त बातोंपर विचारकर यदि हम प्रभुकी सत्ता स्वीकार कर लें तो फिर हमारे जीवनमें पढ़-पढ़पर जो नयी-नयी उलझने आती हैं, एकका समाधान करने-न-करने द्रमरी आ घेरती हैं, वे न आवे। हममेंसे अधिकांशके हृदयमें जो दृग्की भट्टी जलती है, वह शान्त हो जाय। उसके स्थानपर सुखका एक ऐसा शीतल शान्त स्रोत उमड़ चले कि उसकी आगमें निमग्न होकर हम स्वयं तो गीतल हो ही जायँ, हमारे सम्पर्कमें आनेवाले दूसरे भी निहाल हो जायँ। इसीलिये भारतवर्षके ऋषि परम निष्काम होकर भी यह कामना करने थे—

माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत् ।

‘मैं कदापि प्रभुकी सत्ता अस्वीकार न करूँ, प्रभु भी मुझे कभी भूल न जायँ।’

हम भी यही कामना करें। सर्वप्रथम चाहनेयोग्य सत्य वस्तु असलमें यही है। इसीकी चाह हममें होनी चाहिये।



प्रभुका आदेश

सब मनुष्योंको सब समय प्रभुकी ओरसे अपने अन्तरात्मामें यह आदेश अवश्य मिलता रहता है कि 'ऐसे करो', 'ऐसे मत करो' किंतु हम अधिकांश ऐसे हैं जो उनके आदेशको सुन नहीं पाते । यदि कहीं कोई सुनता भी है तो वह उपेक्षा करता है । इसका निश्चित परिणाम यह होता है कि हम जहाँ जिस क्षेत्रमें जाते हैं, वहाँ ही हमें उलझन मिलती है । अपनेसे आगे बढे हुएको देखकर हम जल उठते हैं । अपनी जलनको शान्त करनेके लिये उसकी कटु आलोचना आरम्भ करते हैं और जलन उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । अपने अतिरिक्त अन्य सभी हमें भूले हुए दिखायी देते हैं, सबको सुधारनेका, सारी बुराइयोंको एक साथ दूर कर देनेका हम ठेका ले बैठते हैं । विरोधीकी एक बात भी सुननेके लिये हम तैयार नहीं, अपनी-अपनी ही हमें सुनानी रहती है । अपना मैल धोनेके लिये हमारे पास अवकाश नहीं बच रहता । धोना दूर, हम भी गदे हो सकते हैं, यह सोचने-विचारनेतकका अवकाश नहीं, वस्तुतः मैलसे

हम चिपटे होते हैं, पर स्वप्न देखने लगते हैं स्वर्गीय जीवनका । प्रभुकी ओरसे आयी हुई प्रेरणाको, उनके दिये हुए स्नेहभरे-आदेशको न सुननेका, सुनकर उपेक्षा कर देनेका यह स्वाभाविक परिणाम है । तथा ऐसी भावना, ऐसी प्रवृत्ति जितनी अधिक बढ़ती है, उतनी ही मात्रामें हम उत्तरोत्तर उनकी मङ्गल-प्रेरणाको ग्रहण करनेमें अयोग्य बनते जाते हैं । उनकी आवाज और हमारे ज्ञानके बीचमें व्यवधान घना होता जाता है । कुत्सित भावना, उनसे कुत्सित प्रवृत्ति, फिर उनसे कुत्सित सस्कार—इनकी क्रमशः मोटी-मोटी दीवारें बनती जाती हैं और इसी क्रमसे धीरे-धीरे प्रभुकी ओरसे आयी हुई सूचना क्षीण, क्षीणतर होती हुई अन्तमें वह ऐसी बन जाती है मानो लुप्त हो गयी, है ही नहीं, थी ही नहीं । आदेश तो उस समय भी आता ही रहता है, पर हमारा मन उसे ग्रहण करनेमें सर्वथा अयोग्य हो जाता है, इसलिये वह आदेश सुन नहीं पडता ।

कल्पना करें, हमारे सामने जीवनयात्रासम्बन्धी कोई प्रश्न उपस्थित हुआ । अब इस विषयमें कौन-सी व्यवस्था सबसे सुन्दर होगी, हमें क्या करना चाहिये, हम क्या करें—ये सभी बातें हमें प्रभुकी ओरसे प्राप्त होती हैं, उनका निश्चित आदेश इस सम्बन्धमें हममेंसे प्रत्येकको अवश्य मिलता है, पर हम सुन नहीं पाते । और तबतक सुन भी नहीं पायेंगे, जबतक अपने अदर बार-बार पद-पदपर व्यक्त होनेवाली व्यक्तिगत अहङ्कारकी आवाजको सर्वथा कुचलकर हम प्रभुकी आवाज, प्रभुके आदेशको वास्तवमें सुननेके लिये तैयार न हो जायेंगे । हमारे सामने तो जब कोई भी समस्या आती है, तब हमारा अहङ्कार सामने आ जाता है और एकके बाद

एक अनेको युक्ति बतलाने लगता है—यह करो, वह करो । हम सोचते हैं, ऐसा करके हम सफल हो जायेंगे, सुखी हो जायेंगे । क्षणभरके लिये भी हमारे अंदर यह विचारतक नहीं उदय होता कि यह कार्य, यह ढग प्रभुके आदेशका अनुगामी है या नहीं । मन अगणित—असंख्य सस्कारोंसे, वासनाओंसे भरा होता है, वर्तमानका वातावरण अनुरूप सस्कारोंको प्रभावित करता रहता है । वे जाग उठते हैं तथा उन्हींके अनुरूप हम अपना कार्यक्रम स्थिर करते हैं, समस्याएँ हल करने चलते हैं । संयोगसे हमारे कुछ कार्यक्रम, कुछ सुझाव प्रभुके आदेशके अनुकूल भले हो जायें, पर अधिकांश विपरीत होते हैं । विपरीत होनेका ही वह प्रमाण है कि आगे बढ़ते ही हम उलझन, ईर्ष्या, परनिन्दा, अहम्मन्यता, असहिष्णुता, मलिनता, अज्ञान—इनसे घिर जाते हैं । यही आजके जगत्में हो रहा है, हम सोचकर देखेंगे तो प्रायः सर्वत्र सभी क्षेत्रोंमें, कहीं कम तो कहीं अधिक, यही स्पष्ट देख पायेंगे ।

यह ठीक है कि अहङ्कारकी आवाजको सर्वथा शान्त कर देना सहज नहीं और यह हुए बिना प्रभुके सकेतको भी स्पष्ट सुन लेना सम्भव नहीं । पर इस दिशामें हमारा प्रयत्न भी तो हो । उनकी ओरसे आयी हुई प्रेरणाको ग्रहण करनेके लिये हमारा मन उन्मुख तो हो । हम अपनी प्रत्येक चेशके आरम्भमें उनकी ओर मुड़ें तो सही । हमारी इच्छा तो हो । उनके आदेशका अनुसरण करनेका निश्चय तो हमारी बुद्धिमें हो जाय । फिर तो उनकी ओरसे कुछ-कुछ, नहीं-नहीं पर्याप्त प्रकाश मिलेगा ही । एक बार हम अपने सञ्चित सस्कारोंके प्रवाह (स्फुरणा) को रोक दें, मनको खाली

कर दे, न खाली कर सके, बरबस स्फुरणाएँ उठती ही रहें तो फिर प्रभुसे सम्बन्ध रखनेवाले विचारोको, भावोको मनमे भरना आरम्भ कर दें, प्रभुके स्मरणसे चित्तको पूरित करने लग जायँ । इससे यह होगा कि अहङ्कार रहनेपर भी चित्तमे प्रभुके दिव्य सदेशका स्पन्दन आरम्भ हो जायगा । कदाचित् अपने एव प्रभुके बीचमे स्थित आवरणकी घनताके कारण हमे उस स्पन्दनकी अनुभूति न हो अथवा इतनी अस्पष्ट हो कि हम ठीक-ठीक उसे समझ न पावे, प्रभु क्या चाहते हैं, उनकी क्या आज्ञा है, यह स्पष्ट निर्णय हम नहीं कर पाये, तो भी हमारा काम तो हो ही जायगा । वह इम रूपमें कि हमारे अनजानमे ही हमारे चित्तकी, बुद्धिकी, इन्द्रियोंकी गति उसी ओर हो जायगी जिस ओर प्रभु हमें ले जाना चाहते थे । तथा उस ओर गति होनेपर हमारे लिये उलझन नहीं रहेगी, हम क्या करें, क्या नहीं करें—यह उघेड-बुन नहीं रहेगी । अपने-आप स्वाभाविक ही हम, जिस ओरसे हटना चाहिये, हट जायँगे, जिधर चलते रहना चाहिये, चलते रहेगे । ईर्ष्याकी आग फिर हमे नहीं जलायेगी, 'हाय रे, हमने इतना ही कमाया, उसने इतने कमा लिये, हमारी पूछ नहीं, उसका सभी आदर करते हैं, हम पीछे रह गये, वह आगे बढ गया, वह गिर क्यों नहीं पडता'—ये कलुषित भावनाएँ हमें छू नहीं सकेंगी । दूसरेके दोषोंकी आलोचना कर अपना मन गदा करनेकी प्रवृत्ति हममे नहीं होगी । 'हम ठीक हैं अन्य सभी भ्रान्त हैं'—यह गर्व हमारे अंदर नहीं आयेगा । सबको निर्मल कर देनेका बीडा हम कदापि नहीं उठायेंगे । अपने विपक्षीकी बातका भी हम यथायोग्य आदर करेंगे । अपने अदरका छोटे-से-

छोटा दोप भी सामने आने लगेगा । उमे वीनेमें ही हम इतना व्यस्त हो जायँगे कि दूसरोंमें कहीं मेल है भी यह स्मृति लुप्त हो जायगी । अपनी स्थितिके सम्बन्धमें हमें भ्रान्ति नहीं होगी, वास्तवमें हम कहाँ हैं, उसका ज्ञान हमें बना रहेगा, भूलकर भी हम हवाई किलेमें राजा बनकर सैर करने न जायँगे, मलिनतासे भरे रहनेपर भी देवता, महात्मा होनेका भ्रम हमारे अंदर कभी नहीं आयेगा । प्रत्येक चेष्टाके आरम्भमें—चाहे वह कितनी भी नगण्य-सी चेष्टा क्यों न हो—प्रभुकी प्रेरणा, इच्छा, आदेशके सँचेमें हमारी बुद्धि, मन-इन्द्रियोंके ढल जानेपर ये बातें हममें निश्चितरूपसे होगी ही । ये नहीं हों, इनसे विपरीत हो तो समझ लेना चाहिये कि हमारी चेष्टा प्रभुकी प्रेरणासे परिचालित नहीं है, अपितु हम अहङ्कारकी आवाजसे नियन्त्रित होकर पीछेकी ओर, नीचे गिरने जा रहे हैं । जितनी शीघ्रतासे हम चेतेंगे, उतना ही अधिक हमारा एव जगत्का लाभ होगा । जितनी अधिक देर लगेगी उतनी ही अधिक मात्रामें हमारा एव जगत्के ध्वंसका मार्ग प्रशस्त होगा ।

किंतु अभी हमारी दशा तो यह है—

मारग अगम, संग नहीं संबल, नाउँ गाउँ कर भूला रे ।

अत्यन्त कठिन मार्गसे हम चल रहे हैं, पासमें पथके लिये पाथेय (राहखर्च) भी नहीं है और सबसे बड़े मजेकी बात तो यह है कि हमें जिस गाँवमें जाना है, उसका नामतक हम भूल गये हैं । मार्ग कठिन इसलिये कि हमारे चारों ओर विषयोंके झाड़-झंखाड़, पर्वत, वन भरे पडे हैं, क्षण-क्षणमें हम रास्ता भूल रहे हैं । प्रभुकी स्मृतिरूपी पाथेय भी नहीं, जो हमारे श्रान्त मन, इन्द्रिय,

प्राणोमे पुन -पुन नवशक्तिका सञ्चार करता रहे । और सबसे अधिक चिन्ताकी बात तो यह है कि हम मानव-जीवनके उद्देश्यको ही भूल गये हैं । प्रभुकी प्राप्ति ही हमारे जीवनका एकमात्र उद्देश्य है, वहीं हमे जाना है, हमे इस बातकी ही विस्मृति हो गयी है । ऐसी अवस्थामे प्रत्येक कार्यका आरम्भ करते समय प्रभुका सकेत ग्रहण करनेकी वृत्ति हमारे अदर जाग उठे, हम उसके लिये प्रयास करें, यह सम्भावना कहाँ ? हाँ, किसी अनिर्वचनीय सौभाग्यवश यदि दु खोसे छूटनेके लिये भी हम प्रभुको पुकार सके, सच्चे सरल हृदयसे अपनी यह विनय सुना सके,—‘नाथ ! अब तुम्हीं आगे ले चलो’—

तुलसिदास भव-त्रास हरहु अब, होहु राम अनुकूल रे ।

—ऐसी सच्ची भावना दु खके समय ही हमारे अदर जाग उठे तो भी जीवनके अन्ततक हम कृतार्थ हो जायँ । इसमे तनिक भी सदेहके लिये स्थान नहीं । दु खमे की हुई प्रत्येक पुकार हमारे एव प्रभुके बीचमें स्थित परदेको क्रमशः फाड़ती ही जायगी । प्रभुके साथ किया हुआ क्षणभरका सम्बन्ध भी हमारे मन, प्राण एवं इन्द्रियोंमे अपनी छाप—स्थायी प्रभाव छोड़ जायगा । किसी दिन प्रबल दु खको निमित्त बनाकर प्रभुको पुकारते समय कोई ऐसा भरपूर धक्का लगेगा कि आवरण छिन्न-भिन्न हो जायगा । उसीके साथ हमारे अहङ्कारकी आवाज भी शान्त हो जायगी, और तब वास्तवमें हम प्रभुका आदेश अत्यन्त स्पष्टरूपसे सुननेमें समर्थ हो सकेंगे । उस समय हमारा जीवन कुछ और ही होगा ।



विचारोंका संयम

कभी-कभी हमारे मनमें रहनेवाले विचारोंसे इतना भारी अनर्थ हो जाता है कि जिसकी हमें कल्पनातक नहीं होती। मान लीजिये— हम बाजार चले। उसी रास्तेमें सड़कपर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। उन्हें लडते देखकर हम खडे हो गये। बिना बोले चुपचाप कुछ देरतक उनको लडते हुए देखते रहे। इस देखनेका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हम उन दोनोंमेंसे किसी एकके प्रति मन-ही-मन झुक पडे, एकका पक्ष हमें अपेक्षाकृत ठीक एव दूसरेका भूल दीखने लगा। हमारे अदर भी क्रोधके परमाणु थे जो प्राय. रहते हैं ही, परिणाम यह हुआ कि हमे जिसकी भूल दीखती थी, उसके प्रति हमारे मनमें भी क्रोधका सञ्चार हो गया। हमारा उन दोनों व्यक्तियोंमें किसीसे भी कोई सम्बन्ध नहीं था, फिर भी मन-ही-मन हम गरम हो उठे। और उसके प्रति क्रोधसे सने विचार उत्पन्न

होने लगे । इतनेमे दीखा कि हमने जिसका मन-ही-मन पक्ष लिया था, उसने अपने प्रतिपक्षीके सिरपर जोरसे लाठी जमा दी और उसका सिर फट गया । लोग दौड पडे, पुलिस भी आ गयी । हमे भी प्रतीत हुआ कि आह । यह तो बुरा हुआ तथा यह सोचते हुए हम अपने रास्ते चले गये । पुलिसने मारनेवालेको चलान कर दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष था कि उसने एकका सिर फोडा है । उसे सजा भी हो गयी ।

किंतु इस घटनामे एक बात ऐसी हुई है जिसे किसीने नहीं जाना । वह बात पुलिसकी रिपोर्टमे नहीं आयी, हमने भी नहीं जाना । वह बात यह है कि वास्तवमे सिर फोडनेका अपराधी वह अकेला ही नहीं है, जिस वेचारेको सजा हुई है, हम भी हैं । यह सुनकर हम भले चकरा उठे, पर बात बिल्कुल सच्ची है । हमारे न जानने, न माननेपर भी, जनताके द्वारा सज्जन पुरुष होनेका प्रमाणपत्र पा लेनेपर भी, यह बात सच्ची ही रहेगी ।

इसको ठीकसे समझनेके लिये इस प्रकार विश्लेषण करे—दोनों लड़ रहे थे, दोनोंमे ही क्रोध था, किंतु जिसने सिर फोडनेका अपराध किया है, उसमें पहले क्रोधकी मात्रा इतनी, ऐसी नहीं थी कि वह लाठी मारनेकी क्रियामे हेतु बन सके । इस क्रियाके लिये जितना क्रोध जाग्रत् होना चाहिये, उतना उसमे हमारे वहाँ जानेसे पूर्व अवश्य ही नहीं था । दुर्दैवयोगसे हम वहाँ जा पहुँचे । हमने उसका मन-ही-मन पक्ष लिया । हमारा क्रोध उभडा और उसने वहाँ उसके पास जाकर जितनी कमी थी, उसकी पूर्ति कर दी । लाठी मारनेके लिये जितना क्रोध उसमे घट रहा था, उतना हमने अपनी ओरसे उसे दे दिया और उसने लाठी मार दी । दूसरे शब्दोंमे

लाठी मारनेकी जो क्रिया हुई है, वह हमारे क्रोधसे सम्पन्न हुई है। यदि हम वहाँ न जाते, जाकर यदि शान्त सुस्थिर बने रहते तो उसके क्रोधको बल नहीं मिलता तथा यह क्रिया न घटती। उसके पास तो इतना ही क्रोध था कि खूब बकने-झकनेमे ही वह उलझा रहता। पर हमारे अदरकी आग उसके पास बिना किसीको दीखे जा पहुँची और उसने उसके द्वारा यह कुकृत्य करवा दिया। फिर हम भी अपराधी कैसे नहीं हुए ?

सोचकर देखेंगे तो पता चलेगा कि अनजानमे ही हमारे द्वारा प्रतिदिन न जाने ऐसी कितनी घटनाएँ घटती हैं, कितनी बार ऐसे अलक्षित अपराध बनते रहते हैं। तथा ठीक इससे विपरीत, यदि हमारे शुभ विचार हैं तो उनसे हमारे बिना जाने ही कितनोंकी सेवा हो जाती है। जैसे हम किसी व्यक्तिसे मिलने गये। वहाँपर एक और कोई दुखी व्यक्ति बैठा है, अपनी दु खगाथा सुना रहा है। हम भी सुनने लगे। सुनते-सुनते हमारे मनमे सहानुभूति उत्पन्न हुई, हृदय करुणासे भर आया, मनमें आया कि इसकी सहायता अवश्य होनी चाहिये। इतनेमे वह व्यक्ति, जिससे हम मिलने गये थे, दुखीको सान्त्वना देते हुए कह उठा—‘आप चिन्ता न करे, आपका काम मैं अभी कर देता हूँ।’ तथा उसने वह काम तुरत कर भी दिया। अब यहाँ हमने अपने मुँहसे उसकी कोई भी सिफारिश नहीं की, अपनी जानमे उसकी सहायता करनेकी कोई चेष्टा भी न की। पर वास्तवमें अभी-अभी जो उसकी सहायता हुई है, उसमे हमारा भी भाग है। हमारे आनेसे पूर्व उस व्यक्तिमे सद्भावना अवश्य

थी, पर इतनी मात्रामें नहीं थी कि वह तुरंत सक्रिय रूप वारण कर ले; किंतु हमारी मनोगत सहानुभूति और करुणाने उसके मनको स्पर्श कर लिया, सक्रिय महायताके लिये जितनी सहानुभूति और करुणा घट रही थी, उसकी पूर्ति हो गयी। वस, काम हो गया। लोगोंको भले ही इसका पता न लगे, जिसकी सहायता हुई, जिसने की, वे दोनों भी न जानें, हमें भी कल्पना न हो कि हमने भी कुछ किया है, पर असलमें वह सेवा सम्पन्न हुई है हमारी सद्भावनासे। हमारी प्रबल सहानुभूतिका बल उमे यदि उस समय नहीं मिलना तो सम्भवत उसकी सद्भावना तुरंत सक्रिय रूप वारण नहीं करती।

और भी व्यापक दृष्टिसे इस बातपर विचार करें। कल्पना कर लें, दो देशोंमें युद्ध हो रहा है। वे देश हमसे हजारों कोस दूर हैं। आँखोंमें हमने उन देशोंको देखा नहीं। केवल समाचारपत्रोंसे ही युद्धकी घटना पढ़ते-सुनते हैं। पर कुछ ही दिनोंमें यह परिणाम होता है कि एकके प्रति हमारे मनमें पक्ष हो जाता है। हम एककी विजय चाहने लगते हैं और दूसरेकी पराजय। उसकी, विजय सुनकर हमारे मनमें उल्लास होता है, पराजय सुननेपर हृदयमें ठेस लगनी है। अब यदि यह कहा जाय कि वहाँकी वैमनस्यकी आग उत्तरोत्तर प्रज्वलित करते रहनेमें, युद्धसे होनेवाले भयङ्कर नर-संहारमें हम भी योगदान कर रहे हैं, तो इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। हम यह कह भले ही दें कि 'हमारा क्या सम्बन्ध है, हम तो अखवार पढ़ते हैं तथा फिर जैसा ठीक लगता है, कह देते हैं।' पर बात ऐसी नहीं है। सचमुच हमारे द्वारा अनजानमें ही उस पापमें योगदान दिया जा रहा है, अनेकोंकी जान लेनेमें हम भी

सहायता कर रहे हैं। यह सदा ध्यानमें रखनेकी बात है कि जगत्में जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, उनमें, यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो अच्छीके साथ, बुरे हैं तो बुरी घटनाके साथ हमारा न्यूनाधिक कुछ-न-कुछ निश्चित सम्बन्ध है ही। यहाँकी घटना वस्तुतः है ही हमारे मनके विचारोका मूर्तरूप। दो महायुद्ध हुए। ये क्या थे? बस, जहाँ-जहाँ द्वेषपूर्ण विचार थे, सब एकत्र हो गये और वे ही भीषण नरसंहारके रूपमें प्रकट हो गये। ऐसे ही जगत्में जहाँ-जहाँ सद्विचार है, वे एकत्र होते हैं तो फिर उनसे प्रेम, शान्ति-सुख बढ़ानेवाली घटनाओका विस्तार होता है। हमारे अंदर यदि तनिक भी बुरे विचार हैं तो वे अपनी शक्तिके अनुसार निकट एव दूर बुरी घटना घटनेमें हेतु बनेंगे तथा हमारा तनिक-सा सद्विचार समीप एव दूरके वातावरणमें शुभकी सृष्टिमें सहायक बनेगा।

इसीलिये आज जब कि सर्वत्र दुःख-अशान्ति बढ़ रही है, घृणा-द्वेषमूलक घटनाओंकी सरलिया बढ़ती जा रही है, ऐसे समयमें हमें अपने विचारोंके समयकी अत्यधिक आवश्यकता है। अन्यथा हम घर बैठे-बैठे, अखबारोको पढ़-पढ़कर, रास्ते चलते हुए किसी घटनाको देख-सुनकर अलक्षित अपराध करते रहेंगे, जिसका परिणाम हमारे लिये, विश्वके लिये और भी अत्यन्त भयावह होगा। ऐसा न हो इसके लिये, हमारे मनमें असद्विचार उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही न रहे, निरन्तर परम शुभसे मन पूर्ण रहे, ऐसी स्थिति हमें उत्पन्न करनी पड़ेगी।

यों तो इसके लिये मनीषियोंने अनेकों उपाय बताये हैं, पर सर्वोत्तम उपाय है, अपने मनसे जगत्की कल्पनाको ही मिटा देना

तथा जगत्के स्थानपर सदा सर्वत्र एकमात्र आनन्दमय प्रभुकी सत्ताके ही दर्शन करना । यह हुआ कि फिर असद्विचारकी जड ही कट जायगी । सर्वत्र भगवद्भाव हो जानेपर जानमें, अनजानमे कभी किसी प्रकारका अपराध हमसे घट नहीं सकता । हमारे द्वारा जो अशुभका विस्तार होता है, अशुभको प्रेरणा मिलती है, वह फिर होनेकी ही नहीं । फिर तो परम शुभ प्रभुमे प्रतिष्ठित होकर हम सदा सबमे शुभका ही वितरण करते रहेंगे ।

वास्तवमें सच्ची बात भी यही है कि जहाँ हमे जगत् दीखता है, वहाँ सर्वथा सर्वत्र प्रभु-ही-प्रभु भरे हैं, उनके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । पर हमें ठीक-ठीक ऐसी ही अनुभूति हो, तब काम बने । इस अनुभूतिके लिये यह आवश्यक नहीं कि हम खूब पढे-लिखे हों, दर्शनशास्त्रका हमारा गम्भीर अध्ययन हो, कई कलाओके मर्मज्ञ हो, अमुक देशके वासी और अमुक वर्ण-जातिके ही हो । इसके लिये तो आवश्यकता इतनी ही है कि एक तो हमारा इस सिद्धान्तपर सरल विश्वास हो, हमारी बुद्धि इसको असन्दिग्ध और निश्चित रूपसे स्वीकार करती हो कि एकमात्र प्रभु ही सर्वत्र अवस्थित है, और दूसरी बात यह कि हम डम भावकी बार-बार आदरपूर्वक अधिक-मे-अधिक आवृत्ति करते रहें । लगनपूर्वक की हुई आवृत्ति कुछ ही दिनोंमें हमारी बुद्धिके निश्चयको मनमे उतार देगी तथा प्रयत्न जारी रहनेपर इन्द्रियोंको भी इस सत्यकी अनुभूति होते देर नहीं लगेगी । किंतु प्रयत्न हो तब न १ यहाँ तो 'कूँए भाँग पड़ी'की कहावत चरितार्थ हो रही है । आज समष्टिकी ही प्रवृत्ति प्रायः

प्रभुको भूले रहनेकी व्रन गयी है । हम अधिकांश ऐसे व्रन गये हैं कि आनन्दस्वरूप प्रभुको भूलकर सुख पानेकी लालसामे दिन-रात जागतिक विषयोके, जो अनित्य और दुःखमय हैं, पीछे ही दौडते रहते हैं । इससे सुख तो हमें कभी मिलता नहीं, पद-पदपर दुःख मिलता है, अच्छी तरह जान लेते हैं कि उनसे सुख मिलनेका नहीं, पर जानकर भी नहीं जान पाते, उन्हें छोडना तो दूर, उत्तरोत्तर उन्हींमें उलझते जाते हैं । अनादि संस्कारोंसे मनपर मलिनताकी मोटी तह जमा हो गयी है, कभी हमारे विवेकका द्वार खुलता ही नहीं कि जिसके छिद्रसे प्रभुके निर्मल प्रकाशकी किरणें हमारे अदर प्रवेश कर सकें, क्षणभरके लिये भी हमें भान नहीं होता कि हमारा कल्याण एकमात्र परम पिता प्रभुसे ही सम्भव है । उन्हें अपने हृदय-मन्दिरमें पधरानेकी वासना ही हममें कभी नहीं जागती, उनसे जुड़नेके लिये हमारा मन कभी लालायित ही नहीं होता । वहाँ तो निरन्तर जागतिक विषयोके अभावकी आग ही धधकती रहती है । विषयोंकी प्यास कभी शान्त होती ही नहीं, इन्हें एकत्र करनेमें ही जीवन समाप्त हो जाता है, यों कह दें, जीवनभर तालाब खोदते बीत जाता है, पर पानीकी बूँद एक भी नहीं मिलती, प्यास तनिक भी नहीं बुझती—

कबहूँ मन विश्राम न मान्यो ।

निसिदिन भ्रमत बिसारि सहज सुख, जहँ तहँ इंद्रिन तान्यो ॥

जदपि विषय-संग सह्यो दुसह दुख, विषम जाल भस्मान्यो ।

तदपि न तजत मूढ ममताबस जानतहूँ नहिँ जान्यो ॥

जनम अनेक किये नाना बिधि करम-कीच चित्त सान्यो ।

होइ न विमल त्रिवेक-नीर विनु, वेद पुगन ब्रह्मान्यो ॥
निज हित नाथ पिता गुरु-हरिसों हरषि हटै नहिँ आन्यो ।
तुलसिदास कव तृषा जाय सर खनतहि जनम सिरान्यो ॥

ऐसी हमारी गिरी दशा है । अब हो तो क्या हो ! फिर भी यदि हमारा विवेक सर्वथा मर नहीं गया हो, हममे यदि प्रभुके प्रकाशकी क्षीण रेखा भी वर्तमान हो, यदा-कदा भी प्रभुकी स्मृति किसी भी वहानेसे हमारे अन्त करणमें जाग उठती हो, जगत्मे सुख-शान्ति बढ़े, यह शुभ भावना कभी उत्पन्न होती हो तो हमे सावधान होकर अपने विचारोंका संयम करना चाहिये, विकारोंको दमन करनेके प्रयासमें लगना चाहिये । हम तत्परतासे सर्वत्र प्रभुको देखनेका अभ्यास आरम्भ करें । फिर निश्चय ही विकार शान्त होने लगेंगे, शुभ भावनाएँ बढ़ने लगेंगी । घरमे माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भाई-बन्धु, नौकर-चाकर आदि जो भी हों, गाय, घोड़े, कुत्ते आदि पशुओंमेंसे जो भी हमारे आश्रयमें पलते हो, तथा बाहर, दूकान, पाठशाला, कार्यालय, कचहरी, अस्पताल, बाग, बगीचे, खेत, जंगल, नदी, तालाब, कुँआ, खेल्के मैदान आदि स्थानोंपर, जहाँ कहीं भी जिस किसीके भी सम्पर्कमें आनेका हमारा काम पडता हो, उन सबमें हम प्रभुको देखनेका अभ्यास करें, प्रभु ही इस रूपमें हमारे समक्ष उपस्थित हैं, ऐसी भावना करें; इस भावनाकी वारंवार आवृत्ति करें । फिर हमारी तत्परताके अनुरूप सफलता हमे मिलेगी ही । यदि यह भावना सक्रिय होगी तब तो फल प्रकट होनेमें बहुत ही कम समय लगेगा । सक्रियका अर्थ यह कि भावना यथासम्भव व्यवहारमें उतरे । जैसे पडोसका कोई एक व्यक्ति हमारे पास आवे । आते ही हमने भावना की कि प्रभु पधारें हैं ।

पर इतनेमें ही उसने हमसे किसी वस्तुकी याचना कर दी। वह वस्तु हमारे पास है भी, हमारी आवश्यकतासे अधिक भी है, हम यह भी जानते हैं कि उसे इस वस्तुकी जरूरत है। पर अपने अदर सग्रहकी वृत्ति होनेके कारण अथवा अनुदारताका दोष रहनेके कारण हम देनेमें हिचकिचा जाते हैं या देकर अनुत्साह—पश्चात्तापका अनुभव करते हैं अथवा कुछ दिनोंके बाद दी हुई वस्तुके लिये उसपर अहसान करते हैं तो यहाँ उस पडोसीके प्रति की हुई भगवद्भावना सक्रिय नहीं हुई। यदि उसकी याचना सुनकर मन उल्लाससे भर जाता है, यह भावना आती है कि 'नाथ ! तुम्हारी कितनी कृपा है जो हमें अपनी सेवाका अवसर देने आये हैं।' तथा यदि वह पडोसी कृतज्ञतावश हमारी इस सेवाकी कहीं चर्चा कर दे तो हम सकोचसे गड जायँ—हमारी ऐसी दशा है तो वह भावना सक्रिय हुई। थोड़ेमें कहनेपर यह कि हमारे पास जो कुछ है, उसे यथासम्भव यथायोग्य विश्वरूप प्रभुकी सेवामें लगाकर हम हर्षित हो, उत्तरोत्तर हमारा मन कृतज्ञतासे भरता जाय तब तो हमारी की हुई प्रभु-भावना सक्रिय है। अन्यथा वह प्रेरणात्मक विचारमात्र (Suggestion) ही है। नहींकी अपेक्षा तो विचारमात्रकी भगवद्भावना भी बहुत सुन्दर है। इससे भी अशुभ विचारोके प्रवाहमें बड़ी रोक लगती है। पर सच्चा एव पूरा-पूरा तथा शीघ्र-से-शीघ्र फल तो सक्रिय भावनासे ही प्राप्त होता है।

विकारोंका दमन होनेमें, विचारोंका सयम होनेमें उपर्युक्त उपाय अमोघ है। पर कदाचित् कोई इसपर श्रद्धा न कर सके तो उसे भी अपने एवं जगत्के हितके लिये कम-से-कम दो बातें अवश्य करनी चाहिये—

(१) कोई शुभ भाव, जो सबसे अधिक प्रिय हो, अपने मनके पीछे सदा रखे । तथा उस भावके सूचक किसी वाक्यको मन-ही-मन जागनेसे सोनेतक—जब भी अवकाश हो अधिक-पे-अधिक स्मरण करे, उसकी अधिक-से-अधिक आवृत्ति करे । जैसे सत्य बोलना प्रिय लगे तो इसका सूचक एक वाक्य 'सत्य वदिष्यामि' 'सदा सत्य बोलूँगा'—इसको बार-बार स्मरण करे । प्रेम करना प्रिय हो तो 'मैं सदा सबसे प्रेम करूँगा ।' यह बार-बार स्मरण करे । बार-बार स्मरण करनेका यह परिणाम होगा कि मनमें इसकी आवृत्ति करनेकी आदत पड जायगी तथा जब कभी भी हमारा मन खाली होगा, उस समय इस भावका जप शुरू हो जायगा । और शुभ भावोंकी आवृत्ति होते समय अन्य असद्भाव एव विकारोंके प्रवेशके लिये अवकाश कम रह जायगा । इस प्रकार जगत्में शुभको बढ़ाने एव अशुभकी मात्रा घटानेमें हम हेतु बनेगे ।

(२) हम किसी समय निकम्मे नहीं रहें । कुछ-न-कुछ सत्-प्रवृत्ति-में ही यथासम्भव मन एव शरीर दोनो लगे रहे । निठल्ले मनमें असद्विचारके प्रवेशके लिये बहुत अधिक, शुभ विचारके लिये बहुत कम सम्भावना रहती है ।

एक सतने कहा है—

'यदि भला न कर सको तो बुरा करनेसे तो बचो ।' यह वचन हमारे लिये बहुत महत्त्वका है । शुभका विस्तार यदि हम न कर सकें, तो बुराईको तो रोके ही रहें । इसीलिये विचारोंका संयम परम आवश्यक है ।

मनकी सँभाल

जहाँ हमारा मन है, वहीं हम हैं । भले ही हम मन्दिरमें— उपासनागृहमें ही क्यों न बैठे हो, पर यदि हमारा मन कहीं और है—शेयर बाजारमे चक्कर काट रहा है, शेयरके भावकी विवेचना कर रहा है, ले-बेच रहा है, घर, दूकान, आफिस, होटल, क्लब, थियेटर आदिका चिन्तन कर रहा है—तो हम उस समय सचमुच मन्दिरमें नहीं, अपितु हमारे चिन्तनके विषय-भूत उन-उन स्थानोंमें ही विचर रहे हैं । यह सर्वथा सत्य सिद्धान्त है ।

यों तो शरीरसे भी शुभ स्थानपर, शुभ वातावरणमे रहना परम मङ्गलकारी है ही, पर जबतक हमारा मन उसे ग्रहण नहीं करता, तबतक हमारी स्थिति नहीं बदलती, नहीं बदल सकती । हमारी उपासना तभी सच्ची उपासना बनेगी, जब उसमे शारीरिक क्रिया-विशेषका नहीं, मनका संयोग होने लगेगा । प्रभुके सामने घुटने टेकेकर हाथ जोडकर, या किसी आसनविशेषसे बैठकर प्रार्थना करनेकी मुद्रा बड़ी सुन्दर है, पर हमारी प्रार्थना मच्ची तो तब होगी, जब हमारा मन सब ओरसे सिमटकर प्रभुमे ही केन्द्रित होने लगेगा ।

इसीलिये बाहरी आचार-व्यवहारकी यथाशक्ति पूर्ण रक्षा करते हुए भी प्रधानतासे हमारी शक्ति लगनी चाहिये मनको सँभालनेमें। हमारा मन किस समय किस रूपमें हमारे सामने आ रहा है, क्या कर रहा है, अपने लक्ष्यको भूलकर कहीं अन्यत्र भटकने तो नहीं लगा है, इस सँभालकी अत्यधिक आवश्यकता है।

निरन्तर प्रभुका ही चिन्तन होने लग जानेपर तो सँभालका प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाता है, किंतु जबतक क्षणभरके लिये भी मन विपयाकार होता है, तबतक सावधान रहनेकी आवश्यकता है। हममें भोगोकी कामना होती है; हम सकल्प करते हैं, अमुक वस्तु है या नहीं, इस प्रकार किसी विषयमें हमें सदेह होता है, जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, उसके विषयमें भी हम पढ़-सुनकर विश्वास कर लेते हैं कि यह वस्तु निश्चितरूपसे ऐसे है ही, अथवा किसी अप्रत्यक्ष वस्तुके प्रति हमारे मनमें सर्वथा अविश्वास रहता है कि वह है ही नहीं, हममें धृतिहीनता वृत्ति रहती है, इससे विपरीत व्याकुलताका भाव भी रहता है, विविध परिस्थितियोंमें लज्जाकी वृत्ति जाग उठती है; निश्चय कर लेनेकी वृत्ति—बुद्धि भी हममें है, और हमें भय भी होता है। ये सब क्या हैं ? इन सब रूपोंमें हमारा मन ही तो व्यक्त हो रहा है—

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धाधृतिरधृतिर्हीर्षोर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव । ❀

अब इन्हीं वृत्तियोंमें, इन्हीं भावनाओंमेंसे यदि हम यथायोग्य किन्हींकी दिशा बदल दें, बदले ही रक्खें, उनपर प्रभुका रंग चढा

दें और किन्हींको शान्त कर दे तो बस, मनकी सँभाल हो गयी । अतएव आइये, इसी उद्देश्यसे यहाँ हम काम, सकल्प आदि मनके स्वरूपोंपर क्रमशः संक्षेपमे कुछ विचार करे ।

हमें भोगोकी कामना क्यों होती है ? इसीलिये तो कि हमे उनसे सुख प्राप्त होनेकी सम्भावना दीखती है । फिर क्यों नहीं हम उस वस्तुकी ही कामना करें जो समस्त सुखोका केन्द्र है, जो समस्त विश्वको सुखका दान करता है, जिस सुखपर ही विश्वके समस्त प्राणियोका जीवन अवलम्बित है । वह वस्तु तो एकमात्र प्रभुका स्वरूप है । वे प्रभु ही विश्वको आनन्दका दान करते हैं, 'एष ह्येवानन्दयति*' । उनके आनन्दका ही किञ्चित् अंश लेकर विश्वके अनन्त प्राणी जीवन धारण करते हैं ।

‘एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।’†

हम यदि प्रभुको ही चाहने लगेँ, अपनी कामनाकी दिशा बदल दे, जगत्की ओरसे मोड़कर उसे प्रभुकी ओर कर दें, जितनी बार जिस किसी वस्तुके लिये भी कामना उत्पन्न हो, उतनी बार हम उसे प्रभुकी कामनासे ढक दें, 'हमें तो एकमात्र प्रभु मिल जायँ, उनके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिये' इस कामनासे ही जगत्की अन्य समस्त कामनाओंको तत्परतापूर्वक सम्पुटित करते जायँ तो फिर मनको धो देनेका कार्य आरम्भ हो गया, उसके 'काम' रूपकी सफाई होने लगी—विषयाकारसे वह प्रभुके आकारमें परिणत होने लगा ।

* तैत्तिरीय० २ । ७ ।

† बृहदारण्यक० ४ । ३ । ३२ ।

सकल्पके प्रवाहको भी हम प्रभुकी ओर कर दे, अथवा इसके स्रोतको ही बंद कर दे। इसके लिये भी उपाय बड़ा सरल है, किंतु तत्परता एव अभ्यास यहाँ भी अपेक्षित है ही। जितनी स्फुरणाएँ उठें, उन्हे हम प्रभुको समर्पित करते चले जायँ। 'नाथ ! यह तुम्हें समर्पित है' इस भावनाकी पुट प्रत्येक स्फुरणामे लगा दे। इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि नवीन स्फुरणाएँ प्रभुसे सम्बद्ध होकर ही उठेगी। अथवा हम यह करें कि स्फुरणाओके द्रष्टा बन जायँ। क्या स्फुरणा हो रही है, हमारा मन क्या कर रहा है, इसे हम स्फुरणाओसे, मनसे अलग होकर देखने लगे, फिर निश्चय ही स्फुरणाओका वेग शान्त होने लगेगा, क्रमशः सर्वथा शान्त हो जायगा। तथा इस प्रकार प्रभु एव हमारे बीचका एक बहुत गहरा आवरण नष्ट हो जायगा।

सदेहके रूपमें भी हमारा मन ही है। यदि यह सदेह जागतिक विपर्योको लेकर है, तो इसमे विगेष हानि नहीं है, पर यदि यह प्रभुकी सत्ताके सम्बन्धमे है तो इसे तुरत ही नष्ट कर देना चाहिये। इसे नष्ट करनेका सर्वोत्तम साधन यह है कि जिनका हृदय प्रभुके आलोकसे आलोकित हो चुका है, ऐसे किसी सत महापुरुषका हम सरलभावसे आश्रय ग्रहण कर लें, उनके सङ्गमे रहने लगे। अनिवार्य आवश्यकताकी वृत्तिसे ढूँढनेपर कोई-न-कोई महापुरुष हमें निश्चय ही मिलेगा और उसके सङ्गसे हमारे सदेहकी निवृत्ति होकर ही रहेगी। इतना ही नहीं, हमारे सामने मनका एक निर्मल, सत्त्व-पूरित रूप भी आ जायगा, प्रभुमे अडिग श्रद्धा उत्पन्न होगी और यह

दें और किन्हींको शान्त कर दे तो बस, मनकी सँभाल हो गयी । अतएव आइये, इसी उद्देश्यसे यहाँ हम काम, सकल्प आदि मनके स्वरूपोंपर क्रमशः सक्षेपमे कुछ विचार करें ।

हमे भोगोंकी कामना क्यों होती है ? इसीलिये तो कि हमे उनसे सुख प्राप्त होनेकी सम्भावना दीखती है । फिर क्यों नहीं हम उस वस्तुकी ही कामना करें जो समस्त सुखोका केन्द्र है, जो समस्त विश्वको सुखका दान करता है, जिस सुखपर ही विश्वके समस्त प्राणियोंका जीवन अवलम्बित है । वह वस्तु तो एकमात्र प्रभुका स्वरूप है । वे प्रभु ही विश्वको आनन्दका दान करते हैं, 'एष ह्येवानन्दयति*' । उनके आनन्दका ही किञ्चित् अंग लेकर विश्वके अनन्त प्राणी जीवन वारण करते हैं ।

‘एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।’†

हम यदि प्रभुको ही चाहने लगेँ, अपनी कामनाकी दिशा बदल दे, जगत्की ओरसे मोड़कर उसे प्रभुकी ओर कर दें, जितनी बार जिस किसी वस्तुके लिये भी कामना उत्पन्न हो, उतनी बार हम उसे प्रभुकी कामनासे ढक दें, 'हमें तो एकमात्र प्रभु मिल जायँ, उनके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिये' इस कामनासे ही जगत्की अन्य समस्त कामनाओंको तत्परतापूर्वक सम्पुटित करते जायँ तो फिर मनको धो देनेका कार्य आरम्भ हो गया, उसके 'काम' रूपकी सफाई होने लगी—विषयाकारसे वह प्रभुके आकारमें परिणत होने लगा ।

* तैत्तिरीय० २ । ७ ।

† बृहदारण्यक० ४ । ३ । ३२ ।

सकल्पके प्रवाहको भी हम प्रभुकी ओर कर दे, अथवा इसके स्रोतको ही बढ कर दे । इसके लिये भी उपाय बडा सरल है, किंतु तत्परता एव अभ्यास यहाँ भी अपेक्षित है ही । जितनी स्फुरणाएँ उठे, उन्हें हम प्रभुको समर्पित करते चले जायँ । 'नाथ ! यह तुम्हे समर्पित है' इस भावनाकी पुट प्रत्येक स्फुरणामे लगा दे । इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि नवीन स्फुरणाएँ प्रभुसे सम्बद्ध होकर ही उठेगी । अथवा हम यह करे कि स्फुरणाओके द्रष्टा बन जायँ । क्या स्फुरणा हो रही है, हमारा मन क्या कर रहा है, इसे हम स्फुरणाओंसे, मनसे अलग होकर देखने लगे, फिर निश्चय ही स्फुरणाओका वेग शान्त होने लगेगा, क्रमशः सर्वथा शान्त हो जायगा । तथा इस प्रकार प्रभु एव हमारे बीचका एक बहुत गहरा आवरण नष्ट हो जायगा ।

सदेहके रूपमे भी हमारा मन ही है । यदि यह सदेह जागतिक विपर्ययोंको लेकर है, तो इसमे विशेष हानि नहीं है, पर यदि यह प्रभुकी सत्ताके सम्बन्धमे है तो इसे तुरत ही नष्ट कर देना चाहिये । इसे नष्ट करनेका सर्वोत्तम साधन यह है कि जिनका हृदय प्रभुके आलोकसे आलोकित हो चुका है, ऐसे किसी सत महा-पुरुषका हम सरलभावसे आश्रय ग्रहण कर ले, उनके सङ्गमे रहने लगेँ । अनिवार्य आवश्यकताकी वृत्तिसे ढूँढनेपर कोई-न-कोई महापुरुष हमें निश्चय ही मिलेगा और उसके सङ्गसे हमारे सदेहकी निवृत्ति होकर ही रहेगी । इतना ही नहीं, हमारे सामने मनका एक निर्मल, सत्त्व-पूरित रूप भी आ जायगा, प्रभुमे अडिग श्रद्धा उत्पन्न होगी और यह

दृढ विश्वास हमारी समस्त विघ्न-बाधाओंको हर लेगा । फिर प्रभुसे मिलन होनेमें देर न लगेगी ।

अश्रद्धा (अविश्वास) का प्रश्न कुछ टेढ़ा है । यदि प्रभुकी सत्तामें हमारा विश्वास नहीं, तब हमारे लिये तो सर्वत्र अँधेरा-ही-अँधेरा है । फिर तो जगत्के चकाचौंधमे पडकर हम सर्वथा अन्धे हो जाते हैं । हमारे लिये फिर प्रभु नहीं, परलोक नहीं, फिर तो केवल यह प्रत्यक्षका स्थूल जगत् एव जगत्के भोग ही रह जाते हैं । हमारा वर्तमान जीवन ही हमारे लिये अथ एवं इति बन जाता है । वर्तमान जगत्में इसीका बोलबाला है । प्रायः सर्वत्र सभी क्षेत्रोंमें हमें अश्रद्धाका नग्न नृत्य देखनेको मिलता है । इसकी ओषधि भी मुख्यतया एक ही है, और वह है प्रभुके परम मङ्गलमय अचिन्त्य विधानसे आये हुए भीषण दुःखोंके थपेड़े । इसकी चोट खानेपर ही हमारी बुद्धि ठिकाने आती है । तभी हम निश्चय कर पाते हैं कि प्रभु हैं एव जीवनका उद्देश्य जगत्के नश्वर भोग नहीं, एकमात्र प्रभुकी प्राप्ति है । तब कहीं जाकर प्रभुकी ओर हमारी गति होती है ।

धृतिके रूपमे व्यक्त होनेवाले मनकी भी सँभाल करनेकी आवश्यकता है । हमारी धृति सात्त्विक है, राजस है या तामस—इसे हम अच्छी तरह परख लें । यदि हमारी धृति एकमात्र प्रभुकी प्राप्तिको लक्ष्य बनाकर ही हममें जागरूक है तो वह सात्त्विक धृति है, जागतिक वैभव एव उनसे प्राप्त होनेवाले सुखको लेकर है तो वह राजस है, पर कहीं निद्रा, तन्द्रा, शोक, विषाद, गर्व आदि तामसिक भावोंको दृढ़तापूर्वक पकड़े रहनेमें ही हेतु बन रही है तो यह निश्चय ही तामस है । यह परख कर लेनेके बाद हमें राजस,

तामस धृतिको तो शीघ्र-से-शीघ्र छोड़ देना है । ग्रहण करने योग्य, प्रश्रय देने योग्य धृति तो केवल सात्त्विक धृति ही है, जो हमें प्रभुके द्वारतक ले जाती है ।

जागतिक वस्तुओको पानेके लिये तो हममे कई अवसरोपर बड़ी व्याकुलता होती है, पर प्रभुके लिये हमारा हृदय कभी नहीं रोता । यदि व्याकुलताको ही हम वरण करते हैं, हमे वरण करना है तो क्यों नहीं हम प्रभुके लिये ही रोवे ? इतना रोवें कि हृदयकी सारी मलिनता आँसू बनकर नेत्रोंके पथसे बाहर निकल जाय, हृदय निर्मल—खच्छ बन जाय, वहाँ प्रभुके निवास करने योग्य परिष्कृत और दैवीगुणोंसे सुसज्जित स्थान बन जाय और प्रभु उसमें आ विराजें !

जब हमारी भूल किसीको दीख जाती है, हमारा पाप प्रकट हो जाता है, तब हमे लज्जा होती है । इसलिये नहीं कि यह भूल हमसे क्यों हुई, ऐसा पाप हमसे क्यों बना, बल्कि इसलिये कि लोग जान गये, उनपर हमारी नीचता प्रकट हो गयी । यह लज्जा तो किसी कामकी नहीं । लज्जा होनी चाहिये पाप करनेमें, किये हुए पापोंको छिपानेमें, कोई भी पाप बन जाय तो उसे प्रकट कर देनेमे हमने क्षणभरका भी विलम्ब क्यों कर दिया, इस बातमे । ऐसी लज्जा प्रभुको शीघ्र-से-शीघ्र आकर्षित करनेवाली बन जाती है ।

बुद्धि भी सात्त्विकी, राजसी एव तामसी हुआ करती है । प्रभुसे मिलन होनेका यह प्रवृत्तिमय मार्ग है, यह निवृत्ति-मार्ग है, यह हमारा कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, हमारे लिये भयका कारण क्या है, हमें अभयपदकी प्राप्ति किन-किन उपायोंसे सम्भव है, हम ससारमें बँधे ही क्यों,

इससे छूट कैसे जायँ—इन सब बातोंको जो बुद्धि ठीक-ठीक समझती है, वह सात्त्विकी है। धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्यको यथार्थ-रूपसे न समझनेवाली बुद्धि राजसी है। तथा जो बुद्धि उल्टी माननेवाली हो, अधर्मको धर्म, अकर्तव्यको कर्तव्य, दुःखको सुख और अनित्यको नित्य समझती हो, सब कुछ विपरीत भावसे ग्रहण करती हो, वह तामसी है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि राजसी-तामसी बुद्धि तो हमे नीचे नरककुण्डमे ढकेलती है एव सात्त्विकी आनन्दमय प्रभुके चरणप्रान्तमे ले जाकर कृतार्थ कर देती है। अतः सात्त्विकी बुद्धि हमे क्षणभरके लिये छोड न दे, यह प्रयास सतत होना चाहिये, क्योंकि हमे तो प्रभुके समीप जाना है, हम जा रहे हैं। तथा जिस रथपर सवार हुए हम जा रहे हैं, उसपर बुद्धि सारथि जो ठहरी।* यदि सारथि ही रथसे कूद जायँ या उन्मत्त हो जाय तो रथ खड्डेमे गिरेगा ही।

भय भी हमे अनेक निमित्तसे होता है। पर यह हैं सर्वथा मिथ्या। जब सर्वत्र एकमात्र आत्मस्वरूप प्रभु ही सदा विराजित हैं, तब भय किस बातका। अपनेसे अपने-आपको भय होता है क्या? त्रिन्कुल नहीं होता। अतः इस परम सत्यको स्वीकारकर हम भयकी वृत्तिको सदाके लिये कुचल दे। भय ही करना हो तो यह करें कि कहीं इस परम सत्यकी हमे विस्मृति न हो जाय, क्षणभरके लिये सर्वत्र पूर्ण एकमात्र प्रभुको छोडकर हम किसी भी स्थानपर

* आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

(कठ० १।३।३)

जगत्को न देखने लग जायँ । यह एक भय हमे प्रभुसे नित्य सयोग करानेवाला बन जायगा, हमे सदाके लिये निर्भय कर देगा ।

सबका साराग यह है कि काम-संकल्प आदि भावोके रूपमे हमारा मन ही व्यक्त होता है । उन-उन अवसरोपर सावधान रहकर हम मनको सँभालते रहे, क्योंकि मनकी स्थितिपर ही हमारी स्थिति निर्भर करती है । हम है प्रभुके सनातन अंग, हम भी है सच्चिदानन्दस्वरूप ही, पर इस मनके कारण ही इस स्थूल जगत्मे भटक रहे हैं, प्रभुसे अलग होनेका हमे भ्रम हो रहा है । वस, इस मनको जगदाकारसे भगवदाकार बनानेभरकी देर है । फिर तो हम पुकार उठेगे—

स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः
स उत्तरतः स एवेदꣳ सर्वमिति × × × × × अहमेवाधस्तादह-
मुपरिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदꣳ
सर्वमिति × × × × । आत्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा
पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदꣳ सर्वमिति ।

‘वही (प्रभु) नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दायीं ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब है । मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ । आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायीं ओर है और आत्मा ही यह सब है ।’



हमारा जगत्

जगत्को हम जिस रूपमें देखेंगे, जगत् हमारे लिये ठीक वैसा ही बन जायगा । यदि हम इसे सर्वथा प्रभुसे पूर्ण देखें, प्रत्येक रूपको प्रभुका रूप समझें—जो वास्तवमें सत्य तथ्य है—तो हमारे लिये प्रभुसे अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है । पर कहीं यह हमारा शत्रु, यह मित्र, यह अपना, यह पराया, यह दुष्ट, यह साधु, यह ऊँचा, यह नीचा, यह अमीर, यह गरीब, यह सुन्दर, यह कुत्सित—इस प्रकार अगणित विभिन्न भावोंको स्वीकार कर हम जगत्को देखेंगे तो फिर हमारा जैसा भाव होगा, उसीके अनुरूप बनकर वह हमारे सामने आवेगा ।

हम तनिक अन्तर्मुख होकर विचार करें तो दीखेगा कि हम जिन्हें शत्रु-मित्र आदि मानते हैं, उन मन्त्रमें आत्मारूपसे प्रभु तो एक ही हैं । आत्मामें, प्रभुमें कोई दोष नहीं, मलिनता नहीं, विकार नहीं । वहाँ तो सर्वथा विशुद्ध एकरस ज्ञान एव आनन्द भरा है । फिर हम क्यों नहीं अपनी दृष्टि बाहरसे हटाकर आत्मामें, प्रभुमें

केन्द्रित कर दे ? यदि हम ऐसा कर सके तो इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि हमारी वह दृष्टि सबके अन्तरमें विराजित प्रभुको बाहर भी व्यक्त कर देगी । दूसरे शब्दोंमें कहनेपर यह कि फिर हमारे लिये शत्रु-मित्र, ऊँच-नीच आदि विभिन्न भावनाएँ मिटकर सदा सर्वत्र एकमात्र प्रभु एवं प्रभुकी लीला—ब्रह्म, इतना ही बच रहेगा ।

किंतु हमें अवकाश कहाँ जो प्रभुकी ओर हम झँके । हम तो हाथ धोकर पडे हैं भोगोंके पीछे । एक कामना उठती है, उसकी पूर्तिके लिये एडी-चोटीका पसीना एक कर देते हैं । उसकी पूर्ति होते-न-होते दस-वीस नयी-नयी कामनाएँ खड़ी हो जाती हैं और हम उनके पीछे पागल हो उठते हैं । धर्म-अधर्म, न्याय-अन्यायके विचारको ताकपर रखकर उनकी पूर्तिके लिये सब कुछ करते रहते हैं । वे यदि पूर्ण होती हैं तो फिर लोभ बढ़ता है, अधिकाधिक मात्रामें उन्हें पानेके लिये हमारा मन लालायित हो जाता है । और कहीं उनकी पूर्तिमें बाधा आ गयी तो क्रोध उत्पन्न होता है । जिसके निमित्तसे बाधा आती है, उसके प्रति हमारे मनमें द्वेष भर जाता है और हम उसे अपनी राहका काँटा समझकर उखाड़ फेंकनेमें जुट पडते हैं । इन झंझट-झमेलोंमें ही हम रचे-पचे रहते हैं, यही करते-करते जीवनकी सन्ध्या आ जाती है तथा सस्कारोंके ढेरको और भी वोझल बनाकर हम यहाँसे विदा हो जाते हैं । जीवनमें हमें बहुत ही कम समय मिलता है जब हम यह सोच सकें—जगत् क्या है, हम कौन हैं, कहाँसे आये हैं, किस लिये आये हैं, क्या करने आये हैं, हममें करनेकी शक्ति कहाँसे आ रही है, उस शक्तिसे हम कर क्या रहे हैं, प्रभुके प्रति भी हमारा

कर्तव्य है या नहीं, उनसे जुड़नेकी आवश्यकता भी हमें है या नहीं ? इन प्रश्नोकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता । जाता होता तो न्यूनाधिक मात्रामे हमे भी अवश्य दीखता कि यह जगत् प्रभुमय है—प्रभुका रङ्गमञ्च है, उन्हींके अभिनयका पसारा है । हम भी हैं उन चिदानन्दमय प्रभुके एक अंश, उन विश्वसूत्रधारके इस महान् अभिनयके एक पात्र, अनन्त-अपरिसीम आनन्द-सागरमे ही उठी हुई एक तरङ्ग । हम आये हैं प्रभुमे रहकर प्रभुके साथ खेलने, उन्हींके साथ सदा रहकर उनकी सत्ता, शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणासे क्रियाशील होकर खेल-खेलकर उनका ही खेल उनको दिखाने, उनके सौंपे हुए अभिनयको पूर्ण करने । उन्हींकी शक्ति हमारी आँखोंमे सञ्चरित होती है और हमारी आँख इन अगणित रूपोंको ग्रहण करनेमे समर्थ होती है, उनकी शक्ति पानेपर ही कान, त्वक्, रसना, नासा—ये इन्द्रियाँ क्रमशः अपने-अपने विषय शब्द, स्पर्श, रस, गन्धका अनुभव कर पाती हैं । उनकी शक्तिसे ही हमारे हाथ-पैर स्पन्दित होते हैं, क्रियाशील—गतिशील होते हैं । हमारा मन मनन करता है उनकी शक्तिसे । बुद्धि निश्चय करती है उनकी शक्तिसे । उनकी शक्तिसे ही गतिशाली बनकर हम यहाँ निरन्तर खेल रहे हैं । हमारा एकमात्र कर्तव्य ही है कि हम उन विश्वसूत्रधार प्रभुके द्वारा सौंपे हुए अभिनयको उन्हींकी शक्तिके बलपर ठीक-ठीक सुचारुरूपसे पूरा कर दे । साथ ही उनपर, उनके आदेशोंपर दृष्टि रखते हुए ही हम ऐसा करे, अपना एक-एक कर्तव्य पूरा करें । अपने स्वरूपपर तथा प्रभु एव जगत्के स्वरूपपर विचार करनेका यदि हमे समय होता और हम सचपुत्र

विचार करते तो उपर्युक्त अनुभूति हमें होती ही तथा अन्तमें किसी दिन यह अनुभव भी होकर ही रहता कि 'हम' भी कथनमात्रको हैं, वास्तवमें हैं केवल प्रभु और यह है सब कुछ उनकी लीला ।

'जो हो, यदि हम अब भी चेत जायें तो काम बन जाय । प्रातः का भूला सायंकाल भी घर पहुँच जाय तो कोई बात नहीं । जीवनके दिन जो गये सो गये, शेषके एक-एक क्षणका हम सदुपयोग करें । 'गयी सो गयी अब राख रही को' । बड़ी तत्परतासे लगकर जगतके इन अगणित असंख्य विभिन्न बदलते हुए भावोंमें सदा समानरूपसे रहनेवाली सत्ताको, एकरस विराजित सच्चिदानन्दधन प्रभुको हम ढूँढ़ निकालें, उन्हें ढूँढ़कर हम उनमें स्थित हो जायें । फिर जगत् हमारे लिये और ही बन जायगा । जिसे आज हम चोर-डाकू समझते हैं, जिससे सदा शङ्कित रहते हैं कि हमें छूट न ले, वही व्यक्ति फिर हमारे लिये चोर-डाकू नहीं रहेगा, प्रभु बन जायगा । जो आज हमारा विरोधी है, प्रतिद्वन्द्वी है, जिसे हम अपनी मान-मर्यादाका छीननेवाला मानते हैं, वही हमारे लिये अपना-से-अपना बन जायगा । आज जिसे दुष्ट, पतित मानकर हम घृणा करते हैं, फिर उसे देखकर आदर उमड़ आयेगा । आज किमी वनाध्य व्यक्ति-को देखकर या तो हम ललचा उठते हैं, वैसे ही बननेकी वृत्ति हममें उदय हो जाती है अथवा उसके वैभवको देखकर हमारे हृदय-में आग लग जाती है और उसे गरीबोका शत्रु पूँजीवादी कहकर मटियामेट कर देनेकी योजनामें लग जाते हैं । पर फिर ऐसा नहीं होगा । अपितु ऐसा प्रतीत होगा--प्रभु ही तो इस रूपमें है, यह सारा वैभव उन्हींका तो है, हमारा ही है । आज तो यह

बात है कि हम मोटरमें बैठे होते हैं, एक कोठी अपने गले हुए हाथोंको हमारे सामने कर अथवा फटे चियडोसे गरीर ढँके नरककाल बना हुआ एक भिखारी हमें सलाम कर पैसे माँगता है, हम उसे एक-दो बार मना करते हैं फिर भी जब वह नहीं मानता तो हम या तो उबल पडते हैं, और 'अजी ये सब पेशेवाले बदमाश हैं' कहकर धृणा, भर्त्सनासे उसे तर कर देते हैं, या जले-भुने मनसे ही पिण्ड छुड़ानेके लिये एक पैसा फेंक देते हैं। पर फिर ऐसा नहीं कर सकेंगे। वह कोठी, वह भिखारी हमारे लिये वन्दनीय बन जायगा। हम उसे जो कुछ भी दे सकते हैं, देकर यथायोग्य उसकी सेवा कर अपनेको परम कृतार्थ अनुभव करेंगे, आँखें भर आयँगी—'नाथ ! तुम्हारा यह स्वर्ग कितना विचित्र है !' आज तो हमारी यह दशा है कि हम रेलके डिब्बेमें सफर करते होते हैं, किसी स्टेशनपर बेचारा भोलाभाला कोई ग्रामीण कहीं भी स्थान न पाकर गाडी छूटनेकी आशङ्कासे हमारे डिब्बेमें चढ़ना चाहता है, उस समय उसके साथ प्रेमका वर्ताव न कर उसे नीचे धक्का दे देनेमें, डिब्बेके दरवाजेपर पडी हुई उसकी गठरीको नीचे फेंक देनेमें हमें तनिक भी लज्जा नहीं आती, आँखें मटककर, हाथ नचाकर, खरी-खोटी सुनाते हुए उसपर रोव गौंठकर फाटक बंद कर लेनेमें हमें गौरवका अनुभव होता है। पर फिर ऐसा व्यवहार हमसे कदापि सम्भव नहीं होगा। फिर तो हमारे लिये वगलकी सीटपर सूट-बूटसे सज्जित गोरे चिकने चमकते चेहरेवाले हमारे साथी मुसाफिरमें एवं मैले-कुचैले कपडे पहने खुरदरे मुखवाले उस ग्रामीणमें कोई अन्तर न होगा। दोनोंमें एक ही प्रभु समानरूपसे अवस्थित हैं, यह

अनुभूति हमे निरन्तर बनी रहेगी । दोनोंके ही दर्शन हममे समान प्रेम एवं उल्लासका सञ्चार करेंगे, दोनोंके प्रति हमारा विनयपूर्ण आदर्श व्यवहार होगा । आज एक ओर तो यह हाल है कि हम ठूँस-ठूँसकर खाते हैं, अधिक खा-खाकर वीमार पडते हैं, हमारे यहाँ पेटियों कपडे भरे पडे हैं, प्रातःकालके कपडे अलग, आफिसके अलग, क्लब जानेके अलग, सोनेके अलग—घडी-घडी हम पोशाक बदलते रहते हैं । मतलब यह कि विना हिचकके हम अन्न-वस्त्रका अपव्यय करते हैं तथा दूसरी ओर एक परिवार है, जहाँ किसीको भी पेटमे डालनेके लिये एक मुट्ठी दाना नहीं, अङ्गुलिके भी पर्याप्त वस्त्र नहीं—अन्न-वस्त्रके लाले पड रहे हैं तथा यह मग देख-सुनकर भी हम महलमे बैठे मौज उडाते हैं, किंतु फिर हमसे यह हाल देखा नहीं जायगा । अपना सर्वस्व हम दुखी अनाथके रूपमें विराजित प्रभुकी सेवामे अर्पण कर देगे । आज हम जो युवक-युवती हैं, प्रेमी-प्रेमास्पद होनेका डम भरनेवाले हैं, वे सौन्दर्यकी अपनी-अपनी कल्पना कर उसके पीछे पागल हो जाते हैं—युवकके लिये उसकी सौन्दर्यविषयक कल्पनापर खरी उतरनेवाली युवती, युवतीके लिये उसकी कल्पनाका सुन्दर युवक उन्मादकी वस्तु है । पर फिर हमारी यह दशा होगी कि रूप-यौवनसम्पन्न युवक-युवतीमे तथा घूरेपर पडी, खाज खुजलाती हुई, उडे हुए बालो-वाली कुतियामे, कुत्तेमे हमे एक प्रभुकी समान सत्ता व्यक्त दीखेगी, हमारा हृदय सुन्दर और वीभत्स दोनों ही रूपोमे भगवान्को देखकर दोनोंको ही यथायोग्य प्यार देनेके लिये निरन्तर प्रस्तुत रहेगा । सौन्दर्यकी हमारी परिभाषा भी जो अब है, उसमे सर्वथा दूसरी होगी ।

थोडेमें कहनेपर यह कि फिर हमारे लिये सम्पूर्ण जगत् एव जगत्-का व्यवहार ही पलट जायगा । एक ही प्रभु हमें इन अनन्त विभिन्न रूपोंमें और व्यवहारोंमें अनुस्यूत दीखने लेंगे । सर्वत्र हमारे लिये आनन्द, प्रेम एव शान्तिका समुद्र लहराता रहेगा । अवश्य ही ऐसा होगा तब, जब हम एक बार यहाँकी इस असीम विषमतासे दृष्टि हटाकर इसकी ओटमें नित्य समभावसे विराजित प्रभुको ढूँढ लेंगे और उन्हे पाकर उन्हींमें अविचलरूपसे स्थित हो जायेंगे ।

ऐसा हो जाना कोई अद्व्यन्त कठिन हो, सो बात भी नहीं । इसके लिये हमारी सच्ची इच्छा होनी चाहिये । फिर मन धीरे-धीरे बदलने लगेगा । यह सर्वथा सत्य है—

काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कतु-
र्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तमभिसम्पद्यते ।

(बृहदारण्यक० ४।४।५)

‘यह पुरुष काममय है, जैसी कामनावाला होता है, वैसे निश्चयवाला होता है, जैसे निश्चयवाला होता है, वैसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता है, वैसे फलको प्राप्त होता है ।’

अतः सबसे पहले हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि ‘हमें सर्वत्र प्रभुका साक्षात्कार हो’ हमारे चित्तमें यह इच्छा जाग्रत हो । भौतिक इच्छा तो बहुतोंमें देखी जाती है, पर उससे काम नहीं होता । यह इच्छा ऐसी हो कि इसमें अन्य समस्त इच्छाएँ विलीन हो जायँ । असलमें इच्छा उत्पन्न होनेमें तथा बढ़नेमें वातावरण ही प्रधान है । जिस वातावरणमें मनुष्य रहेगा, उससे प्रभावित होगा ही । इसलिये हम जिस क्षेत्रमें हों—बकील हो, डाक्टर हों,

व्यवसायी हों, दलाल हों, एजेंट हों, क्लर्क हों, चपरासी हों, किसान हों, मजदूर हों—कुछ भी हों उसी क्षेत्रमें प्रतिदिन कुछ नमय (भले ही आव वंटके लिये ही क्यों न हो) हम ऐसे वातावरणमें अपनेको अवश्य ले जायँ जहाँ प्रभु-सम्बन्धी भाव हममें प्रवेश पा सके । यह जगन्नियन्ताका अटल नियम है कि जो इम दिशामें बढ़ना चाहता है, उसे पथ दिखाने, आगे बढ़ानेकी व्यवस्था पहले-से-पहले वे कर रखते हैं । हम यदि किसी ऐसे व्यक्तिकी, जो हमें प्रभुके मार्गमें यत्किञ्चित् प्रकाश दे सके, खोजमें लगे तो अपने ही क्षेत्रमें कोई-न-कोई व्यक्ति हमें अपने-आप ही अवश्य मिल जायगा । तथा फिर हम उसका प्रतिदिन आदरपूर्वक सत्कार करें । उसके महत्त्वमें दो लक्ष्य होंगे । एक तो हमारी प्रभुविषयक श्रीगच्छ पुष्ट होने लगेगी तथा दूसरा यह कि प्रभुकी सर्वत्र सर्वकालीन मत्ताके प्रति हमारी बुद्धिमें निश्चय होने लगेगा । यह दृढ निश्चय होने-भरकी देर है, फिर तो अपने अंदर ही नित्य विराजित प्रभुकी ओर हम ब्रह्मसंविद्ध जायँगे । इसके बाद हमारी क्रियात्मक साधना आरम्भ होगी—हमारी चेष्टाओंका नियन्त्रण हम आरम्भ करेंगे । आज हमारी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कर्मका उद्देश्य भिन्न-भिन्न होता है । फिर सारी चेष्टा, समस्त कर्म एक उद्देश्यमें विलीन होने लगेगे, हमारे द्वारा सब कुछ प्रभुके उद्देश्यमें होने लगेगा । प्रभुको यथावत् जाननेकी, उनसे व्यवधानरहित होकर मिल जानेकी लालसा हमारे अंदर उत्तरोत्तर बलवती होती जायगी । फिर हमारे और प्रभुके बीच जो 'अहम्' का आवरण है, वह फटने लगेगा । जैसे मेव नूर्यमें ही उत्पन्न होता है, नूर्यमें ही प्रकाशित होता है पर सूर्यके

ही अशभूत हमारे नेत्रोंके लिये आवरण बन जाता है, उसके (मेघके) बीचमे आ जानेपर हमारे नेत्र अपने अशी सूर्यको देख नहीं पाते, वैसे ही यह 'अहम्' सचमुच है तो प्रभुका ही एक गुणमात्र—परिणाममात्र । उनकी सत्तासे ही यह प्रकाशित भी है । फिर भी प्रभुके ही अशभूत आत्माके लिये—हमारे लिये यह बन्धन बन गया है, आवरण बन गया है । 'अहम्' बीचमे आ जानेके कारण ही हम प्रभुको देख नहीं पा रहे हैं, उनसे हमारा अबाध मिलन नहीं हो पा रहा है । उनसे नित्य मिले रहनेपर भी हम अलग-से हो रहे हैं, किंतु जैसे सूर्यसे उत्पन्न बादलके फट जानेपर नेत्रोंको अपने ही स्वरूपभूत सूर्यके दर्शन होने लगते हैं, वैसे ही जहाँ प्रभुको जाननेकी, उनसे मिलनेकी उत्कट लालसा हुई कि आत्माका—हमारा यह उपाधिभूत अहङ्कार नष्ट होने लगेगा । इसके नष्ट होते ही हमें प्रभुका साक्षात्कार हो जायगा, हम कृतार्थ हो जायगे—

यथा घनोऽर्कप्रभवोऽर्कदर्शितो
 ह्यर्काशभूतस्य च चक्षुषस्तमः ।
 एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो
 ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः ॥
 घनो यदार्कप्रभवो विदीर्यते
 चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा ।
 यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो
 जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत् ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ४ । ३२-३३)

जीवनका टिमटिमाता दीप बुझने लगे, उससे पूर्व ही इस दिशामे हमारा पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये । अन्यथा हमारे जीवनमें

अर्जित संस्कार यहाँ समाप्त हो जायँ यह बात तो है नहीं । ये तो आगे भी साथ चलेंगे । हमारा जो निश्चय यहाँ है, हम जगत्को अभी जिस रूपमें देख रहे हैं, उसीके अनुरूप मृत्युके बाद भी देखेंगे । अनेको अशुभ कल्पनाओसे जैसे हम यहाँ जलते रहते हैं, वैसे ही आगे भी जलते रहेंगे । अतः बुद्धिमानी इसीमें है कि अभीसे हम जगत्सम्बन्धी अपने निश्चयको बदल ले, विषमताको हटाकर परम शुभ निश्चयको ही अपने अदर स्थान दे, इस अमर वैदिक सन्देशका हम आदर करें—

यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो भवति तथेत. प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वति ।

(छान्दोग्य० ३ । १४ । १)

‘इस लोकमें पुरुष जैसा निश्चयवाला होता है, वैसा ही यहाँसे मरकर होता है, इसलिये वह क्रतु यानी पक्का निश्चय करे ।’

परम शुभ निश्चय क्या है, कैसे करे, इस सम्बन्धमें भी हमें वहीं* यह संकेत मिल जाता है—

सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।

‘यह सब पसारा निस्सन्देह प्रभु ही है । प्रभुसे ही जगत् उत्पन्न होता है, उन्हींमें विलीन होता है, उन्हींमें चेश्ठा करता है । इस प्रकार निश्चय करके मनुष्य शान्तभावमें उपासना करे ।’



श्रद्धाका बीज बोयें

यदि हम मटरका एक बीज धरतीमें बो देते हैं तो उस एक बीजसे ही मटरका पौधा उत्पन्न हो जाता है, उस पौधेमें सैकड़ों फलियाँ लगती हैं, फिर उन फलियोसे हजारों मटरके बीज बन जाते हैं। इसी प्रकार हमारी एक छोटी-सी शुभ या अशुभ क्रिया, शुभ या अशुभ सस्कार हजारों शुभ या अशुभके बीज तैयार कर देते हैं। इसके साथ ही जैसे उस मटरके एक बीजको यदि हम काममें न ले, यो ही पड़ा रहने दे, बहुत दिनोतक जलसे उसका सयोग न होने दे तो धीरे-धीरे उसके अङ्कुरित होनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही हमारे शुभ या अशुभ सस्कारोंको यदि हम क्रियात्मक रूप नहीं दे तो वे भी शनै-शनै क्षीण-क्षीणतर होते हुए विनष्ट होने लगते हैं। यह नियम है। इस नियमको ध्यानमें रखकर ही हम अपनी दिनचर्या बनावे, जीवनकी गति-विधिका निर्णय करे।

हम चाहते क्या हैं ? अपन लिये सदा शुभ चाहते हैं। कोई भी मनुष्य अपना तनिक-सा भी अशुभ नहीं चाहता। इस परिस्थितिमें हमें करना यह होगा कि हम सदा शुभके ही बीज डालें। हमारे मनमें, क्रियामें सदा शुभ ही भरा रहे, भूलकर भी एक भी अशुभ भावना या क्रियाको हमारे जीवनमें स्थान न मिले। साथ ही हमारा

यह प्रयत्न भी हो कि हमारे जितने शुभ सस्कार हों, वे यथासम्भव अधिकाधिक क्रियामे परिणत होते रहें तथा इससे विपरीत एक भी अशुभ सस्कारको कभी व्यक्त होनेका अवसर न दिया जाय । तब काम होगा ।

आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम आस्तिक बने, प्रभुकी सत्तामे हमारा विश्वास हो और यह विश्वास निरन्तर बढ़ता ही रहे, क्योंकि इसी विश्वासकी भित्तिपर ही समस्त शुभकी अट्टालिका खड़ी रहती है । कहनेको तो हममेसे बहुत लोग अपनेको आस्तिक मानते हैं । पर वह आस्तिकता अपनेको ही धोखा देनेकी-सी वस्तु है । जबतक हमारा मन अत्यन्त मलिन वासनाओंसे भरा है, भौंति-भौतिकी कामनाओसे व्याकुल रहता है, क्षुद्र-से-क्षुद्र घटना हमारे अदर क्रोधका सञ्चार कर देती है, कितना भी क्यों न मिले, कभी संतोष होता ही नहीं, और भी पानेका लोभ बना ही रहता है; वात-व्रातमे हम ऐंठते रहते हैं, अकडके मारे अपने समान दूसरेको गिनते ही नहीं, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, धन, जन, बल, प्रभुत्वके मदमे चूर रहते हैं, मोहके अँघेरेमे ही भटकते रहते हैं, क्या है, क्या नहीं, किसे ग्रहण करना है, किसे ग्रहण नहीं करना है—यह कुछ भी नहीं सूझता, किसीकी थोड़ी भी उन्नति देखनी दूर, सुनकर भी हम जल उठते हैं, परोत्कर्ष तनिक भी सहन नहीं होता, दूसरा कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी आलोचना किये बिना मन नहीं मानता, उसमे कोई-न-कोई दोष हमे दीख ही जाता है । जबतक हमारी यह दशा है, तबतक हम आस्तिक केवल कहनेभरको ही हैं । ऐसी आस्तिकता हमारी ओर आते हुए अशुभके प्रवाहको कदापि नहीं

रोक सकती । हमे तो सच्चा आस्तिक बनना पड़ेगा, सच्ची आस्तिकता-का बीज बोना पड़ेगा । यह बीज ही फूलेगा-फलेगा, फल-फूलकर हमारे लिये सर्वत्र सब ओर शुभके ढेर एकत्र कर देगा । तभी हम अशुभसे सदाके लिये त्राण पा सकेंगे ।

आस्तिकताके बीज बोनेका अर्थ यह है कि हममे जो भी असली-नकली, थोडा बहुत प्रभुका विश्वास है, उसका हम क्रियात्मक प्रयोग करें । यदि हम किसी भी अंशमे आस्तिक हैं तो कम-से-कम चार बातोंपर तो हमे यत्किञ्चित् सैद्धान्तिक विश्वास होना ही चाहिये—

१—प्रभु सर्वत्र हैं । ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे न हो । महान्-से-महान् एव क्षुद्र-से-क्षुद्रमे वे नित्य स्थित है । आकाशमें, वायुमें, अग्निमें, जलमें, पृथ्वीमें, पृथ्वीसे बने पहाड़-पत्थर-ईटमे, वृक्ष-लता-पौधोंमे, मनुष्य-पशु-पक्षी-कीट-पतङ्ग-भृङ्गमे, जड-सी दीखनेवाली कुर्सी-में, टेबिल-पलंग-किराड़-खूँटी-कल-पुर्जा-धोती-कुर्ते-कमीज-कोट-पतलून-कालर-घडी-कलम-दावात-कागजमे—इन समस्त भौतिक विकारोंमें—हमारे सम्पर्कमें आनेवाली इन समस्त वस्तुओके अणु-अणुमे वे पूर्ण हो रहे हैं । सूक्ष्मभूतमें वे समाये हुए हैं, महत्त्वमें, सत्त्व-रज-तम तीनों गुणोंमें और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृतिमें वे परिपूर्ण हो रहे हैं—

परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु ।
 भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥
 गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा ।
 एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥

जो कुछ भी जगत् है, उसके अणु-अणुमे वे व्याप्त है—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

(ईश०)

दूरकी वस्तु छोड़ें, विशाल जगत्, जगत्के तत्वोको भी जानें दें, हम सदा जिससे जुड़े रहते हैं, क्षणभरके लिये भी जिसे नहीं भूल पाते, भूलना नहीं चाहते, जो हमारे लिये अतिशय प्यारकी वस्तु बना हुआ है, उस हमारे शरीरमे भी 'स एष इह प्रविष्ट. ।' 'आनखाग्रेभ्यः'* नखसे शिखपर्यन्त वे पूर्ण हो रहे हैं ।

२—वे सर्वसमर्थ है । जगत्मे जो बात सर्वथा सबके लिये असम्भव मानी जाती है, उसे वे एक क्षणके लाख-करोड़वें हिस्से-जितने समयमें सम्पादित कर सकते है । उनकी शक्तिकी कोई सीमा ही नहीं है । 'नात्येति कश्चन'† उनके शासनका कोई भी उल्लङ्घन नहीं कर सकता । 'तमीश्वराणा परम महेश्वरं तं देवताना परमं च दैवतम्'‡ वे ईश्वरोंके भी परम महान् ईश्वर हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म जगत्के जितने शासक हैं, उन सबके शासक वे हैं । उनकी शक्ति-सामर्थ्य विचित्र है । सर्वथा विरोधी गुण उनमें एक साथ एक समय वर्तमान रहते है । 'तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके'§ एक साथ एक समयमे वे चलते भी हैं और नहीं भी चलते, वे दूर भी हैं और समीपमे भी हैं ।

* बृहदारण्यक० १ । ४ । ७ ।

† कठ० २ । १ । ९ ।

‡ श्वेताश्वतर० ६ । ७ ।

§ ईश० ५ ।

‘आसीनो दूर व्रजति शयानो याति सर्वतः’* वे बैठे हुए ही दूर चले जाते हैं, सोते हुए ही सर्वत्र पहुँच जाते हैं । ‘अनेजदेकं मनसो जवीयः’† वे चलनरहित हैं, फिर भी मनसे अधिक वेगवाले हैं । ‘तद्भावतो-ऽन्यानत्येति तिष्ठत्’‡ वे बैठे रहकर ही दूसरे दौडनेवालोंसे आगे निकल जाते हैं । ऐसे वे असंख्य विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न हैं ।

३—वे सर्वज्ञ हैं । ‘य. सर्वज्ञ. सर्ववित्’§ विश्वके गुप्त-से-गुप्त, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म कोनेतकमे अनादिकालसे अबतक क्या-क्या हो चुका है, अब क्या हो रहा है, एवं अनन्तकालतक क्या होगा—यह सब कुछ वे निरन्तर जानते रहते हैं । ‘अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू’×वे प्रभु सबका अनुभव करनेवाले हैं ।

४—ऐसे महामहिम होते हुए भी वे हमारे सुहृद् हैं । केवल हमारे ही नहीं, ‘सुहृदं सर्वभूतानाम्’+समस्त भूतप्राणियोंके सुहृद् हैं ।

उपर्युक्त चार बातोंपर हमारा जितना, जैसा विश्वास हो, उसका हम अपने जीवनकी दैनिक क्रियाओंमें समावेश करना आरम्भ करे । प्रभुकी सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता एव सौहार्दपर हमारा जो भी टूटा-फूटा विश्वास हो, उसे हम अपनी क्रियाओंके साथ इस रूपमें जोड़ने लग जायँ—

* कठ० १ । २ । २१ ।

† ईश० ४ ।

‡ ईश० ४ ।

§ मुण्डक० १ । १ । ९ ।

× बृहदारण्यक० २ । ५ । १९ ।

+ गीता ५ । २९ ।

यह नियम कर लें कि चौबीस घंटेमें दस-बीस-पचास-सौ बार, जितनी बार एव जितनी देरके लिये विल्कुल आसानीसे करना सम्भव हो, उतनी बार, उतनी देरके लिये ही हम दृढतासे यह भावना करे कि 'प्रभु सर्वत्र है' और इस भावनाके समय हम जिस किसी भी व्यक्तिसे जो भी यथायोग्य व्यवहार करें, उसमें ठीक-ठीक उतना ही सम्मान, प्रेम, अपनत्व, त्याग आदिका सच्चा भाव भरा हो, जितना स्वयं प्रभुके समक्ष होनेपर होता। इस भावनाके समय हम जिस किसी वस्तुको देखे, सुने, चम्के, स्पर्श करे, उसकी गन्ध ले, वहाँ उस वस्तुमें प्रभुकी सत्ताकी इतनी जीवन्त धारणा हो कि उस वस्तुका यथायोग्य उपयोग करते समय हमें उतने ही आनन्दकी अनुभूति होने लगे, जितना साक्षात् प्रभुके सम्पर्कमें आनेपर होनी सम्भव है। एक उदाहरणके द्वारा इसे इस प्रकार समझें। मान लें, हमने यह नियम ले लिया कि प्रतिदिन कम-से-कम बीस बार तीस-तीस सेकंडके लिये यह भावना करेंगे कि 'प्रभु सर्वत्र हैं,' हम ऐसी भावना करने लगे। एक बार भावना करते समय ही हमारा एक नौकर या आफिसका चपरासी गिलासमें जल लेकर हमें जल पिलाने आ गया। अब उस समय हमें ठीक-ठीक यह अनुभव करनेका प्रयास करना चाहिये कि प्रभु जब सर्वत्र है, तब इस नौकरमें भी अवश्य-अवश्य है ही, अतः नौकर या चपरासीके वेपमें वे ही पधारे हैं। उसके प्रति हमारे मनमें ठीक वैसे ही सम्मान, प्रेम, अपनत्व आदि जाग उठे जैसे प्रभुको देखकर होते। वे हमारी अपेक्षा किञ्चित् छोटे पदका खँग लेकर आये हैं, इसलिये हम अपने आसनसे उठें तो नहीं, पर हमारा अन्तस्तल तो उनके चरणोंमें लुट जाना चाहिये। हाथमें गिलास लेते समय हमारा रोम-रोम आनन्दमें नाच उठे। इतना ही नहीं,

उस गिलासके अणु-अणुमें भी हमें प्रभुकी सत्ताका मान होना चाहिये, गिलासके जलमें भी प्रभुकी ही सत्ता हमें व्यक्त दीखे तथा यह दर्शन हमारे रोम-रोमको आनन्दित कर दे । यदि ऐसी जीवन्त धारणा दिन-रातमें हमने एक बार ही, तीस सेकंडके लिये ही कर ली तो समझ लें, हमने श्रद्धाका एक बीज तो बो दिया । यह एक बीज ही, अल्पकालके लिये की हुई श्रद्धाकी यह भावना ही, इसमें जितनी जीवनीशक्ति है—इस श्रद्धामें जितनी प्रगाढ़ता है—उसीके अनुपातसे हमारे लिये कई बीज प्रस्तुत कर देगी, अन्य कई स्थलोंमें ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कर देनेमें हेतु बन जायगी । ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना उत्पन्न कर देगी । जितनी बार हम यह बीज बोते जायेंगे, उतनी बार उससे कई गुने अधिक बीज हमें प्राप्त होते जायेंगे. हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी ।

इसी प्रकार प्रभुके सर्वसमर्थतासम्बन्धी विश्वासको भी हम क्रियामें उतारें । यह इस रूपमें कि प्रत्येक कार्य करनेसे पूर्व हम—मले ही क्षणभरके लिये ही क्यों न हो,—प्रभुसे प्रार्थना कर लें, प्रभुसे शक्तिकी याचना कर लें । यह ध्रुव सत्य है कि शक्तिके केन्द्र तो प्रभु ही हैं । आज भी हमारे द्वारा जो काम होता है, वह होता है प्रभुकी शक्ति-सामर्थ्यसे ही । पर हमारा अभिमान इस सत्यको हमारे सामने व्यक्त नहीं होने देता, साथ ही अभिमानके कारण ही प्रभुकी शक्तिको पूर्णरूपसे सञ्चारित होनेका मार्ग भी नहीं मिलता । अतः यदि हम प्रत्येक कार्यके आरम्भमें प्रभुकी प्रार्थना कर लें, उनकी शक्ति-सामर्थ्यका आवाहन कर लें तो फिर जो कार्य वृत्तोंके अधिक परिश्रमसे

न हुआ हो, होता न दीखता हो, वही देखते-देखते पूर्ण हो जायगा । यदि हम इस अभ्यासको अपना ले तो पद-पदपर प्रभुकी सर्वसमर्थताका परिचय हमे मिलने लगेगा । यह नितान्त सत्य है कि कोई भी किसी कार्यमे यदि प्रभुकी प्रार्थना करके लगता है—अवश्य ही वह कार्य शुभमूलक हो, जगतके किसी भी प्राणीके अहितकी भावनासे प्रेरित न हो—तो उममें उसकी आश्चर्यजनक प्रगति होगी । अस्तु, हम भी इस पद्धतिको स्वीकार करे । जितनी बार प्रार्थना करेगे, उतनी बार प्रभुकी अमित शक्तिका कुछ-न-कुछ परिचय हमे मिलेगा ही, हमारी श्रद्धा पुष्ट होगी ही, इसके बीज बढेगे ही । हाँ, इस सम्बन्धमे इतनी-सी बात और भी ध्यानमे रखनेकी अवश्य है कि जहाँ अश्रद्धाके बडे-बडे पुष्ट पेड लगे होते हैं, वहाँ क्षणभरकी की हुई प्रार्थनासे उत्पन्न हुई श्रद्धाकी लता, उसके फल एव फलोंमे समाये हुए श्रद्धाके अनेकों बीज एक बार सरसरी दृष्टिसे देखनेपर कभी-कभी नहीं भी दीखते । अतः वैर्यपूर्वक उन्हें ढूँढना चाहिये । ढूँढनेपर वे अवश्य मिलेगे, क्योंकि प्रत्येक प्रार्थनारूपी जलसे सिञ्चित होकर वे निश्चितरूपसे बढते एव फलते-फलते हैं ही । ये बीज जहाँ प्रचुर मात्रामें एकत्र हुए कि फिर तो हमारे जीवनका स्वभाव हो जायगा — प्रत्येक कार्यके लिये प्रभुकी शक्ति-सामर्थ्यपर निर्भर करना, उनकी शक्तिसे शक्तिमान् होकर ही प्रत्येक कार्यमे प्रवृत्त होना । यह कार्य हमारे द्वारा नहीं हो सकता, हमारा यह कार्य कैसे होगा, ये वृत्तियाँ फिर कदापि नहीं उठेगी । अपितु, प्रभुके बलपर क्या नहीं हो सकता, असम्भव सम्भव हो सकता है, यही श्रद्धा सतत जागरूक रहने लगेगी ।

प्रभुकी सर्वज्ञताके विश्वासको क्रियात्मक रूप देनेकी आवश्यकता विशेषरूपसे वहाँ उन स्थलोंमें है, जहाँ हम अशुभ प्रवृत्तियोंमें जा गिरते हैं। हमारा अनुभव है कि अत्यधिक अशुभके आचरणसे जब मनपर बहुत अधिक मल एकत्र हो जाता है, तब हम निर्लज्ज हो जाते हैं, हमे खुलकर पाप करनेमें लज्जाकी अनुभूति नहीं होती। किंतु इससे पूर्व जबतक अन्तरात्माकी ओरका एक भी छिद्र खुला होता है, प्रभुकी प्यारभरी वाणी तनिक भी सुनायी पड़ती रहती है, अशुभमें अशुभ बुद्धि बनी रहती है, तबतक अशुभ आचरणमें लज्जाका अनुभव होता है और हम यथासम्भव छिपकर ही—लोगोंसे छिपाकर ही पापमें प्रवृत्त होते हैं। कोई देख रहा है, जान गया है, यह ज्ञात होनेपर कई बार हमारा बचाव हो जाता है। अतः यदि प्रभुकी सर्वज्ञतापर श्रद्धा करके, यह बीज बोना आरम्भ करके, हम अशुभ प्रवृत्तियोंका धीरे-धीरे संकोच करने लगे तो दो लाभ हों—श्रद्धा तो बढे ही, क्रमशः अशुभ भी छूट जायँ। इस श्रद्धाको क्रियात्मक रूप देनेका प्रकार यह है कि हम अपनी अशुभ प्रवृत्तियोंकी एक सूची मन-ही-मन तैयार करें। इनमें जिनके प्रति कम-से-कम आकर्षण हो, उन कुछको चुन ले तथा जब जिस समय वे उदय हों, उसी समय दृढतासे यह स्मरण करें कि प्रभु इसे जान रहे हैं, वे देख रहे हैं, भले ही जगत्का कोई भी न जाने, कोई भी न देखे, और सबकी दृष्टिमें हम भले सत्पुरुष सज्जन बने रहे, किंतु प्रभुसे हमारा रूप छिपा नहीं है। इसकी स्मृति आते ही हमे उतनी ही लज्जा होनी चाहिये, जितनी हमारे पाप किसी अन्य व्यक्तिके द्वारा देख लिये जानेपर हमें होती है। साथ ही, हठपूर्वक

ही सही, एक-दो-चार-दस-तीस बार उन अशुभ प्रवृत्तियोंको हम मूर्त न होने दें, मनतक ही वे सीमित रह जायँ, यह प्रयास करे। इतनेमे तो इस श्रद्धाकी बेल पनप जायगी। फिर तो इनके बड़े हुए बीज अपेक्षाकृत बहुत बड़े पापोंके समय भी 'अरे! प्रभु देख रहे हैं, जान रहे हैं' इस स्मृतिको जाग्रत करने लगेंगे। और इस प्रकार एक-दो बार भी जहाँ वे बड़े पाप रुके कि यह श्रद्धा बद्धमूल हो जायगी, और क्रमशः शाखा-प्रशाखा निकलकर मनरूपी खेतको छू लेगी

अन्तमें है प्रभुके सौहार्द-श्रद्धा बढ़नेकी बात, इसे जीवनस जोड़ देनेकी बात। तो इसके लिये हम यह करे कि कुतर्क छोड़कर प्रभुके स्नेहमय दानको, प्रतिक्षण पद-पदपर आगे-से-आगे हमारी सुख-सुविधाके लिये उनके द्वारा की हुई व्यवस्थाको गिनने लग जायँ। यदि हमारी आँख फूटी न होगी, 'अजो, ये सब तो सयोगसे यो ही हो जाते हैं, होते रहते हैं, ईश्वर तो ब्रह्म है' इस विषके विस्फोटसे नेत्रोंकी ज्योति मारी नहीं गयी होगी तो हमें प्रत्यक्ष दीखेगा कि ओह! प्रभुके अनन्त असीम उपकारोंकी गणना नहीं हो सकती। ऐसा अहैतुक प्रेमी जगत्में और कोई है ही नहीं। फिर तो हमारी आँखें भर आयेगी। अपनी नीचता और प्रभुके सौहार्दकी ओर देखते हुए, आँसू ढारते हुए हम भी सतगिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास-जीकी भोति पुकार उठेंगे—'हे नाथ! मेरे-जैसे नीचको नरककी आगमें ढकेल दो, भस्म हो जाने दो। तुम्हारे-जैसे परम पवित्र, सुहृद् स्वामीसे, अकारण हितमें हठपूर्वक विमुख रहनेवालेके लिये यही उचित है। दस मासतक गर्भमें रखकर पालन-पोषण किया। मेरा कितना हित तुमने किया है स्वामिन्! मुझ-जैसे मतिमन्दको

भी तुमने विवेक दिया, दुष्टको भी सुन्दर शीलका दानकर भूषित किया । अगणित अपराध करनेपर भी, उस ओर न देखकर समाजमें मुझे आदरका पात्र बनाया । फिर भी मैं तो उलटा ही चलता रहा । मेरी मूर्खता तो देखो ! प्रभो ! अन्तर्यामीके प्रति भी कपट है, सर्वव्यापकसे भी पाप छिपानेका प्रयास है, किंतु धन्य हो तुम नाथ ! इतनेपर भी तुम मुझसे कभी नाराज नहीं हुए । 'ये बड़े भक्त हैं', इसकी आडमें मेरी उदरपूर्ति हो रही है, पर सचमुच हृदयमें तो भक्तिका लेश भी नहीं है स्वामिन् ! हृदय तो विषयोंके हाथ विक चुका है । फिर भी कृपालो ! ओह ! ऐसे वञ्चकके प्रति तुम्हारी कृपा तनिक भी कम नहीं हुई, ऐसेके लिये भी तुम्हारे प्रेमका द्वार बंद नहीं हुआ । सदा मुझपर निष्कपट भावसे स्नेहकी ही वर्षा करते रहे हो । हाय रे ! यह मेरा वज्रसे भी अधिक कठोर हृदय, यह तुम्हारे पल-पलमें किये उपकारोंको भलीभाँति जान-बूझकर, सुन-समझकर भी द्रवित नहीं हुआ । तुम्हारे प्रेमसे सिक्त होकर, फटकर विगलित होकर वह नहीं चला । मेरे मालिक ! सुनो, अपनी बुद्धिरूपी तराजूके एक पलडेपर मैंने तुम्हारी मृत्यवत्सलताकी राशि रख दी और दूसरे पलडेपर अपने स्वामिद्रोहका किञ्चित् अंश रख दिया, तौलकर देखने लगा । दीखा—स्वामिद्रोहका ही पलडा भारी है । इतनेपर भी तुमने सदा मेरा हित ही किया है, कर रहे हो और आगे भी करोगे । मुझे पता है नाथ ! तुम्हारा स्वभाव है—अपनी ओर देखना, दूसरेकी ओर नहीं । अनन्त उपकारसे हम सबको ढक देनेपर भी तुम देते ही जाते हो, तुम्हारे स्नेहमय दानका कभी विराम होता ही नहीं—

कीजै मोकों जमजातनामई ।

राम ! तुम-से सुचि सुहृद साहिबहिं, मैं सठ पीठि दर्ई ॥
 गरभबास दस मास पालि पितु-मातुरूप हित कीन्हों ।
 जड़हिं बिबेक, सुसील खलहिं, अपराधिहिं आदर दीन्हों ॥
 कपट करौं अंतरजामिहुँ सो, अघ व्यापकहिं दुरावों ।
 ऐसेहु कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन बावों ॥
 उदर भरौं किंकर कहाइ बेंच्यौ बिषयनि हाथ हियो है ।
 मोमे बंचकको कृपालु छल छॉडि कै छोह कियो है ॥
 पल-पलके उपकार रावरे जानि वृद्धि सुनि नीके ।
 भिदयो न कुलिसहुँ ते कठोर चित कबहुँ प्रेम सिय-पीके ॥
 स्वामीकी सेवक-हितता सब, कछु निज साइँ-द्रुहाई ।
 मैं मति-तुला तौलि देखी भइ मेरेहि द्विसि गरुआई ॥
 एतेहु पर हित करत नाथ मेरो, करि आये, अरु करिहैं ।
 तुलसी अपनी ओर जानियत, प्रभुहि कनौड़ो भरिहैं ॥

इस प्रकार हम उपर्युक्त चारों विश्वासको केवल सिद्धान्तके रूपमें ही सीमित न रखकर उन्हें क्रियात्मक जीवनका अंग बना लें । प्रभुकी सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता एव असीम सौहार्दकी ओर सक्रिय दृष्टि डालते ही श्रद्धाकी खेती धीरे-धीरे लहलहा उठेगी । उसमें इतने फल लगेगे, इतने असंख्य वीज एकत्र होंगे कि फिर हम खुले हाथों अपने सम्पर्कमें आनेवाले सबको भगवद्विश्वासके वीजका दान कर सकेंगे । फिर हमारे अंदर कोई कामना नहीं रहेगी । प्रभुके श्रद्धारूपी खेतसे हमारी समस्त कामनाएँ सदाके लिये पूर्ण हो जायँगी । फिर हमारे लिये क्रोधका अत्यन्ताभाव हो जायगा; क्योंकि जब काम नहीं तो क्रोध कैसे रहे ? लोभ भी निवृत्त हो जायगा । पूर्ण संतोषके

अनन्तर लोभके लिये स्थान कहाँ? फिर हमारे अंदर मद नहीं, मोह नहीं, ईर्ष्या नहीं, भय नहीं, चिन्ता नहीं, शोक नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं—कोई भी विकार नहीं रहेगा। ये विकार तो अहङ्कारके आश्रित हैं—

शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः ।

अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२८।१५)

—जब श्रद्धाकी खेती लहलहा उठी, तब खेतके स्वामी प्रभु भी उस शोभाका आनन्द लेने आ विराजे, उस खेतमें वहीं प्रकट हो गये। उनके आनेपर अहङ्कार रहता नहीं—

‘जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मैं नाहि।’

अहङ्कार गया कि सारे विकार विलीन हो गये। समस्त अशुभ प्रशान्त हो गये। अवशिष्ट रहे एकमात्र प्रभु। न रहे हम, न रहा हमारे लिये जगत्। इसके पश्चात् जगत्की दृष्टिमें हमारे मन-बुद्धि-शरीरका अस्तित्व भले ही कुछ कालतक रह सकता है। पर उससे भी, वह जितने समयतक रहेगा, निरन्तर भगवद्भावोका विस्तार होता रहेगा। परम शुभका, प्रभुमें श्रद्धा करनेका, प्रभुसम्बन्धी श्रद्धाके बीजको बोते रहनेका यही परिणाम होता है। इसीलिये हमें श्रद्धाका बीज बोना चाहिये, खल्प श्रद्धाको क्रियामें उतारकर उसे सदा बढ़ाते रहना चाहिये।

समयका सदुपयोग

जो सुख-दुःखके स्तरसे ऊपर उठ गये हैं, उनकी बात अलग है। अन्यथा हममेसे ऐसा कोई नहीं जो दुःख चाहता हो। किंतु हमारे न चाहनेपर भी दुःख तो पिण्ड नहीं छोड़ता। दुःखके लिये हम कोई प्रयत्न नहीं करते, फिर भी दुःखके निमित्त उपस्थित होते ही हैं और अज्ञानवश अपने आपको उनसे जोड़कर हम दुखी भी होते ही हैं। ठीक इसी प्रकार यह सनातन नियम है कि इन्द्रियोंसे भोगे जानेवाले विषयसम्बन्धी सुखके निमित्त भी हमारे बिना प्रयत्न किये, हम जहाँ कहीं भी रहे, हमारे सामने आ जायँगे। कर्मजगत्के नियमोंसे नियन्त्रित होकर ये भी बिना प्रयास हमें प्राप्त हो जायँगे—

सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम् ।

सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखमयत्नतः ॥

(श्रीमद्भा० ७।६।३)

इनके लिये चेष्टा करनेकी आवश्यकता नहीं है। भले ही इस सनातन नियमके प्रति हमारी श्रद्धा न हो, हम इसे न मानें, पर मानने न माननेसे सत्यमे हेर-फेर नहीं होता। यह ठीक है कि दृढ सकल्पशक्तसे अनुप्राणित हुए अपने किसी नवीन प्रबल कर्मके

द्वारा वैषयिक सुखोंके लिये निमित्तोंकी रचना भी हम कर सकते हैं, यह स्वतन्त्रता हमें प्राप्त है तथा यह स्वतन्त्रता भी कर्मजगत्के उस सनातन नियमके अन्तर्गत ही है, हमारा नवीन कर्म तुरत नवीन प्रारब्धके रूपमें परिणत होकर निर्दिष्ट प्रारब्धके बीचमें ही अपना फल दान कर सकता है, किंतु जो फल मिलेगा, वह होगा आखिर नश्वर ही—जीवनके साथ ही समाप्त हो जानेवाला । दूसरे शब्दोंमें इस बातको कहें तो ऐसे कहना चाहिये कि जो वस्तु अपने-आप मिलनेवाली (निर्दिष्ट प्रारब्धसे प्राप्त होनेवाले विषय-सुख) है, उसके लिये तथा जो नवीन चेष्टासे प्राप्त होनेवाली नाशवान् वस्तु (प्रबल क्रियमाणसे सृष्ट हुए तत्काल फलोन्मुख प्रारब्धके सुख) है, उसके लिये—दोनोंके लिये ही चेष्टा करना मानव-जीवनके अमून्य समयका दुरुपयोग ही है, इन अनमोल क्षणोंको व्यर्थ खो देना है, या कौडीके मोल बेच देना है । चेष्टा तो हमें उस वस्तुके लिये करनी चाहिये जो बिना हमारी चेष्टाके अपने-आप हमें मिलनेकी है ही नहीं तथा जो एक बार प्राप्त हो जानेके अनन्तर हमसे कभी पृथक् नहीं होती, मिलते ही हमें सदाके लिये परमानन्दमें निमग्न कर देती है, जिसे प्राप्तकर हम उस सुखका अनुभव करते हैं, जो नित्य एकरस रहता है, जिसमें दुःखका मिश्रण सर्वथा नहीं है । ऐसी वस्तु एकमात्र प्रभुके अतिरिक्त दूसरी है ही नहीं । एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं जो कर्मोंके फलकी भौति हमें इस जीवनमें अपने-आप प्राप्त नहीं होंगे । उनके लिये तो हमें विशेष पद्धतिमें कुछ यत्न करना होगा । तभी वे मिलेंगे । और एक बार मिलनेके अनन्तर फिर अलग नहीं होंगे । मिलते ही उनका समग्र आनन्द हमारे अंदर व्यक्त हो जायगा, हम शाश्वत

सुख-शान्तिका अनुभव कर कृतार्थ हो जायँगे तथा इस दिशामे प्रयास ही समयका सच्चा सदुपयोग है ।

हममेसे ब्रह्मतसे व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवनकी अतीत घटनाओंको स्मरणकर दिन-रात चिन्तित रहते हैं, भली-बुरी बातें जो घट चुकी हैं, उनसे सुखी-दुखी होते रहते हैं । यह भी समयका दुरुपयोग ही है । घटनाएँ तो हमारे पूर्वकर्मके अनुसार घटी हैं । उनके लिये जब हमने कारणका निर्माण कर दिया था, तब कार्य तो होकर ही रहता । यहाँ एक महलोंमे रहता है, दूसरेके लिये झोंपडीकी भी व्यवस्था नहीं, एकके यहाँ नष्ट करनेके लिये सम्पत्तिकी राशि एकत्र है, दूसरेके यहाँ पेट भरनेको दाने नहीं, एकका शरीर सदा नीरोग रहता है, सुन्दरता अङ्गोंसे झरती रहती है, दूसरा अन्धा होकर जन्मा, एक पैर भी लँगडा था, जीवनभर बीमार भी रहता है, एकके जीवनमे पवित्रता, सद्गुण स्वभावसे ही भरे होते हैं, दूसरेमे क्रूरता एव पशु-भावका ही बोल-बाला होता है, एकके जीवनपथमे फूल बिछे होते हैं, वह क्रमशः उन्नत ही होता जाता है, सफलता पद-पदपर उसका स्वागत करती है, दूसरेके पथमें कौटे फैले होते हैं, आगेकी गति सदा अवरुद्ध-सी रहती है, उसे सदा निराशा, असफलता, जलन ही हाथ लगती है, एक तो अस्सी-नब्बे वर्षकी आयुका उपभोग करता है, दूसरा उत्पन्न होता है और केवल क्षणभरके लिये संसारका प्रकाश देखकर पुनः मृत्युकी गोदमे समा जाता है । ये सारी बातें अपने-अपने विभिन्न कर्मोंके फलसे घटित होती हैं । इस कर्म-जगत्के सनातन नियमोंमें किसीके प्रति अन्याय नहीं होता, पक्षपात नहीं होता । जिसने जैसे बीज बोये हैं,

जैसे कर्म सञ्चित किये हैं, वैसे ही फल, उसीके अनुरूप उसके लिये घटनाएँ बनेंगी। सञ्चितके अपार ढेरसे ही तो हमारे इस जीवन-का प्रारब्ध बनता है। अपने बोये बीजके, अपने ही कर्मोंके फल ही तो हमें अबतक मिले हैं, उनका मिलना अवश्यम्भावी ही था। फिर वे तो भुगत ही लिये गये, समाप्त हो चुके, उनका खाता पूरा हो चुका। अब उनकी चिन्ता करके हम क्या लाभ पायेंगे। उनका विचार करके हम अपना अनमोल समय क्यों खोयें ?

इसी प्रकार भविष्यमें क्या होगा, इसपर विचार करते रहना भी समय खोना है। सच पूछे तो भविष्य तो हमारे अपने हाथोंमें है। उसका निर्माण तो हम कर सकते हैं। यदि हम वर्तमानका सदुपयोग कर लें तो भविष्यका सुन्दर होना निश्चित है। प्रारब्धके वेगसे इस जीवनके अन्तिम क्षणतक अनुकूल-प्रतिकूल निमित्त आकर भले प्राप्त हो जायें। यदि हम वर्तमानके समयको ठीक-ठीक काममें ले लें तो फिर ये आकर भी हमें एवं हमारे मनको छू नहीं सकेंगे। कदाचित् हमारे मनको छू भी लें, तो उसे उद्विग्न नहीं कर सकेंगे, मनमें प्रतिक्षणकी बढ़ती हुई शान्तिके साम्राज्यको ये नष्ट नहीं कर सकेंगे और इसके बाद—इस जीवनके अनन्तर जो नवजीवन आरम्भ होगा, वहाँ उस भविष्यमें—तो हमारे लिये चिन्ताका कोई कारण ही नहीं रह जायगा। यह नियम है, गोदाममें भरे हुए मालोंमेंसे वह माल पहले निकलता है, जो अन्तमें भरा जाता है। गोदाममें पहले चाहे प्याज-ही-प्याजकी थोरियाँ भरी हों, पर फिर अन्तमें यदि उममें लगातार सब ओरमें केवल केसरकी थोरियाँ ही भरी जाने लगे तो निकालते समय केसरकी थोरियाँ ही पहले निकलेंगी, केसरके

सुवाससे वातावरण सौरभमय हो उठेगा । इसी प्रकार अबसे—इस क्षणसे पहले हमारे कर्मकी गोदाममे चाहे अत्यन्त बुरे कर्मोंके ही सस्कार क्यों न भरे हों, पर हम अब वर्तमानके प्रत्येक क्षणको अबसे आरम्भकर जीवनके अन्ततक, प्रभुकी खोजमें ही, खोजकी साधनामे ही व्यतीत करेंगे तो प्रभुसे ओतप्रोत मस्कार ही सञ्चित होते रहेंगे । नवजीवनका प्रारब्ध इन्हीं सस्कारोंको लेकर निर्मित होगा । और वहाँ इस संस्कारके सुवाससे हम तो निरन्तर प्रफुल्लित, चिन्तारहित रहेंगे ही, हमारे सम्पर्कमे आनेवालेकी भी दुर्गन्धि मिट जायगी । अतः वर्तमानका सदुपयोग करे । अतीत एवं भविष्यकी चिन्ता हम शीघ्र-से-शीघ्र छोड दे ।

अपने पहलेकी भूलोंको निरन्तर स्मरण रखते हुए पश्चात्तापके विचारमे निमग्न रहना भी समयका सच्चा सदुपयोग नहीं है । हाँ, यदि यह पश्चात्ताप सक्रिय (Positive) हो तब तो यह हमें जीवनके चरम उद्देश्यकी ओर बढ़ानेमे परम सहायक बन जायगा । सक्रिय पश्चात्तापका रूप यह है—जितना बुरा हमने किया है, उससे कई गुना अधिक भला, अपनी शक्ति-सामर्थ्यके अदर अधिक-से-अधिक जितना भला करना सम्भव है, उतना भला हम करे । शत्रुके समान कठोर बनकर यदि हमने बहुतेरे हृदयोंमे घाव किये हैं तो अब मक्खनसे भी अधिक कोमल एवं स्निग्ध बनकर हमें जहाँ-जहाँ घाव दीखें, उन्हें भरनेका सच्चा प्रयास करे । यदि अपनी क्रूर चेष्टाओंसे हमने लोगोंको जलाया है तो अब प्रेमका मधु पिलाकर मवको शीतल करनेका व्रत ले ले । यह हुआ सक्रिय पश्चात्ताप, अन्यथा उन गयी हुई बातोंको याद करने रहनेमात्रमे कोई विशेष लाभ नहीं होता ।

जो हो, समयका सच्चा सदुपयोग तो बस, यही है कि हम प्रभुकी खोजमें जुट पड़ें; और काम तो जैसे होने होंगे, हो जायँगे, हमारे बिना भी दूसरोंके द्वारा हो जायँगे, पर यह काम तो हमें ही करना पड़ेगा, हमारे ही किये होगा, दूसरा कोई भी हमारे बदले हमारे लिये इसे कर नहीं सकेगा। अतः इसीमें हमें लगना है, उन्हींको ढूँढने चल पडना है। इस मार्गमें चलनेपर हमें एक विशेष पद्धतिका अनुसरण करना पड़ेगा। विशेष ढंगसे कुछ यत्न भी करना पड़ेगा, किंतु साथ ही यह बात भी अवश्य है कि इसमें कोई खास परिश्रम हो, सो बात बिल्कुल नहीं है; क्योंकि 'आत्मत्वात् सर्वभूताना सिद्धत्वादिह सर्वतः' वे प्रभु तो हम सबके स्वयं आत्मा ही जो ठहरे, उनकी उपस्थिति तो सर्वत्र है। उनको ढूँढ़ लेनेमें, उन अपनेसे अपनेको प्रसन्न कर लेनेमें परिश्रम ही क्या है ?

लगन होनेपर पद्धतिका अनुसरण करना भी कोई खास कठिन नहीं है। बस, यही करना है कि सबसे पहले हमें उन्हें प्रत्येक रूपमें पहचानना है। अग्निके तत्त्वको तो हम जानते हैं। एक ही अग्नितत्त्व सर्वत्र व्याप्त है। जो आग काठमें है, वही पत्थरमें है, वही बादलोंमें है, वही सूर्यमें है, वही हमारे शरीरमें भी व्याप्त है; किंतु यदि हम यह सोचें कि अग्निका रूप क्या है तो यही कहना पड़ेगा कि अग्नि जिस आधारमें व्याप्त है, वही उसका रूप है। एक ही अग्नि नाना रूपोंमें व्याप्त होकर उनके समान रूपवाला हो रहा है। अग्निमें तत्त्वतः कहीं भी कोई अन्तर नहीं है। ऐसे ही समस्त भूतोंके अन्तरात्मा प्रभु एक होते हुए भी नाना रूपोंमें रहकर उन्हींके-जैसे रूपवाले हो रहे हैं—

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥

(कठ० २।२।९)

इस तत्त्वको अच्छी तरह समझकर हम ठीक ऐसा ही अनुभव करनेकी चेष्टा करें । साथ ही यदि कदाचित् ऐसा अनुभव न होता हो, तब भी केवल इस सत्यपर विश्वास करके ही हम यह करें कि अपने आसुरभावको दबाकर, दूसरेको नष्ट करके स्वयं सुखी होनेकी भावनाको सर्वथा छोड़कर सब प्राणियोंके प्रति दया एवं सौहार्दका व्यवहार करें । वस, इतनी-सी बात ही अपेक्षित है । यदि हम यह कर सकें तो प्रभुकी प्रसन्नताके दर्शन होनेमें बिल्कुल देर नहीं होगी ।

तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् ।

आसुरं भावमुन्मुच्य यथा तुष्यत्यघोक्षजः ॥

(श्रीमद्भा० ७।६।२४)

और यदि प्रभुकी प्रसन्नता हमने पा ली तो फिर हमारे लिये कौन-सी वस्तु अलभ्य रह जाती है ?—

‘तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये ।’

—कुछ भी नहीं । कदाचित् शरीर नष्ट होनेसे पहले-पहले हम चेत जाते, चेतकर प्रत्येक क्षणका उपयोग इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये करते तो कितनी सुन्दर बात होती !



दुःखके कारण

पाँच चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दुःखको सदा बढ़ाती रहती हैं । यदि यह कह दें कि ये ही पाँच हमारे यहाँके प्रायः समस्त दुःखोंके कारण हैं तो अत्युक्ति नहीं है ।

(१) भगवान्के मङ्गलमय दानको अस्वीकार करनेकी वृत्ति—यहाँ जो कुछ भी हमें फलरूपमें प्राप्त हो रहे हैं, उन सबके आगे-पीछे मङ्गलमय प्रभुका मङ्गलविधान काम करता है । प्रभु हमें जो कुछ भी देते हैं, उसमें हमारा उत्थान होना निश्चित है । हमारे जीवनको नीचे स्तरसे उठाकर अबकी अपेक्षा कहीं अधिक सुख-शान्ति प्रदान करनेके लिये ही प्रभुका प्रत्येक विधान बनता है, किंतु हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते । जिन्हें प्रभुकी सत्तामें विश्वास नहीं, जो प्रभुको नहीं मानना चाहते, उनकी बात दूर, जो अपनेको आस्तिक कहते हैं, वे भी अपने मनके प्रतिकूल किसी भी विधानको स्वीकार नहीं करना चाहते । मनचाहा होनेपर तो

बड़ी आसानीसे कह देगे कि 'प्रभुकी कृपा है।' पर कहीं मनके विरुद्ध हुआ तो उदासी आये बिना नहीं रहती। वास्तवमे यह प्रभुकी कृपाका अधूरा ही दर्शन है। पूरा दर्शन तो वह है जब कि हमारे लिये कुछ भी प्रतिकूल रहे ही नहीं। प्रभुके विधानसे जो भी हमे मिले, उसे हम अनुकूल बना लें, उसीमें पूर्ण अनुकूलताका दर्शन करे, किंतु यह होता नहीं। और उधर यह बात है कि चाहे हम रोकर स्वीकार करे या हँसकर, प्रभुका विधान तो हमपर लागू होकर रहेगा। प्रभुके यहाँ भ्रम नहीं, प्रमाद नहीं, पक्षपात नहीं। वहाँ तो अखण्ड स्नेह है, न्याय है, पूर्ण व्यवस्था है। जैसे अबोध शिशुके रोनेकी परवा न कर माता उसे स्नान कराती है, शरीरपर जमे हुए मैलको मल-मलकर धोती है, उलझे हुए बालोको ठीक करती है तथा कभी जब यह देख लेती है कि बच्चेके कपडे जीर्ण हो गये है, अथवा अत्यन्त मलिन हो गये है तो उन्हे बदल देती है, वैसे ही दयामय प्रभु हमारे रोने-चिल्लानेकी परवा न कर हमे दुःख, विपत्ति, अपमान, निन्दा आदि विधानोंसे परिशुद्ध करते हैं और आवश्यकता होनेपर वस्त्र-परिवर्तनकी भोंति ही हमारे इस शरीरका मलिन आवरण हटाकर नवजीवन प्रदान करते हैं। जैसे माताकी प्रत्येक चेष्टामें बच्चेके प्रति अखण्ड स्नेह-भावना, सर्वथा हित-बुद्धि भरी होती है—शिशु भले ही इसे न समझे—वैसे ही प्रभु चाहे जो भी विधान करे, उसमे भरा है हमारे प्रति उनका अनन्त अपरिसीम स्नेह, हमारा ऐकान्तिक हित। मा यदि रोनेके भयसे बच्चेको खिन्न करना छोड दे, तब तो बच्चा जीवित रह चुका। अज्ञतावश रोना तो उसका स्वभाव है। मा उस ओर दृष्टिपान नहीं

करेगी । वैसे ही प्रभु हमारे 'धुकुर-पुकुर' हाय रे, मरे रे, की ओर न देखकर हमे शुद्ध करेंगे ही, उनका विधान हमपर चरितार्थ होगा ही । और हम उसे टालनेका जितना प्रयास करेंगे, उतना ही सघर्ष बढ़ेगा और हमारा दुःख बढ़ता जायगा । उनके स्नेहमय कोमल हाथोंका स्पर्श भी हमें अवश्य प्राप्त होगा, हम उनकी गोदमें सुखकी नींद सो भी जायेंगे तथा जागनेपर हमे उस गत दुःखकी स्मृति भी नहीं रहेगी तथा आयु बढ़नेपर, समझ आ जानेपर तो प्रभुकी सत्तामे निष्ठा हो जानेपर, उनकी मङ्गलमयताका ज्ञान हो जानेपर—हम वैसे विधानोंका उत्फुल्ल होकर स्वागत करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे, विलम्ब होनेपर सत कबीरकी भौंति* प्रभुसे प्रार्थना करेंगे कि 'नाथ ! ऐसी कोई रचना रचो, कोई-सी लीला करो जिससे हमारी झञ्झटें दूर हों' और वैसी परिस्थिति आनेपर हमारा रोम-रोम खिल उठेगा, किंतु जबतक ऐसा नहीं हो रहा है, तबतक हमारे लिये एक बार तो दुखी होना अनिवार्य है । यह है हमारी मूर्खता ही, पर उपाय क्या हो ! प्रभुरूप अनन्त दयामयी जननीके

* कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी सत कबीरके जीवनपर एक रचना है, जिसका भाव यह है—कबीरको सिद्ध महात्मा मानकर लोगोंकी भीड़ एकत्र होने लगी । कोई सिद्धि दिखानेको कहता, कोई संतानकी माँग करता तो कोई मन्त्रसे रोग दूर करनेकी याचना करता । इस प्रकार कबीरके एकान्त भजन-साधनमें विघ्न होने लगा । उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की । कुछ ही दिनों बाद गाँवके कुछ ईर्ष्यालु लोगोंने कबीरके विरुद्ध एक पड्यन्त्र रचा; एक कुलटा स्त्रीको सिखा पढाकर ठीक किया । जब कबीर कपड़ा बेचने बाजारमे आये, तब उसने उनका पल्ला पकड़ लिया और वृह उन्हे खरी-खोटी सुनाने लगी । उसका कहना था कि 'मैं तुम्हारी रखेल

हाथमे हम अपनेको सौंप नहीं देना चाहते, उनकी अनन्त शक्ति, असीम सौहार्दपर हमारा विश्वास जो नहीं होता ।

यहाँ इस प्रकृत उदाहरणमे गिण्टुके पास तो साधन नहीं कि वह माताकी भावनाको हृदयङ्गम कर सके । छ महीनेके बच्चेमें यह बुद्धि कहाँ है ? पर हमारे पास तो साधन भी है । हमारी जो बुद्धि राजनीति, अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल, इतिहास एव विज्ञानके विभिन्न क्षेत्रोंमे ऊहापोह कर सकती है, वह यदि चाहे तो, इन सबके ऊपर जाकर प्रभुकी सत्ता, मङ्गलमयतापर भी विचार कर सकती है और यदि पक्षपातशून्य होकर वह उस दिशामें बढ़ेगी, अपने मनमाने सिद्धान्तको ही स्थापित करनेका आग्रह

स्त्री हूँ और तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं कष्ट पा रही हूँ ।’ दुष्टोंका दल पहलेसे तैयार था ही । सब ताली पीटने लगे । कवीरकी ग्वं निन्दा हुई, पर कवीर प्रसन्न हुए । वे उस स्त्रीको अपने साथ घर ले आये । उसे अपनी माताके समान मानकर आश्रय दिया और उसका आदर-सत्कार करने लगे । स्त्रीके मनमें पश्चात्तापकी आग बधक उठी । सर्वथा झुटा लाञ्छन उसने कवीरपर लगाया था । पर कवीर सदा यही कहते—‘मैया ! तू डर मत । तू तो भगवान्के यहाँसे मेरे लिये निन्दारूपी उपहार लेकर आयी है ।’ इसके पश्चात् एक बार काशीनरेशने कवीरकी ख्याति सुनकर उनका दर्शन करना चाहा । कवीरने सोचा—रहा-सहा बखेड़ा भी दूर हो जाय । उसे साथ लेकर वे राज-सभामे गये । स्त्रीको साथ देग्वकर राजाके मनमें कवीरके प्रति घृणा हुई । कवीर सभासे निकाल दिये गये । कवीर कुटीमे आये । टैप्यालु उन्हें चिदा-चिदाङ्ग हँस रहे थे । पर वह स्त्री कवीरके चरणोंमे लोट गयी, बोली—‘मुझ अधमाङ्गे अपने साथ ग्वंकर दतना अपमान क्यों सहते हो ? कवीर बोले— जननी ! तू तो मेरे प्रभुकी बेटी हुई है मेरे मालिकका दान है ।’

छोड़कर सत्यको सहर्ष आदर देनेके लिये प्रस्तुत होकर अग्रसर होगी तो उसे कुछ-न-कुछ प्रकाश मिलेगा ही । कुछ-न-कुछकी बात इसलिये कि वास्तवमे इस दिशामे श्रद्धाका सबल नितान्त आवश्यक है । बुद्धि इस मार्गमे कुछ आगे चलकर कुण्ठित हो जाती है । फिर भी जो पुरुष सत्यको ग्रहण करनेका दृढ़ निश्चय, पक्षपातशून्य निश्चय लेकर चलता है, उसे प्रभुके ही किसी अचिन्त्य विधानके अनुसार किसी छिद्रसे आलोककी कोई क्षीणतम रेखा दीख ही जाती है । और कदाचित् उस क्षीण रेखाके सहारे ही वह थोडा-सा आगे और बढ़ गया, तब फिर तो उसका काम हो जाता है । उसके लिये श्रद्धाके द्वार अपने-आप खुल जाते हैं । बस, जहाँ श्रद्धाके द्वार खुले कि ज्ञानका पूर्ण आलोक आया । इसके अनन्तर कुछ करना नहीं पडता, जो वस्तु यहाँ जिस रूपमे है, वैसी ठीक-ठीक दीखने लग जाती है । प्रभुके अतिरिक्त यहाँ दूसरी वस्तु है ही नहीं, सर्वत्र प्रभु है, सर्वत्र आनन्द भरा है, मङ्गल-ही-मङ्गल पूर्ण है । हमारी आँखोपर अज्ञानरूपी अँधेरेका पर्दा पडा है । हम प्रभुको, उनकी नित्य आनन्दमयताको, उनकी मङ्गलमयताको देख नहीं पाते । कहीं ज्ञानका सूर्य उदय हो जाय तो काम हो जाय । यहाँ हम प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखते हैं—सूर्योदय हमारी आँखोपर पडे हुए अँधेरेके आवरणको हटामात्र देता है, वह किसी वस्तुकी रचना नहीं करता । वैसे ही प्रभुका सम्यक् सुदृढ ज्ञान, उनका दिव्यातिदिव्य आलोक जहाँ आया कि वह हमारी बुद्धिके अनादि अज्ञान-अन्धकारको सदाके लिये नष्ट कर देता है । फिर प्रभु तो हमारे लिये नित्य-निरन्तर यहाँ है ही, उनकी रचना थोडे होनी है ।

यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां
 तमो निहन्यान्न तु सद् विधत्ते ।
 एवं समीक्षा निपुणा सती मे
 हन्यात्तमिच्छं पुरुषस्य बुद्धेः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २८ । ३४)

किंतु हमारा न तो प्रभुपर विश्वास है, न इस दिशामे कोई प्रयत्न ही है । इसीका अनिवार्य परिणाम यह है कि जहाँ तनिक-सा भी कोई प्रतिकूल विधान हमारे सामने आया, आनेकी गन्धमात्र मिली कि हम उसे टालनेकी चेष्टा करते हैं । वह टालना तो है नहीं, केवल संघर्ष बढ़ता है और हम दुखी होते हैं ।

(२) हमारा मलिन स्वार्थ—दूसरेका कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, हमारा भला होना चाहिये, हमे सदा सुख मिलना चाहिये । वह भावना हमारे दुःखका दूसरा कारण है । यह एक नित्य सनातन नियम मान लेना चाहिये कि जिसकी ऐसी भावना है, उसका भला होनेका ही नहीं है, उसके लिये सुख बहुत दूरकी वस्तु है । सुखका स्वप्न वह भले देख ले, मनके लड्डू खा ले, तथा यह भी सम्भव है—पूर्व अर्जित किसी शुभ कर्मके फलोन्मुख प्रारब्धवश वह यहाँ अभी जगतकी दृष्टिमें ऊपरसे सुखमयी परिस्थितियोसे घिरा दीख पड़े, पर कहीं कोई उसके मनमे प्रवेश करके देखे, उसमे मनकी स्थिति पृच्छकर देखे तो पता चलेगा कि उसके मनमे सुखकी छाया भी नहीं है । वह एक अत्यन्त माधारण स्थितिके मनुष्यकी अपेक्षा भी बहुत अधिक अज्ञान है । आज हममेमे अधिकांशकी यही दशा है । हम अपना काम बनाना चाहते हैं दूसरेकी अपेक्षा करते हैं । परिणाम यह होना है कि

हमारा बनता ही नहीं, चाहे हम कितनी ही चेष्टा क्यों न करें और न बननेपर हम दुखी तो होंगे ही ।

जैसे हमारा शरीर है । इसमें आँख, नाक, कान, मुँह, सिर, कण्ठ, हृदय, पेट, कमर, हाथ, पैर आदि विभिन्न अवयव है । अब यदि आँख कहे कि हाथ टूटे तो टूटे, पैर कटे तो कटे, हम ठीक रहें, कान कहे कि आँख फूटे तो फूट जाय, नाक सड़े तो सड़ जाय, इससे हमारा क्या, हम ठीक बने रहें, तो यह कैसी हास्यास्पद बात है ? एककी हानिका प्रभाव दूसरेपर पड़ेगा कि नहीं ? वैसे ही यह सारा विश्व एक ही प्रमुक्ता शरीर है, हम सभी उस विराट् शरीरके अंश हैं, परस्पर हम सभी जुड़े हुए हैं, सबके हितमें हमारा हित, सबके सुखमें हमारा सुख समाया हुआ है । हमे ऐसी अनुभूति इसलिये नहीं होती कि विषय-व्यामोहमें पड़कर हम पागल हो रहे हैं, हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं है । पागल जैसे अपने ही अङ्गोंको काटकर, तरह-तरहकी चेष्टाओंसे उसे विकृतकर सुखी होनेका अनुभव करता है, वही दशा हमारी है । जब हमारा यह पागलपन दूर होगा, प्रभुमें स्थित होकर हम इस जगत्को देखेंगे, तब यथार्थ देखेंगे । और उस समय, जैसे हम अपने सिर, हाथ आदि अङ्गोंमें 'ये दूसरे हैं' ऐसी भेद-बुद्धि नहीं करते, वैसे ही समस्त भूत-प्राणियोंमें ही हम परबुद्धि करना छोड़ देंगे । सबके प्रति समान अपनापन होगा—

यथा पुमान् स्वङ्गेषु शिरःपाण्यादिषु क्वचित् ।
पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥

(श्रीमद्भा० ४ । ७ । ५३)

जबतक हमारी यह स्थिति नहीं हो जाती, तबतक 'यह हमारा, यह दूसरेका, हम सुखी रहे, दूसरेसे हमें क्या मतलब ?' यह वृत्ति बनी रहेगी और हमें दुःख देती ही रहेगी ।

(३) पद-पदपर भयभीत होना—हमें इतने प्रकारके भय घरे रहते हैं कि जिनकी गणना सम्भव नहीं । सक्षेपमें कहनेपर हम यों कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास प्रिय वस्तुएँ वर्तमान हैं, उनमेंसे प्रत्येकके छिन जानेका भय तथा जो-जो हमारी अभिलषित वस्तुएँ हैं, जिनके लिये हम प्रयास करते रहते हैं, उनके न मिलनेका भय, इस प्रकार अगणित भय हमारे सामने खड़े रहते हैं, कुछ अव्यक्त चेतनामें, कुछ प्रत्यक्ष रूपसे । ऐसी स्थितिमें हम दुःखी न हो तो और क्या हो ? पर यह भी है हमारी मूर्खता ही । क्या यह सम्भव है कि परम सुहृद् प्रभु हमारी आवश्यक वस्तु हमसे छिन ले ? अथवा हमारी आवश्यक वस्तु हमें न दें ? यहाँका कोई सच्चा मित्र भी जब ऐसा नहीं करता, तब जिन प्रभुसे समस्त विश्वमें मित्रभावका सञ्चार होता है, जो समस्त प्रेम-भावनाओंके उद्गम हैं, जो सब कुछ करनेमें समर्थ हैं, जो हमारे मनमें होनेवाले प्रत्येक सूक्ष्मतम स्पन्दनसे भी नित्य परिचित रहते हैं, वे कभी भला ऐसा कर सकते हैं ? कभी नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते । निरन्तर देते रहना तो उनका स्वभाव है, हमारे लिये नित्य-नव आनन्दका सृजन करना ही उनका काम है । जो वस्तु हमारे लिये अनावश्यक है, हानिकार सिद्ध होने लगती है, उसे वे हटा देते हैं तथा पेंसी वस्तुएँ मोंगनेपर भी, चेष्टा करनेपर भी, सामने लाकर नहीं रखते—इतना तो अवश्य करते हैं । पर इममें हमें भयभीत क्यों होना

चाहिये ? बिना हमसे कुछ याचना किये, हमारे लिये नित्य निरन्तर इतनी सुन्दर व्यवस्था करनेवाला, हमारी रक्षा करनेवाला, हमारा अकारण स्नेही मित्र ऐसा कोई दूसरा मिलेगा ? किंतु हमें ऐसी प्रतीति नहीं होती और हम डरने रहते हैं, डर-डरकर दुखी होते रहते हैं । हाय रे, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा ? ऐसा नहीं हुआ तो क्या दशा होगी ?—इन चिन्ताओंके जालमें पड़े रहनेके कारण हमारा दुःख प्रतिक्षण बढ़ता रहता है । प्रतीति हो भी तो कैसे हो ? हम प्रभुकी ओर नजर उठाकर देखतेतक नहीं, हमें उनकी आवश्यकता ही अभी नहीं प्रतीत होती । यदि हम उनकी ओर देखने लग जाते तो प्रत्येक भयके स्थलमें ही, उसके अन्तरालमें उनका हँसता हुआ मुख हमें दीख जाता । फिर भय कहाँ, दुःख कहाँ ?

(४) हमारी प्रमादभरी आदतें—हमें जो करना चाहिये, वह तो हम करते नहीं और जो नहीं करना चाहिये, वह करते रहते हैं । दुःखका यह चौथा कारण है । यह बात नहीं है कि हमें करने एव न करने योग्यका पता ही नहीं हो । हममेंसे अधिकांशको अधिकांश स्थलपर अपने सहज ज्ञान (Intuition)से यह सूकेत मिलता रहता है, पर हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं । जो आस्तिक जगत्में रहते हैं, सत्-चर्चा सुनते-कहते रहते हैं, उनको तो यह विशेषरूपसे पता रहता है । ऋषियोंके इन अमर सन्देशोंसे वे प्राय परिचित रहते हैं—

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् ।
कुशलान्न प्रमदितव्यम् ।

‘तुम्हे सत्यसे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये—कभी नहीं डिगना चाहिये। तुम्हे धर्मसे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये। वहाना बनाकर, आलस्यवश धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। कुशल—शुभ कर्मोंसे तुम्हे प्रमाद नहीं करना चाहिये, प्रभुके द्वारा सौंपे हुए शुभ कर्मोंका त्याग या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।’

पर हम ऐसे कितने हैं, जो जानते रहनेपर भी, यह सोच-समझ रखनेपर भी ऐसा न करते हो ? विषयोसे सुख पा लेनेकी लालसामें न जाने कितनी बार, कितनी घुरी तरहसे हम इन नियमोंको तोड़ते हैं। और जैसे—‘सड़कसे नीचे ढाहिने-त्राये मत झुको, खड़ा है, सर्वथा सीधी राह जाओ।’—इस सूचनाकी अवहेलना करनेपर हम नीचे गिरेगे ही, चोट लगेगी ही, वैसे ही प्रभुके द्वारा स्थापित सनातन नियमोंका उल्लङ्घन, चाहे हम लुक-छिपकर करे, या भरी सभामें जनमत एकत्रकर सर्वसम्मतिसे उचित सिद्ध कराकर करे, पर हमारा पतन रुक नहीं सकता, सत्यसे हम दूर हटेंगे ही और दुःखका बोझ उठाना पड़ेगा ही।

(५) हमारा अहंभाव—इसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपोंमें होती है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई-सी सुन्दर घटना घटित हुई कि हमारा अहंभाव जाग उठता है। उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। ‘अजी, मैं नहीं होता तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।’—इस प्रकार अपनेको सामने रखनेमें हम लज्जाका अनुभव नहीं करते। यदि हम शिष्ट हैं तो हमारे कहनेकी भाषा सुन्दर शालीन हो सकती है, हमारे उस कथनमें ऊपरसे

देखनेपर केवल विनम्रता भरी दीख सकती हैं तथा कभी-कभी तो जनतापर यह छापतक पड सकती है कि हम उस कार्यका श्रेय सर्वथा लेना ही नहीं चाहते, किंतु असलमे हमारा मन ही जानता है कि हम क्या चाहते हैं । और कभी इससे भी बहुत अधिक सूक्ष्म अभिव्यक्ति इसकी होती है । हम अनुभव करते है कि हमें इसका श्रेय नहीं चाहिये, पर विना मँगे, विना चाहे हमें जब श्रेय मिलने लगता है, तब हमे सुखकी अनुभूति होती है । यह सुखकी अनुभूति वास्तवमे प्रच्छन्न अहभावकी ही अभिव्यक्ति है । जो हो, जाननेकी बात यह है कि चाहे जहाँ, जिस रूपमे, जिस मात्रामें इसकी अभिव्यक्ति होगी, वहाँ उसी रूपसे, उतनी मात्रामें ही हमारे लिये यह अभिव्यक्ति दुःखका सृजन कर ही देगी । हम तनिक सोचे, हमारी जिन इन्द्रियोकी सहायतासे वह कार्य सम्पन्न हुआ है, जिस मनके विचार उसे सम्पन्न करनेमे हेतु बने हैं, जिस बुद्धिका निश्चय उसे अवतक—सफलताकी सीमातक निभा ले गया है, उन इन्द्रिय-मन-बुद्धिमे शक्ति कहाँसे आयी है ? प्रभुकी शक्ति ही तो इन्द्रियोंमें व्यक्त होती रही है, उनकी शक्तिने ही तो वैसे सुन्दर विचार मनमें उद्बुद्ध किये थे, बुद्धिकी वह निश्चयात्मिका शक्ति भी तो प्रभुकी ही देन है । फिर हमारा क्या है, जो हम 'अहङ्कार' कर रहे हैं, उस कार्यका श्रेय ले रहे हैं ? यहाँ सब कुछ सर्वथा प्रभुकी शक्तिसे ही तो सम्पन्न हो रहा है ? पर हम अहङ्कारसे विमूढ होकर अपनेको मान बैठने है उन सबका कर्ता । इसका परिणाम क्या होगा ? हमारे इस अहङ्काररूपी मलिन यन्त्रके द्वारा प्रभुकी पवित्रतम शक्तिका दुरुपयोग हुए विना रह नहीं सकता । सदुपयोग तो केवल वहाँ

सम्भव है, जहाँ यह अहङ्कार सर्वथा मिट गया होता है, प्रभुकी शक्ति सीधे उतरती होती है, अथवा जहाँ यह अहङ्कार सर्वथा परिशुद्ध होकर प्रभुके पादपद्मोंसे लिपट जाता है, मन-बुद्धि-इन्द्रियोमे प्रभुकी सञ्चारित की हुई शक्तिको वहींसे देखता भर रहता है, देख-देखकर उत्फुल्ल होता रहता है, कभी भूलकर भी हस्तक्षेप करने नहीं आता ।

साराश यह कि हमारा अहङ्कार पहले तो प्रभुकी शक्तिपरसे उनका नाम पोछकर अपनी मुहर लगा देता है और फिर उस शक्तिका अपव्यय करता है । अब जगन्नियन्ताकी शक्ति चुराकर उसका अपव्यय करनेका परिणाम दुःखकी सृष्टिके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है ?

वस, उपर्युक्त पाँच कारणोमे ही हमारे दुःखके प्राय सभी कारण समा जाते हैं । ये पाँचो कारण एक-दूसरेसे भिन्न सर्वथा स्वतन्त्र हो, ऐसी बात नहीं हैं । पाँचो एक दूसरेसे मिले-जुले होते हैं, परस्पर रूपान्तरित होते रहते हैं । समझनेके लिये इन पाँच विभागोंमे बाँटकर हम उन्हें अच्छी तरह समझ सकते हैं ।

वास्तविक दृष्टिसे विचारनेपर तो दुःख नामकी कोई वस्तु ही नहीं है । फिर भी, जबतक हम प्रभुमे स्थित नहीं हो जाते, तबतक दुःखकी सत्ताका भ्रम बना ही रहता है । उनमे व्यवस्थित हुए कि दुःखका अत्यन्त अभाव हो जाना है । सूर्यको कभी अन्धकारकी सत्ताका भान है क्या ? जहाँ सूर्य है, वहाँ अन्धकार न था, न है, न रहेगा । वैसे ही परमानन्दवन प्रभुके समीप दुःखकी सत्ता है ही

नहीं । उनमें तन्मय होते ही हमारे लिये भी दुःख नहीं रहेगा । अभी तो हम उनसे अलग होकर, उनसे मुँह फेरकर अपनी दृष्टि घुमा रहे हैं, और इसीलिये—प्रभुके अतिरिक्त और कोई अस्तित्व न होनेपर भी—हमें नाना पदार्थोंके, अनेक विषयोंके दर्शन हो रहे हैं तथा इन विषयोंसे सुख पानेकी जो अपेक्षा है, आशा है, वस, यही दुःख है—

दुःखं कामसुखापेक्षा ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १९ । ४१)

जिस दिन, जिस क्षण हमने प्रभुको देख लिया, उन्हें जान लिया, वस, उसी क्षण यह विषय-सुखकी अपेक्षा समाप्त हो जायगी, दुःखोंके समस्त कारण मिट जायेंगे, हमारे दुःखोंका सदाके लिये अन्त हो जायगा । विषय, नानात्व—ये भी नहीं रहेंगे । रहेंगे केवल एक प्रभु । इसीलिये श्रुति हमें सावधान करती है—

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविशाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

(श्वेताश्वतर० ६ । २०)

जब मनुष्य आकाशको चमड़ेकी भाँति लपेट ले सकेंगे, तब उन परमदेव परमात्माको जाने बिना भी दुःखका अन्त हो सकेगा ।'

यह असम्भव है, पर हम सुननेपर भी सावधान नहीं होते । दुःखके मार्गमें ही आगे-से-आगे बढ़ते चले जाते हैं । भगवान् हमें सद्बुद्धि दें !



काम या प्रेम

बहुत वार हम प्रेमके नामपर कामकी उपासना करते हैं । हमे मलिन काम नचाता रहता है और हम भ्रमवश प्रेमकी निर्मल त्रेदीपर आत्मोत्सर्ग करनेका दम भरते हैं, जगत्के सामने एक परमोज्ज्वल आदर्श स्थापित कर जानेका स्वप्न देखते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि केवल अपने-आप ही नहीं गिरते, अपने तथा कल्पित प्रेमास्पदको भी अन्धकारमे घसीट ले जाते हैं । साथ ही इससे जगत्मे इतने दूषित परमाणु फैल जाते हैं कि वैसे सजातीय मनवाले व्यक्तियोंके भी सुप्त सस्कार जग उठते हैं, उन्हे भी हमारा अनुकरण करनेमे गौरवकी अनुभूति होने लगती है । इस प्रकार प्रेमका निर्मल नाम तो कलङ्कित होता ही है, समाजको, राष्ट्रको, विश्वको, इनमे हमारा जहाँ जैसा जितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, उसके अनुपातसे छिन्न-भिन्न कर देनेमे, इनके लिये अशान्ति, दुःख, विपत्तिका जाल रच देनेमे हम निमित्त बन जाते हैं । और यह स्थिति बड़ी दयनीय होती है । अतः प्रारम्भसे ही हमे सावधान होकर बढना चाहिये । हम आत्मनिरीक्षण करते रहे—कामके चगुलमे हैं या प्रेमका निर्मल आकर्षण हमे आकर्षित कर रहा है ?

यह बात श्रुव सत्यरूपमे स्वीकार कर ले कि हम एव हमारे प्रेमास्पद—इन दोनोके बीचमे यद्वि भगवान्के लिये स्थान नहीं है, हमारा एवं हमारे किसी भी प्रेमास्पदका पारस्परिक सम्बन्ध प्रभुकी भावनासे शून्य है, तो चाहे ऊपरी ठाट-त्राट, बाहरका ढग कितना भी सुन्दर, सुव्यवस्थित, पवित्र क्यों न प्रतीत हो, है वह वास्तवमे कामका ही पसारा । ऐन्द्रिय विषयोसे पूर्ण, कल्पित मनके द्वाग यथेच्छ स्थापित किये हुए सम्बन्धमे काम भरा हो—इसमे तो कहना ही क्या, जो सम्बन्ध सर्वथा वैधरीतिसे स्थापित हुए हैं, जिनमे कहीं भी, तनिक भी मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं हुआ है, उन सम्बन्धोमें भी प्रेमका भ्रम होता है, और वहाँ रहता है काम । भारतके सूक्ष्म-दर्शियोको इसका पूरा पता था । वे इसका विश्लेषण कर गये हैं—

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति ।
(बृहदारण्यकोपनिषद् ४ । ५ । ६)

‘यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है, स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है । पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं ।’

यह पढ-सुनकर एक बार तो ऐसा लगेगा कि यह कैसे हो सकता है ? क्या हमारे सभी पारिवारिक, कौटुम्बिक सम्बन्ध प्रेमशून्य

हैं ? नहीं, यह बात नहीं है, परतु गम्भीरतासे विचारनेपर यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होगी । विश्वके धरातलपर विभिन्न देश है । वहाँके नर-नारियोंके जीवनपर हम सूक्ष्म विचार करें । फिर हमे सन्देह नहीं रहेगा । जबतक हमे अपने सम्बन्धियोंसे सुख मिलनेकी सम्भावना रहती है, सुख मिलता रहता है, तबतक प्रेमसूत्र जुडा है । सुखकी आशा मिटी, सुख मिलना बंद हो गया कि बस प्रेम भी टूट गया । न टूटा तो शिथिल तो हो ही जायगा ।

इसीलिये ऋषियोंने सुन्दर मर्यादा बाँधी थी, इन समस्त काममूलक सम्बन्धोंको भगवत्प्रेममे परिणत कर देनेकी सरल एवं अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था कर दी थी । वे आदेश दे गये थे—पत्नीको चाहिये कि वह अपने पतिको प्रभुका रूप मानकर ही उससे प्रेम करे, पतिको चाहिये कि अपनी पत्नीको वह प्रभुका ही रूप समझे । पुत्र पितामें प्रभुकी ही भावना करके उनकी सेवा करे । पिता अपने पुत्रको प्रभुकी अभिव्यक्ति मानकर ही उसका सलालन करे । जहाँ जिससे सम्बन्ध हो, उसमे एकमात्र प्रभुको ही अभिव्यक्त देखकर, इस अनुभूतिको सतत बनाये रखकर ही यथायोग्य सेवामें प्रवृत्त हो । इस भावनाका यह निश्चित परिणाम होना ही है कि बहुत शीघ्र ही हमारा अहङ्कार विगलित हो जायगा, हमारे अदर जो स्पर्धाकी वृत्ति है, दूसरेको फलते-फलते देखकर हम जो ईर्ष्या करने लगते हैं, यह नष्ट हो जायगी, असूया (परदोषदर्शन) की वृत्ति भी समाप्त हो जायगी, आज जो हम गर्वमें भ्रमर लोगोका तिरस्कार कर बैठते हैं, यह भी नहीं रहेगा—

नरेष्वभीक्षणं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात् ।
स्पर्धासूयातिरस्काराः साहङ्गारा वियन्ति हि ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २९ । १५)

तात्पर्य यह कि अनादि सस्कारवश, कर्मवश जब हम जगत्में हैं, तब हमारा लोगोंसे सम्बन्ध हुए बिना रह नहीं सकता । पर यदि हम ऋषियोंकी बाँधी हुई मर्यादाका अनुसरण करे तो इन काममूलक सम्बन्धोंका कोई दोष हमें स्पर्श नहीं कर सकेगा, अपितु हम अपने जीवनके चरम उद्देश्यको भी प्राप्त कर लेंगे । विपको शोधकर हम अमृत बना लेंगे, हमारे इस काम-सम्बन्धका पर्यवसान भगवत्प्रेममे हो जायगा । पर होगा तब, जब हम करना चाहेगे । कहीं आजकी भौति प्रेमका स्वाँग रचने जायँगे, कामका जो प्रवाह वह रहा है, उसीमे सुखका अनुभव कर, प्रभुको बीचमेंसे अलगकर हम भी वह चलेंगे तब तो हो चुका ! आज क्या हो रहा है ? जरा पाश्चात्य देशोंकी ओर दृष्टि उठाकर देखें—यौवनके उन्मादमे युवक-युवती परस्पर मिलते हैं, परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित करते हैं । उन्मादकी दूसरी लहर उठनेतक न जाने प्रेमका कितना कौसा सुन्दर अभिनय चलता रहता है । पर स्वार्थका एक हलका-सा झोका लगा, अपेक्षाकृत तनिक-सा अधिक सुन्दर सुखका दूसरा साधन सामने उपस्थित हुआ कि समस्त प्रेम क्षणभरमें हवा हो जाता है । पत्नी दूसरा पति वरण करती है, पति दूसरी पत्नी स्वीकार करता है । यहाँ भी जो मन पहले था, वह तो ज्यों-का-त्यों ही रहता है, यहाँ भी ठेस लगते देर नहीं लगती तथा इसे भी छोड़कर नया सम्बन्ध स्थापित होता है । एक-दो-तीन-चार—न जाने कितने परिवर्तन

होते रहते हैं। प्रत्येक सम्बन्धके आरम्भमे ही प्रेमका नाटक तो ठीक-ठीक साङ्गोपाङ्ग ही पूर्ण होता है। ऊपरसे देखनेपर ठीक ऐसा लगता है मानो सचमुच ही इस बार दो हृदय सदाके लिये एक होने जा रहे हैं। पर होता वही है जो कामके क्षेत्रमें सदा हुआ करता है। दूसरा प्रलोभन आता ही है, तथा दोनों नये सुखकी खोजमे नया सम्बन्ध ढूँढने चल पडते हैं। और मजा यह है कि ऐसा होना, ऐसा करना सम्यक्ताका अङ्ग माना जाने लगा है, इसका विरोध करनेवाले, सत्यको सामने रखनेवाले व्यक्ति पिछड़े हुए समझे जाते हैं। भारतवर्षपर भी इस उन्मादी लहरकी छाया पडने लगी है। इसका कुछ-कुछ नमूना हम अपने स्कूल-कालेजोंके छात्र-छात्राओमे उच्छृङ्खल युवक-युवतियोमे देख सकते हैं। हमारे ऋषियोने जो सुन्दर मर्यादा बाँधी थी, प्रत्येक काममूलक सम्बन्धको ही विशुद्धतम बना देनेकी जो उनकी व्यवस्था थी, उसके प्रति हमारे अधिकांश शिक्षित युवक-युवतीवर्गका आदर नहीं रहा है। अपने अतीतके गौरवमय अध्यात्मप्रवण इतिहासको वे अविकसित पुरुषोक्ता जीवन मानने लगे हैं। उनका आदर्श बन रहा है आजका वह समाज, जो भोग भोगनेकी पूरी स्वतन्त्रता देता है, जहाँ जिसमे नाना प्रकारके विषयोको प्राप्त करनेकी, विषयोका उपभोग करनेकी घुडदौड़ मच रही है। इस आदर्शके अनुरूप ही वे अपना जीवन-निर्माण करने जाते हैं। उन्हे पुरानी वाते पसन्द नहीं, उन्हे तो नवीनता चाहिये, विकसित युगकी वाते ही वे ग्रहण करेगे और इसीलिये उनके प्रेमका क्षेत्र भी इस युगके अनुरूप ही होता है। कामके नग्न-नृत्यको ही वे प्रेमका विलास मानते हैं और उस प्रेमकी वेदीपर त्रिलिदान

होनेमें अपनेको अत्यन्त गौरवान्वित अनुभव करने हैं । यह है आजकी दशा !

जो हो, हममेंसे जिनका विवेक सर्वथा मर नहीं गया है, जो अपने जीवनको केवल अपने लिये ही नहीं—समाज, राष्ट्र, विश्वके हितकी दृष्टिसे भी उन्नत देखना चाहते हैं, उन्हें तो सावधान ही होना चाहिये । हम कहीं भी प्रेम-सम्बन्ध स्थापित क्यों न करें, सबसे पहले वहाँ प्रभुको लाकर खड़ा करें । इस रूपमें प्रभु ही हमारे सामने हैं, यह भावना अक्षुण्ण बनी रहे । अन्यथा इस भावनासे रहित कोई भी सम्बन्ध काममय सम्बन्धमें परिणत हुए बिना नहीं रहेगा । भले ही उसका प्रारम्भिक रूप कितना भी पवित्र, कैसा भी सुन्दर क्यों न हो । तथा इस भावनाके साथ ही बहुत नहीं तो कम-से-कम एक बातका और ध्यान रखे । प्रेममें स्वार्थ साधनेकी वृत्ति, किसी प्रकारकी भी स्वसुखभावना—हमें प्रेमास्पदके द्वारा सुख मिले—यह भावना नहीं रह सकती । विशुद्ध प्रेममें तो अपना सर्वस्व समर्पणकर प्रेमास्पदको सुखी करनेकी ही वासना रहती है, उससे सुख पानेकी नहीं । जहाँ स्वयं सुख पानेकी इच्छा है, वहाँ प्रेम नहीं—काम है, यह मान लेना चाहिये, किंतु हम इस सम्बन्धमें बहुत बार बोखा खा जाते हैं । हमारा अहंभाव हमें ठगता रहता है । हम समझते हैं, हम तो प्रेम कर रहे हैं, हमारे मनमें एकमात्र प्रेमास्पदके सुखकी ही वासना है, पर वास्तवमें हम करते रहते हैं कामकी उपासना, हमारे अंदर भरी होती है प्रेमास्पदसे स्वयं सुख पानेकी छिपी लालसा । इस भ्रमजालको भी हमें अवश्य तोड़ देना है, इस छिपे स्वार्थकी, स्वसुखलाभकी वृत्तिको शीघ्र-से-शीघ्र कुचल

देनी है। यह कुछ कठिन अवश्य है, पर करनेमें क्या नहीं होता। कामको—स्व-मुखवासनाको प्रेमका स्वाँग देकर हमारे सामने रखने-वाली अहंताको हम एक बार ठीकमे पहचान लें तथा पहचानकर निरन्तर सजग बने रहे। अपने किसी भी प्रेमके सम्बन्धमें हमें अपने अंदर उसकी तनिक भी गन्ध मिले कि वस उसी क्षण इसे विशुद्ध प्रेमके निर्मल सुवाससे ढक दे, हमारा प्यारा सुखी हों, हमें इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये—इस परम पुनीत सरस सुरभित भावनाको जाग्रत्कर अन्य समस्त वृत्तियोंको गान्त कर दें। एक बार, दस बार, सौ बार, हजार बार—जितनी बार हमारी वह अहता, कामकी माया—अँधेरा फैलावे, उतनी बार हम विशुद्ध प्रेम-प्रदीपकी लौको तेजकर, उसके आलोकमें प्रेमास्पदको देखने लग जायँ। फिर तो क्रमशः वह ज्योति उज्ज्वल, उज्ज्वलतर होती जायगी, एव अँधेरा क्षीण-क्षीणतर होता जायगा। किसी दिन यह अँधेरा सर्वथा, सदाके लिये विलुप्त हो जायगा और बच रहेगा एकमात्र हमारा प्रेमास्पद। प्रेमास्पद कौन ? प्रभु ! इसी स्थितिका संकेत इन श्रुतियोंमें प्राप्त होता है—

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ।

(छान्दोग्य० ७ । २४ । १)

‘जहाँ दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वही भूमा (प्रभु) है।’

प्रेम एवं कामका अन्तर हमारे आचार्योंने विस्तृतरूपसे बताया है। प्रेमके महामहिम पुजारियोंने नूत्रम विवेचनके द्वारा समझाया है—किस प्रकार हमारी अहंता कामको प्रेमकी पांशक पहना देती

है । पर उनके विवेचनको, उनके दिये हुए दिव्य उदाहरणोंको हम हृदयङ्गम कर सकें—यह भी बड़ा कठिन है । कामसे अभिभूत हुए हमारे मनमें उन दिव्य भावोंके लिये स्थान ही नहीं, कामका इतना गहरा काला रंग हमसे अविकाशके ऊपर चढ़ गया है । उनका तो उल्लेख ही व्यर्थ है । पर हम जहाँ हैं, हमारा मस्तिष्क जिस धरातलपर क्रियाशील है, उसके अनुरूप विवेचन भी यदि हम ग्रहण करना चाहेंगे तो हमें मिल सकते हैं । एक पाश्चात्य सतने प्रच्छन्न कामका जाल रचनेवाली मनुष्यकी अहताका बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है । यदि हम उन सतकी इन थोड़ी-सी बातोंको ही समझ लें, ग्रहण कर लें और फिर उसके सहारे आत्मनिरीक्षण करते हुए ऊपर उठने लग जायें तो सचमुच देखते-ही-देखते ऊपर उठ ही जायें । हमारा काम बन जाय, स्वार्थकी वृत्तिपर हम विजय पा लें, अहंताके भ्रममें फिर न फँसे । वे सत कहते हैं—

“अहङ्कारका एक रूप और है, जो इतना प्रच्छन्न रहता है कि ऊपरसे अहङ्कारका अत्यन्त विरोधी भाव प्रतीत होता है । इस प्रकारके अहङ्कारसे, उसकी छद्मवेषताके कारण हमें सजग होकर अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह अहङ्कार प्रायः प्रेमके साथ देखनेको मिलता है । यह आवश्यक नहीं कि प्रेमसे स्त्री-पुरुषके दाम्पत्य-प्रणयका ही अर्थ ग्रहण किया जाय, किंतु फिर भी न्यूनाधिक रूपमें प्रबल प्रेमसे तो आशय है ही । अहङ्कारके अन्य रूपोंकी भाँति इसमें भी स्वार्थ एव अहम्मन्यतासे सम्बन्ध रहता है, पर यहाँ इन दोनोंका वेश ऐसा बदला रहता है कि सुतीक्ष्ण दृष्टिके बिना उनको देखना असम्भव है । एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी ।

एक स्त्री अपनी किसी सखीको इतना प्यार करती है मानो उसकी पूजा-सी करती है। अपनी सखीके लिये जो-जो करना सम्भव प्रतीत होता है, उसे करनेमें अपना सारा समय व्यय करती है। उसको मिठाई और फूल देने, उसके लिये सुन्दर-सुन्दर लहंगे आदि बनाने, उसके पास असख्य सन्देश भेजने, उसके फटे कपड़ोंको ठीक करनेसे लेकर उसके केशप्रसाधन आदिमें सहायता करनेतकके सभी कामोंको वह करती रहती है। प्रेमके इस प्रचुर प्रदर्शनको देखकर कुछ लोग कहेंगे, 'अहा ! कैसी आराधना है ! कितना हृदयस्पर्शी ! कितना सुन्दर ! कैसा निःस्वार्थ प्रेम है !' परन्तु क्या सचमुच यह निःस्वार्थ प्रेम है ? जब यह परमासक्त स्त्री सुनती है— किसीने उसकी सखीको मिठाइयाँ दी हैं, उनके लिये कुछ और भी किया है—उस समय यह सुनकर उसे पूर्ण सुखकी अनुभूति होती है क्या ? उसका चित्त विन्कुल शान्त रहता है क्या ? उसके मनमें तो एक विकलता उत्पन्न हो जाती है, जिसको वह बता तो नहीं सकती, पर उससे उसका मन अस्थिर हो जाता है और उसके जीवनमें उल्लास बरसानेवाली ज्योत्स्ना कुछ मन्द पड़ जाती है। न जाने क्यों वह सोच लेती है कि दूसरोंकी दी हुई मिठाइयोंमें उतना स्वाद नहीं होना चाहिये जितना उसकी मिठाईमें है। दूसरोका सन्देशग्रहण उतना सफल नहीं होना चाहिये जितना उसका, दूसरोके दिये हुए केश धोनेवाले चूर्णोंमें उतना असर या सुगन्ध न होना चाहिये जितना उसके दिये हुए चूर्णोंमें। इसी प्रकार अन्य बातोंमें भी उसे दूसरेका हस्तक्षेप नहीं सुहाता। अब कल्पना करें कि कोई अदृश्य व्यक्ति उससे प्रश्न करता है, 'क्योजी ! क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी

सखी सुखी रहे ?' फिर तो वह प्रेमातिरेकसे उत्तर देगी—'कौन कहता है ? मैं तो दिनभर उसे सुखी करनेकी चेष्टामे निरत रहनेके अतिरिक्त और कुछ करती ही नहीं। उसके सुखके लिये तो मैं अपने प्राणोकी भी बलि दे सकती हूँ।' और कहीं वही अद्भ्य स्वरा पुनः पूछ बैठे—'फिर उसको किसी दूसरी सखीके द्वारा सुख मिलनेपर तुम अशान्त क्यों होती हो ?' अब यहाँ तो बस, मौन है। कोई उत्तर नहीं।

“त्रात क्या है ? यह सारी स्वार्थहीनता केवल मिथ्या स्वार्थहीनता है। वास्तवमे यह रूप बदले हुए अहङ्कार है। जबतक वह परमासक्त स्त्री अपनी सखीको सुख देनेका कार्य स्वयं सम्पन्न करती है, आनन्द-ही-आनन्द है, किंतु जहाँ किसी दूसरेने उसे वैसे ही सुख पहुँचाया कि बस, दुःख होने लगता है। जिस प्रकार ईर्ष्याका वास्तविक कारण अहम्मन्यता है, उसी प्रकार यहाँ भी देनेका एकमात्र अधिकार अपनेमें ही सुरक्षित रखनेकी इच्छा भी अहम्मन्यतासे ही उत्पन्न होती है। यह कहना अनावश्यक है कि जहाँ कहीं भी अहम्मन्यता है, वहाँ अहङ्कार है ही, क्योंकि दूसरा पहलेकी ही एक वृत्ति है। यह कहा जाता है, 'वह धन्य है, जो प्रसन्नतापूर्वक देता है।' परंतु कभी-कभी ऐसा कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 'दूसरे व्यक्ति दे सके, प्रसन्नतापूर्वक दूसरोंको यह आज्ञा दे देनेवाला धन्य है।' हमें इसकी चिन्ता क्यों हो कि हमारे प्रेमास्पदको सुख किससे मिलता है ? मुख्य बात तो यह है कि हम जिन्हे प्यार करते हैं, वे सुखी रहें। जगत्में इस प्रकारकी मिथ्या स्वार्थहीनता तथा मिथ्या स्वार्थपूर्ण प्रेमके उदाहरण बहुत हैं।

इसकी झलक नाना प्रकारके सम्बन्धोंमें दीख पड़ती है, जैसे—
माता-पुत्रोंमें, मा-बेटियोंमें, पति-पत्नियोंमें और दो प्रेमियोंमें ।”

इसके पश्चात् वे सत पाश्चात्य देशकी सभ्यताके अनुरूप युवक-युवतियोंमें परस्पर होनेवाले प्रेमका, उनके वैवाहिक सम्बन्धका आदि-अन्त चित्रितकर स्पष्ट कर देते हैं कि किस प्रकार इसमें स्वार्थका नग्न-नृत्य भरा होता है । आज भारतके युवक-युवती अपने पुनीत सिद्धान्तसे, धर्ममय मर्यादासे च्युत होकर, व्यामोहमे पडकर जिस प्रेमका अनुकरण करनेमें गौरवकी अनुभूति करते हैं, वह वास्तवमे कितना मलिन स्वार्थमय सम्बन्ध है—यह सतके उस वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है । वे वतलते हैं—

“प्रदर्शन-प्रिय प्रेमियोकी तो एक जाति होती है, जो इसका पूरा-पूरा चित्र खडा कर देती है । इस प्रकारका प्रेमी (कल्पना कर लें आप स्त्री है तो) आपके लिये दिनमे बीसों बार मरनेको तैयार रहेगा । × × × × × आपको अनुभव होगा—इससे पूर्व संसारमे कभी भी, किसीने भी आपको इतना प्यार नहीं किया, आपकी इतनी पूछ कभी नहीं हुई, और किसीके लिये भी आप उसके जीवनकी इतनी आवश्यक वस्तु सिद्ध नहीं हुई । उसके मुखसे प्रवाहित होनेवाली स्नेहस्यन्दिनी वाणी आपको सातवे आसमानपर चढा देगी । आप बार-बार उसके मुखसे सुनेंगे—‘प्रिय ! विधाताका सम्पूर्ण कौशल तुम्हारी रचनामें ही व्यक्त हुआ है, कहीं भी, किसी भी दृष्टिसे कोई कसर नहीं रही, तुम तो पूर्णताकी खान हो ।’ तथा इस प्रकार अपना समादर करनेवाले, अपनेसे इतना प्रेम करनेवाले व्यक्तिको पाकर आप सुखमय आश्चर्यमें डूब जायँगी । × × × ×

ठीक भी है, इसमें सन्देह नहीं कि यह सुख अपूर्व है। किन्तु अफीम खानेवालेके भी आरम्भकालीन स्वप्न ऐसे ही होते हैं—मत्त आह्लादपूर्ण, चमचमाते हुए मनोराज्य ! पर इसमें पीछे प्रतीत होने-वाली कमियोका क्या रूप है ? आपको पता लगने लगता है कि इस प्रकारसे अत्यन्त चाहे जानेमें भी कोरी मिठास-ही-मिठास तो नहीं है। (और मान लें उस अनुभवके पूर्व ही आपका उसी व्यक्तिसे विवाह हो गया) फिर तो आपको अनुभव होगा कि आप एक जालमें फँस गयी हैं—x x x x x और उस पतिके व्यवहार-वर्तावसे अन्तमें आप इस भयानक निष्कर्षपर पहुँचती हैं कि वह जो प्रेमी (विवाहसे पूर्व) जगत्का सर्वश्रेष्ठ नमूना प्रतीत होता था, आज सर्वाधिक स्वार्थी और एक अत्यन्त असह्य पति बन गया है। दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि आपका ऐसा सोचना ठीक है। क्या आरम्भसे लेकर अबतक वह सचमुच आपको ही प्यार कर रहा था ? नहीं, वह अपने आपको प्यार कर रहा था, उस सुखको चाह रहा था जो उसे आपसे मिल रहा था। उसका अभिप्राय एकमात्र अपने सुख पानेसे था और उसकी समस्त मनोरम वचनावलियों स्वार्थपूर्ण अनुरोधका रूपान्तरमात्र थीं। यदि आपने उसे ठुकरा दिया होता तो वह मरनेको तैयार हो जाता—यह मृत्युका आवाहन आपके लिये नहीं, आपके कारणसे ! उसकी अहम्मन्यतापर पहुँचा हुआ आघात तथा उसकी अभिलाषाओंका मर्दन उसके लिये इतना असह्य हो जाता कि वह आत्मघात करके शान्ति प्राप्त करना चाहता। वह तो सबसे बड़ा अहङ्कारी है, जो अभिलषित वस्तुको न प्राप्त करनेकी अपेक्षा जीवित न रहनेको श्रेयस्कर समझेगा।

साधारण अन्तरके साथ उसके समान सहस्रो व्यक्ति प्रेमका दम भरनेवाले मिलेंगे । 'भग्नहृदय होकर मर जाना !' इस काव्यमय प्रतीति होनेवाले वाक्यका वास्तविक अर्थ क्या है ? स्वार्थके कारण मरना । अलभ्य वस्तुकी निरन्तर चाहसे अभिभूत होकर हृदय टुकड़े-टुकड़े हो जाता है ।”

‘स्वार्थ और अहङ्कार कितने प्रच्छन्न हो सकने हैं और इनमें भी अहङ्कार हमारे चरित्रके प्रत्येक छिद्रों और दरारोमें कीटाणुकी भाँति चुपकेसे पहुँचकर, जहाँ विलकुल भी आशा नहीं है, ऐसे स्थलोंपर सिर निकालकर कैसे झँकने लगता है—यह हम देख ले । इस साँपसे अपनी रक्षा करें । यह बड़ा भयानक है—नहीं-नहीं, यह हमारे समस्त सौन्दर्यको नष्ट कर देनेवाला रोगकीटाणु है । इसे तो ज्ञानरूप शोधक एव निर्विष कर देनेवाले औषधविशेषसे नष्ट ही कर देना चाहिये ।’*

आदरणीय सतके ये उद्गार बड़े ही सरल एव नपे-तुले हैं, पर हैं अत्यन्त व्यापक । जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें इन भावोंकी कसौटीपर अपनी चेष्टाओको कसकर देख ले । हम स्वार्थ (काम) के कण्टकमय वनमें चक्कर लगा रहे हैं, या निर्मल प्रेमके राज्यमार्गपर अग्रसर हो रहे हैं—यह निर्णय हमें मिल जायगा तथा वस्तुस्थिति समझ लेनेपर हम यदि अपना सुधार करना चाहे तो अवश्य कर सकते हैं ।

हमारा भ्रान्त मन इन बातोंका उल्टा अर्थ भी ले सकता है ।

* 'THE INITIALS IN THE NEW WORLD' नामक पुस्तकके एक अंशका भावानुवाद ।

वह हमें कहेगा कि जब सर्वत्र सभी सम्बन्ध स्वार्थसे पूर्ण हैं, इनमें विशुद्ध प्रेम है ही नहीं तो चलो, छोड़ो, सबसे अलग हो जाओ। पर यह भी मनका धोखा ही है। हम अलग जायँगे कहाँ ? जहाँ जायँगे, मन तो साथ रहेगा ! मनमें भरा है ससार, भरी है स्वार्थ-वासना, कामलालसा। बाहरसे सर्वथा वैरागी बनकर भी भीतरसे अत्यन्त कलुषपूर्ण साम्राज्यमें ही हम विचरते रहेंगे, हमारे अंदरसे सबकी अनजानमें ही विषका प्रवाह बहता रहेगा और न जाने कितने प्राणी उसके सम्पर्कमें आकर पतगकी भोंति झुलसनेका प्रोत्साहन पायेंगे। आवश्यकता तो इस बातकी है कि सच्ची नीयतसे आत्मपरीक्षण करके हम कामरूप विषको शोध ढालें। फिर यह अमृत बन जायगा, हमें नवजीवन देकर हमारे लिये, अनेकोंके लिये अनन्त शाश्वत सुख-शान्तिके द्वार खोल देगा।

उपर्युक्त सभी बातोंका सारांश इतना ही है—हमारे प्रत्येक सम्बन्धमें प्रभुकी भावना, उनका अस्तित्व ओतप्रोत रहे। यह हुए बिना हम कामके क्षेत्रमें बरबस गिर पड़ेंगे। स्वार्थकी वासना सर्वथा न रहे, क्योंकि प्रेमराज्यमें इसके लिये कहीं भी तनिक भी स्थान नहीं है। वहाँ तो सर्वत्र, अणु-अणुमें एक ही स्पन्दन है—हमारा प्यारा सुखी रहे। हमारे द्वारा ही प्यारेको सुख मिले, यह भी न रहे, इसके फेरमें हम कभी न पड़ें। यहाँ भी स्वार्थ—कामकी माया है, हमारी अहताका जाल है, इससे भी हमें निश्चितरूपसे बचना है। सच्चे प्रेमीको यदि कभी अपनी स्मृति होती है, तब उस समय भी उसके हृत्तन्त्रीके तारपर तो यही स्वरलहरी झङ्कृत हो उठती है—

‘हमारा क्या है, हम रहे न रहे।’

यह बात भी जान लेनेकी है कि वास्तवमे उपर्युक्त सभी बातें प्रेमसाम्राज्यसे बहुत दूर इधरकी हैं । प्रेमकी भूमिकामे पदार्पण करनेपर, हमारे अदर प्रेमकी प्रतिष्ठा हो जानेपर यह भावना नहीं करनी पडती, स्मरण नहीं करना पडता कि ये (प्रेमास्पद) प्रभु हैं, ये हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं आदि । वहाँ तो प्रेमीका यह नित्यसिद्ध अनुभव है । अभी जो हम भावना कर रहे हैं, हमें जैसी प्रतीति हो रही है, बुद्धिका जैसा निर्णय है, वैसा ही वह अनुभव भी हो, यह बात भी नहीं । वह स्थिति तो ऐसी होती है कि उसके लिये कुछ भी कहना नहीं बनता, किन्तु हमे अभी इतनी ऊँची बातोको जानने-सुनने, सोचने-समझनेकी भी आवश्यकता नहीं । हम तो अभी कीचडमे फँसे हैं, प्रेमके सुन्दर सरोवरमें अवगाहन करनेका स्वप्न देखनेसे क्या लाभ ? हमारे लिये तो यही उचित है, यही नितान्त आवश्यक है—हमारे जितने भी सम्बन्ध है, उन सबमे प्रभुकी भावना करके, भावनाके द्वारा शक्तिसञ्चय करके हम पहले कामरूप कीचडसे बाहर निकल आये । फिर विशुद्ध प्रेमवारिसे—हम जिन्हें प्यार करते हैं, वे सुखी रहें, उनसे हम नहीं—इस विशुद्ध भावजलसे कण्ठतक लगी हुई कीचको धो डाले । और तब अनादिकालसे सिरपर अहताकी गँठोसे भरा बोझा जो लदे हुए है, उसे भी फेंककर, सर्वथा हल्के होकर, प्रेममन्दिरकी ओर चल पडे । इसमें हमारा लाभ तो है ही, जगत्के लिये भी हमारा जीवन—अभी जो अभिशाप बना हुआ है—वरदान बन जायगा । हमारे पथका अनुसरणकर न जाने कितने कृतार्थ होंगे ।



सहज नहीं है, किंतु यदि हम अपने अदर प्रभुकी ढी हुई शक्तियोंका सदुपयोग करते हुए इस प्रयत्नमें तत्परतासे लग जायँ तो थोड़े दिनोंमें ही दृढ अभ्यास होकर हमारी वृत्ति ऐसी बन सकती है कि प्रत्येक परिस्थितिको ही हम अनुकूल, प्रभुके द्वारा भेजी हुई, हमारे मङ्गलके लिये ही आयी हुई अनुभव करने लग जायँ । हम किसी भी वस्तुकी प्राप्तिका उद्देश्य लेकर क्यों न चले, उसकी सफलताके लिये हमारे अदर तीन बातोंका रहना आवश्यक है । वस्तु है, वह लोगोंको मिलती है—मिली है, हमें भी मिल सकती है—यह दृढ विश्वास हमारे अदर हो, यह पहली बात है । वस्तुको पानेके लिये हमारे अदर पूर्ण प्रयत्न (लगन) हो, यह दूसरी बात । तथा तीसरी बात यह कि हमारे अदर मन-बुद्धि-इन्द्रियकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनका प्रवाह जिस-जिस ओर है, उन सब ओरसे हटकर अपने लक्ष्यमें ही नियन्त्रित हो जाय । इन्हींका नाम शास्त्रीय भाषामें श्रद्धा, तत्परता एव सयम है । अत यदि हमें भी प्रत्येक परिस्थितिमें प्रभुकी मङ्गलमयता ढूँढ़ निकालनी हो तो हमारे अदर ये तीन बातें होनी चाहिये । वास्तवमें ही प्रभुका प्रत्येक विधान मङ्गलसे ही भरा होता है, प्रत्येक परिस्थितिकी ओटमें उनके मङ्गलमय हाथ छिपे हैं । लोगोंको ऐसी अनुभूति होती है, हो चुकी है, हमें भी ऐसा अनुभव हो सकता है, यह दृढ विश्वास हमारे अंदर हो । तथा इस विश्वासके अनन्तर इसे प्रत्यक्ष अनुभव कर लेनेके लिये हमारा प्रयत्न औरम्भ हो । प्रयत्नका रूप सर्वथा सबके लिये एक नहीं हो सकता । अधिकारीभेदसे उसके अनेकों रूप बन सकते हैं । पर अधिकांशके लिये लाभकारी एक साधन यह है—

हमारा जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हमें चाहिये कि प्रतिदिन हम कुछ समय निकालकर यथासम्भव किसी एकान्त स्थानमें जा बैठें। सुखपूर्वक बैठकर अपने नेत्र बंद कर लें। निद्रा आ जानेकी सम्भावना हो तो नेत्र खुले ही रखें। तदनन्तर मनकी वृत्तियोंको सब ओरसे बंदोरकर शान्तिसे मन-ही-मन इन भावोंकी आवृत्ति आरम्भ करें—

‘हमारे चारों ओर इस निर्मल आकाशके अणु-अणुमें प्रभु ओत-प्रोत है, वायुके प्रत्येक स्पन्दनमें प्रभु भरे हैं, सूर्य-चन्द्रकी किरणोंमें, अग्निमें प्रभुकी ही ज्योति भरी है, जल प्रभुके ही रससे परिपूर्ण है, पृथ्वीके कण-कणमें प्रभु विराजित है, चर-अचर समस्त प्राणियोंमें प्रभुका निवास है, सबकी सत्ता प्रभुकी सत्तापर ही निर्भर है, हमारी इन्द्रियोंमें समस्त शक्तियाँ सर्वशक्तिमान् प्रभुकी ओरसे आ रही हैं। नेत्र प्रभुकी शक्तिसे देख पाते हैं। कान प्रभुकी शक्तिसे श्रवण करते हैं। त्वचा प्रभुकी शक्तिसे स्पर्शका अनुभव करती है। नासा प्रभुकी शक्तिसे गन्ध ग्रहण करती है। रसना प्रभुकी शक्तिसे रस लेती है। हाथोंमें काम करनेकी शक्ति प्रभुकी ओरसे आ रही है। पैरोंमें चलनेकी शक्ति प्रभु देते हैं। हमारा मन प्रभुकी शक्तिसे मनन करता है। हमारी बुद्धि प्रभुकी शक्तिसे निश्चय करती है। समस्त जगत्में जहाँ जिसमें, जो कुछ भी हलन-चलन क्रिया है, सब प्रभुकी सत्ता एवं शक्तिसे ही हो रही है। प्रभु अनन्त मङ्गलमय है, उनमें सर्वथा सदा मङ्गल-ही-मङ्गल भरा है। प्रभु एव प्रभुका विधान दो वस्तु नहीं है। जो प्रभु है, वही प्रभुका विधान है। विधाता और विधान, लीलामय और लीला एक ही हैं। अतः मङ्गलमय प्रभुका

प्रत्येक विधान अनन्त असीम मङ्गलसे भरा है । जगत्मे जो कुछ हुआ है, हो रहा है, होगा—सबमे मङ्गल भरा है । अबतक मेरे लिये जिसने जो भी जैसी भी चेष्टा की है, कर रहा है, करेगा—सबमें मेरे प्रभु भरे हैं, उनकी मङ्गलमयता भरी है ।’

इस प्रकारके भावोंकी, कुछ देर पुनः-पुनः रस ले-लेकर आवृत्ति करते रहे । इस भावनाका परिणाम यह होगा कि ये विचार हमारे चारों ओर फैल जायेंगे तथा अन्य समयमें भी, जब कि हम दूसरे-दूसरे कार्योंमें व्यस्त रहेंगे, ये रह-रहकर हमारे मनमें स्फुरित होते रहेंगे । जैसे-जैसे एकान्तका अभ्यास बढ़ेगा, वैसे-वैसे व्यवहारके समय ऐसी स्फुरणाएँ अधिकाधिक होने लगेंगी । आज जो हमारा वातावरण प्रभुसे शून्य है, वह प्रभुसे भरने लगेगा । क्षण-क्षणमें क्षुद्र-से-क्षुद्र घटनामें अमङ्गलकी भावना होकर हमें जो प्रति-कूलताकी प्रतीति होती है, वह मिटने लगेगी । पद-पदपर जो हमारा अहङ्कार जाग उठता है, वह भी शिथिल पडने लगेगा । शत्रु-मित्र, दुष्ट-साधु, ऊँच-नीच—सर्वत्र सबमें समानरूपसे एकमात्र प्रभुकी सत्ता स्फुरित होने लगेगी । अन्तमें प्रभुके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता नहीं बच रहेगी । बस, उसी समय हमारी प्रतिकूलताका भी अन्त हो जायगा, हमारा दुःख भी सदाके लिये जाता रहेगा ।

किंतु यह स्थिति प्राप्त होगी पूरी लगनसे इस अभ्यासमे जुट पड़नेपर ही । आज किया, कल नहीं, दो दिन भावना की, चार दिन नहीं—ऐसे अभ्याससे सफलताकी आशा नहीं है । प्रतिदिन

नियमपूर्वक कोई भी व्यतिक्रम न करके ऐसी भावनाके अभ्यासमे जब हम लगेंगे, तभी हमारे उद्देश्यकी सिद्धि होगी। अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति सामने आते ही ठीक अवसरपर ही हमें इस भावनाकी विस्मृति हो जायगी तथा स्वभाववश पूर्वकी भौति ही प्रतिकूलताका अनुभव करके हम दुखी होते रहेंगे।

इस अभ्यासका क्रम निम्नता रहे, इसके लिये अपने अदर प्रभुकी दी हुई शक्तियोंका सदा सदुपयोग हो, दुरुपयोग कदापि न हो जाय, इसके लिये भी सावधानी रखना आवश्यक है। जबतक हममें अहङ्कार है, तबतक हम सदा सजग रहें—व्यवहारके समय हमारे नेत्र सदा उचित, आवश्यक, पवित्र, निर्मल दृश्यको ही अपने अदर भरे, कदापि अनुचित, अनावश्यक अशुद्ध मलिनको स्थान न दे। श्रवणेन्द्रिय सदा पवित्र शब्द ही ग्रहण करे, कदापि अश्लील अनावश्यक शब्दोंकी ओर न झुके। घ्राण, त्वक्, रसना, कर्मेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि—सभी शुभमें प्रवृत्त हो, भूलकर भी घ्राण शौकीनीके लिये किसी गंदी गन्धसे न जुड जाय, ऐश-आरामकी भावना लेकर त्वक् कदापि अनुचित अवैध स्पर्शमें न सलग्न हो जाय, स्वादकी आसक्तिवश रसना अखाद्यमें तो प्रवृत्त हो ही नहीं, खाद्यमें भी चटोरी न बन जाय। कर्मेन्द्रियाँ अनावश्यक क्रियाशील कदापि न हो, हमारा मन अनर्थक सङ्कल्प-विकल्पोंमें न लगे। बुद्धि क्षणभरके लिये भी व्यर्थ बातोंका निर्णय देनेमें, निश्चय करनेमें न फँस जाय। इस प्रकार हमारे अदर प्रभुकी दी हुई सम्पूर्ण शक्तियोंको हम नियन्त्रित करके अपने निश्चित उद्देश्यकी सिद्धिमें लगा दें। इनका सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। फिर प्रत्येक घटनाको ठीक-ठीक ग्रहण करनेकी—

प्रभुसे जुडी हुई देखनेकी योग्यता हमारे अन्दर उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी । क्षोभ—दुःखके प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर भी क्रमशः दुःखका भाव कम होता जायगा ।

हम कह सकते हैं कि ठीक है, बाहरकी घटनाओमें तो हमारा प्रतिकूल भाव ही हमारे दुःखमें हेतु है, उसके प्रति भावना परिवर्तन करनेसे हमारा दुःख मिट सकता है, किंतु मान लें, हमारे शरीरमें कहीं भयङ्कर फोडा हो गया, उसकी पीडासे हम व्याकुल हो रहे हैं। हमें दुःख हो रहा है । ऐसे अवसरपर तो हमें प्रतिकूलताकी अनुभूति होगी ही, दुःख होगा ही । यह दुःख तो घटनाजन्य ही है, इसमें हमारा भाव कैसे हेतु हुआ ? तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ भी हमारे दृष्टिकोणका ही अन्तर है । साथ ही यह भी समझ रखनेकी बात है कि पीडाका अनुभव होना और बात है तथा दुःख होना दूसरी बात है । यदि हमारा दृष्टिकोण बदल जाय, इस घटनाको भी हम ठीक-ठीक ग्रहण करना सीख जायँ तो पीडाकी अनुभूति तो होगी, पर दुःख हमें सर्वथा नहीं होगा । यदि किसी प्रकार फोडेके प्रति हमारी यह भावना हो जाय कि 'यह तो प्रभुका प्रसाद है, दयामयके विधानसे आया है, और आया है मेरे दुष्कर्मोंका भार हलका करनेके लिये, नहीं-नहीं, स्वयं ही प्रभु इस रूपमें मुझे स्पर्श कर रहे हैं'—ऐसा हमारा दृष्टिकोण हो जाय तो फिर सच माने, पीडाकी अनुभूतिके साथ-ही-साथ एक परम सात्त्विक सुखकी अनुभूति होगी, दुःख तो रस्तीमात्र भी नहीं होगा । ऐसी भावना हो जाना अथवा इस भावनाकी बातको अच्छी तरह समझ लेनामात्र भी कठिन अवश्य है । पर कठिनाई भी इसीलिये है कि हमने कभी भी सच्चे मनसे प्रभुकी

मत्ताको स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिये यह ध्रुव सत्य सिद्धान्त है। उन्हें इसके आचरणमें ऐसी भावना करनेमें परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। प्रभुके अस्तित्वकी स्वीकृति उन्हें स्वतः ऐसे भावना-राज्यमें पहुँचा देती है।

बृहदारण्यक श्रुति है—

एतद् वै परमं तपो यद् व्याहितस्तप्यते परमं ह्येव लोकं
जयति य एवं वेद ।

‘कोई ज्वरादि व्याधियोंसे अत्यन्त पीड़ित है, शरीर ज्वरके तापसे जल रहा है। उसे ऐसी भावना करनी चाहिये कि यही मेरे लिये परम तप है, मैं तप कर रहा हूँ। जो ऐसा मानता है, वह इस भावनाके फलस्वरूप परम लोकको जीत लेता है।’

ऐसे ही यदि हम फोड़ेमें अथवा शरीरकी अन्य व्याधियोंमें, शरीरसम्बन्धी प्रत्येक प्रतिकूल घटनामें प्रभुके प्रसादकी, स्वयं प्रभुकी भावना करके उस घटनाके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल ले, तो पीडाकी अनुभूति होनेपर भी हमारा दुःख तो निश्चय ही जाता रहे।

लोकमें भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक व्यक्ति आत्मशुद्धिके लिये किसी दिन व्रत रक्खकर उपवास करता है, वही किसी दिन सयोग-क्रममें भोजनकी व्यवस्था न होनेके कारण भूखा रह जाता है। दोनों ही दिन भूखकी पीडा तो उसे समान भावमें होती है, किन्तु व्रतवाले दिन वह पीडाको सुखपूर्वक महन करता है, साथ ही व्रतका पालन हो रहा है, इस सुखका अनुभव करने हुए, उस दिन होनेवाले उत्सवमें वह उल्लासपूर्वक मम्मिलित भी होता है। भूखकी पीडा

होते हुए भी उसके अन्तरमें दुःखकी छाया भी नहीं है। पर वही व्यक्ति दूसरे दिन भोजन न मिलनेके कारण दुःखी है, चिन्तित हो रहा है कि क्या करें, भोजनकी व्यवस्था अभीतक नहीं हो सकी है, सन्ध्या होने जा रही है। उस दिन अन्य कार्योंमें भी उसका मन नहीं लगता। भूखकी पीडासे मन-ही-मन व्यथित होकर वह सारा उत्साह खो बैठता है। ऐसा क्यों? भूखका अनुभव तो दोनों दिन समान भावसे ही होता है; ऐसा इसीलिये कि पहले दिन वह भूख, भूखकी पीडा उसके लिये अनुकूल है और दूसरे दिन प्रतिकूल। दृष्टिकोणमें भेद होनेसे ही एक ही प्रकारकी घटना एक दिन सुख और दूसरे दिन दुःखका कारण बन जाती है। कदाचित् वह दृष्टिकोण बदल सके, ऐसा सोच ले कि 'मङ्गलमय प्रभुके विधानसे ही आज मुझे भोजन नहीं मिला, इसमें निश्चय ही मेरा कोई अत्यन्त मङ्गल छिपा है' तो वह तत्क्षण सुखी हो जाय।

अब्रतकके विवेचनका सारांश यह है कि घटनामें दुःख नहीं है। घटनाके प्रति प्रतिकूल भावना ही हमारे दुःखका सृजन करती है। अतः यदि हम अपना दुःख मिटाना चाहते हों तो घटनाकी ओर न देखकर उसमें ओतप्रोत प्रभुकी ओर दृष्टि स्थिर करें। उनकी ओर दृष्टि लगी कि बस, वे-ही-वे दीखने लगेंगे, सर्वत्र उनके ही मङ्गलमय कर-कमल काम करते दीखेंगे। फिर हमारी प्रतिकूलता मिट जायगी और हमारा दुःख भी सदाके लिये समाप्त हो जायगा। दुःखनाशका यही अमोघ उपाय है।



भगवान्की ज्योति जगा लें

जब हृदयमें भगवान्की ज्योति जग उठती है, तब दीखता है कि समस्त विश्व प्रभुमें ही स्थित है एव विश्वके कण-कणमें प्रभु अवस्थित हैं। फिर अपने-परायेका भेद जाता रहता है, शत्रु-मित्रकी भावना नष्ट हो जाती है, सर्वत्र एक अखण्ड आत्मसत्ता, भगवत्-सत्ताकी ही अनुभूति होती है। उस स्थितिमें सागरकी लहरे, पक्षियोंका कलरव, वृक्षोंकी ओरसे झुर-झुरकर वहनेवाली वायु, पर्वतशिखरोंपर झरते हुए झरने, पर्वतोंसे निकली नदियाँ, सूर्यकी प्रकाशमयी किरणें, चन्द्रकी शीतल चाँदनी, नीला आकाश, नीले, उजले, काले, पीले बादल, हरे-भरे खेत, रंग-विरंगे फूल, फूलोंपर गुन-गुन करते हुए भौरे—प्रत्येक वस्तु हमारे नेत्रोंके सामने भगवान्की पद्म सुन्दर आनन्दमयी लीलाके अङ्ग बनकर—भगवान् बनकर उपस्थित

होती है। इसी प्रकार शरीरकी व्याधि, व्याधि मिटकर स्वास्थ्यकी प्राप्ति, अन्न-वस्त्रके अभावमें होनेवाला कष्ट, अनेक स्वादिष्ट पदार्थोंके भोजन करनेका एव सुन्दर वस्त्रोंसे सुसज्जित होनेका सुख, जनताके द्वारा किया हुआ अपमान, जनताके द्वारा दी हुई फूलमालाओंकी भेंट, सर्वत्र फैली हुई निन्दा, सर्वत्र होनेवाली प्रशंसा, पुत्रके जन्मका उत्सव, जवान बेटेकी मृत्यु, बसे हुए गाँवका उजड़ जाना, उजड़े हुए गाँवका बस जाना—इन सबमें हमें भगवान्‌का मङ्गलमय स्पर्श प्राप्त होता है, भगवान्‌की लीला दीखती है। फिर हमारे ऊपर कोई बन्धन नहीं रहता, यह करो, यह मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, इस समय करो, इस समय मत करो—यह नियन्त्रण उठ जाता है, क्योंकि हमारी चेष्टाएँ भी उस अवस्थामें कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती, हमारे अंदरसे भी भगवान्‌की ही इच्छा व्यक्त होती है, अतः ये भी उस महान् लीलाकी अङ्गभूत बन जाती हैं।

किसी गुफामें हजार वर्षसे, लाख वर्षसे, अन्धकार भरा हो, किंतु उसमें हम किसी प्रकार एक ऐसा छेद बना दें कि सूर्यकी किरणें प्रवेश करने लग जायँ। फिर तो गुफाका अन्धकार उसी क्षण जाता रहेगा। लाखों वर्षोंसे रहनेवाला अन्धकार यह नहीं कहेगा कि मैं यहाँ इतने दिनोंसे था, मैं तो धीरे-धीरे जाऊँगा, प्रकाश आया कि अन्धकार विलीन हुआ। इसी प्रकार हृदयमें भगवान्‌की दिव्य ज्योतिके उदय होनेभरकी देर है। जिस क्षण वह उदय हुई कि हमारा अनादिकालीन अज्ञान भी नष्ट हो जायगा तथा हम सर्वत्र भगवान्‌की सत्ताका अनुभव कर निहाल हो जायँगे।

कितु जबतक ऐसा नहीं हुआ है, अज्ञानका अँधेरा नहीं मिटा है, प्रभुकी ज्योति नहीं उदय हुई है, तबतक हमपर नियमोंका बन्धन है कि हमें अमुक व्यवहार ऐसे इस समय करना चाहिये, इसका परिणाम सुन्दर होता है, अमुक व्यवहार ऐसे इस समय नहीं करना चाहिये, इसे करनेका फल बुरा होता है । हम नहीं जानें, नहीं भी स्वीकार करे, मनमाना करने लग जायँ, फिर भी जो नियमका बन्धन है, वह तो रहेगा ही । जो तैरना नहीं जानता, उसे गहरे जलमें नहीं जाना चाहिये, जायगा तो डूब जायगा— यह नियम तैरना न जाननेवाले अवोध शिशुपर, उसके नहीं माननेपर भी गहरे जलमें जानेसे लागू पडता ही है । ऐसे ही हमारे न माननेपर भी नियम तो काम करता ही है । अत बुद्धिमानी इसीमें है कि हम अवश्य लागू होनेवाले नियमोंको पहलेसे ही मानकर चलें, जगन्नियन्ता प्रभुके द्वारा निर्धारित नियमोंको स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ें । इसका परिणाम यह होगा कि हमारी जीवनयात्रा सुख-शान्तिसे आगे बढ़ेगी, परमानन्दमय प्रभुसे मिलनेका प्रशस्त मार्ग हमें प्राप्त हो जायगा तथा अन्तमें हम उनसे मिलकर कृतार्थ हो सकेंगे ।

हम कह सकते हैं कि जब ऐसी बात है, तब हम निर्णय कैसे करें कि हमें कौन-सा व्यवहार कब कैसे करना चाहिये । तो इसके लिये एक व्यापक नियम यह बना लें कि हम जो व्यवहार जैसे जिस समय दूसरोंके द्वारा अपने प्रति आचरित देखना चाहते हैं, वही व्यवहार उसी प्रकारमे उस समय हमें दूसरोंके प्रति करना

चाहिये । इसका परिणाम सुन्दर होगा । तथा हम दूसरोंके द्वारा जो व्यवहार जिस कालमें जिस ढंगसे अपने प्रति होना पसंद नहीं करते, उसे दूसरोंके प्रति उसी ढंगसे वैसे ही समयमें कभी नहीं करना चाहिये । उसे करनेका फल बुरा ही होगा । इस नियमको धारण कर लेनेपर निर्णय होनेमे न तो ढेर लगेगी, न कमी भूल ही होगी ।

अब सोचकर देखें—हम चाहते हैं कि सभी सदा सब बातोंमें हमसे सत्य बोलें, कोई व्यक्ति कभी किसी प्रसङ्गमें हमसे झूठ न बोले । लेन-देनमें सभी हमसे सच्चा व्यवहार करे—साग बेचनेवाले हमें सच्चा भाव बतायें, पूरा तौलें, फल बेचनेवाले अच्छे फल दें, ठीक-ठीक मूल्य लें; मोदी सभी वस्तुएँ अच्छी दें और उचित मूल्य लें, कोई भी हमें तनिक भी न ठगे । सभी हमसे सरल व्यवहार करें, कोई भी हमसे कपट न करे । हम ऐसा चाहते हैं या नहीं ? कोई भी यदि कभी किसी प्रसङ्गमें हमसे झूठ बोलता है, हमें ठगता है, हमसे कपट करता है, तो हमें बुरा लगता है या नहीं ? तो बस, फिर दृढ़तापूर्वक व्रत लेकर हम भी यह करें कि सदा सभी बातोंमें सबसे सत्य बोलें, किसीसे भी कभी किसी प्रसङ्गमें झूठ न बोलें । सबके साथ सच्चा व्यवहार करे, किसीको कभी न ठगें । हमारा सबके प्रति सरल व्यवहार हो, किसीके प्रति कपट न हो ।

हम चाहते हैं कि सभी जगह हमें सबके द्वारा अधिक-से-अधिक शारीरिक सुविधा प्राप्त हो, कोई भी हमें कभी शारीरिक कष्ट न देगा । हम जहाँ जायँ, वहाँ अमृतभरी वाणीसे हमारा स्वागत हो;

सबकी वाणीमें हमारे प्रति आदर भरा हो, प्रेम भरा हो, कोई भी हमें कटु वाणी न कहे, हमारा चित्त न दुखाये । मनसे सभी हमारा मङ्गल चाहें, हमारे लिये शुभ चिन्तन करें, कोई भी हमारा अनिष्ट न सोचे । बस, ठीक इसी प्रकार हमें भी चाहिये कि हमारे सम्पर्क-में आनेवाले प्रत्येक प्राणीको हम अधिक-से-अधिक शारीरिक सुविधा दे, किसीको भी हमारे द्वारा शारीरिक कष्ट न पहुँचे । जो भी हमसे मिले, उनके लिये हमारी वाणीमें मधु भरा हो, मधुभरी वाणीसे हम उनका आतिथ्य करे, उनके साथ बातचीतमें हमारी वाणीसे आदर एवं प्रेम झरता रहे, किसीके प्रति भूलकर भी हम कटु वाणीका प्रयोग न करें, कड़वी बात कहकर किसीका भी चित्त न दुखाये । मनसे सभीके लिये मङ्गल सोचें, सभीके लिये शुभ भावना करे; भूलकर भी कभी किसीका अमङ्गल, अशुभ, अनिष्ट होनेकी इच्छा न करे ।

हमपर जब विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, उस समय इच्छा होती है कि सभी हमें हृदयसे लगा लें, सभी हाथ बढ़ाकर हमारे आँसू पोंछे, हमारे पास जो वस्तुएँ नहीं हैं, उनकी पूर्ति कर दे, उस समय कोई हमारी उपेक्षा न करे । जब हमें ऐसी इच्छा होती है, तब हमारे जीवनका भी यही व्रत होना चाहिये कि किसीको विपत्तिमें पडा देखकर—विशेषतः जिसकी सँभाल करनेवाला कोई न दीखे—उसे हम अपने हृदयसे लगा लें, उसके आँसू पोंछनेकी यथासाध्य चेष्टा करे, उसके जो अभाव हैं, यदि हम उन्हें पूरा कर सकने हों तो अवश्य पूरा कर दें; ऐसा कोई भी व्यक्ति ध्यानमें आनेपर हम उसकी कदापि उपेक्षा न करें ।

सारांश यह कि जबतक हमे सर्वत्र भगवद्भावना नहीं होन लगी, तबतक हमपर नियमोका बन्धन है; और इसीलिये हमे सावधान होकर उपर्युक्त कसौटीपर, अपनी चेष्टाओको कसकर ही व्यवहारमे उतरना चाहिये । पर इतनेसे ही हम भगवान्के आलोकमें जा पहुँचेंगे, ऐसी बात नहीं है । इसके लिये हमे और भी आगे— बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा ।

यहाँ जगत्का अत्यन्त स्थूल प्रकाश हमें कैसे मिलता है, हम इसपर विचार करें । दीपक हो, स्नेह (घृत या तेल) हो, स्नेहमें सनी बत्ती हो एव फिर इस बत्तीका किसी जलते हुए दीपसे संयोग हो जाय । इतनी बात होनेपर हमें जगत्का स्थूल आलोक प्राप्त होता है । आलोक प्राप्त होनेपर भी यदि हमारी आँखें नहीं—आँखें नष्ट हो गयी हैं या मोंतियाबिंद हो गया है—तो हमे उस ज्योतिकी अनुभूति नहीं हो सकती । अतः सबसे पहले आँखें होनी चाहिये ॥ इसी प्रकार प्रभुका आलोक पानेके लिये भी, एक विशेष प्रकारके दीप, स्नेह आदि एव आलोक-दर्शनके उपयुक्त आँखें आवश्यक हैं, हमारे अदर श्रद्धा (विश्वास) की निर्मल आँखें हो, इन्द्रियों दीपका काम करने लगे, भगवत्प्रेमकी स्निग्धता उन दीपोंमे भरने लगे, मनरूपी बत्ती उसके संयोगमें आकर स्निग्ध बन जाय तथा यह बत्ती प्रभुका आलोक विस्तार करनेवाले किसी सच्चे सतरूपी प्रज्वलित दीपसे एक बार जुड़ जाय तो भगवान्की ज्योति हमारे अदर भी निश्चय प्रकट हो जायगी ।

पहली बात तो यह है कि भगवान्की सत्तामें, उनके अनन्त सामर्थ्यमें, उनके अनन्त दिव्य गुणोंमें हमारी अचल अडिग श्रद्धा

हो । भगवान् अवश्य है, वे सब कुछ करनेमें समर्थ हैं, वे करुणा-सिन्धु है, प्रेमसमुद्र है, सौन्दर्य-सागर है, उनमें सत्य, क्षमा, शुचिता, कृतज्ञता, दक्षता, स्थिरता, सहिष्णुता, गम्भीरता, समता, मङ्गलमयता, प्रेमव्ययता आदि अगणित अनन्त सद्गुण अपरिसीम मात्रामें नित्य वर्तमान रहते हैं, एक क्षुद्र दर्पणमें सम्पूर्ण आकाशका प्रतिबिम्ब ग्रहण करना जैसे असम्भव है, वैसे ही प्रभुके अस्तित्वकी, उनके अनन्त अपरिसीम सौन्दर्य-माधुर्य आदि सद्गुणोंकी पूरी-पूरी कल्पना हमारे क्षुद्र मन-बुद्धिमें समा ही नहीं सकती,—इस बातपर हमारा दृढ विश्वास हो । हमारे इस विश्वासको सशयकी छाया कभी छूने न पाये, किंतु हमारा दुर्भाग्य कहे, या क्या कहे—हमारे अदर प्रभुपर विश्वास ही नहीं है । (हजारमें एक व्यक्ति भी कठिनतासे मिलेगा, जो सचमुच भगवान्में विश्वास रखता हो ।) हम पापपर विश्वास कर लेते हैं, किसी मनुष्यपर अथवा अपने पुरुषार्थ (अहङ्कार) पर हमारा भरोसा हो जाता है, पर प्रभुपर नहीं । हम सोचते हैं—हमारा अमुक कार्य है, इसमें इतना झूठ तो हमें बोलना ही पड़ेगा, बिना झूठ बोले काम होनेका ही नहीं, दूसरे शब्दोंमें झूठ (पाप) पर हमारा विश्वास है कि झूठ हमारा काम कर देगा । हम देखते हैं कि हमारा यह कार्य अमुक सज्जन कर सकते हैं तथा उनपर विश्वास करके उनकी आगा लगाये रहते हैं । अथवा सोचने लगते हैं—अजी चलो, रक्खा ही क्या है, हम करके छोड़ेंगे अर्थात् अपने अहङ्कारका हमें भरोसा है । हम भगवान्की ओर नहीं ताकते कि वे हमारा कार्य कर दें । सच तो यह है कि हमारा वह कार्य भी, जिसे हम झूठ बोलकर सफल करने जा रहे हैं, मनुष्यकी

अहङ्कारकी शक्तिसे पूरा कर लेनेका मनसूत्रा बाँध रहे है । पूरा होगा भगवान्की शक्ति, प्रेरणा एवं इच्छासे ही, किंतु हमारा अविश्वास इस सत्यको हमपर प्रकट नहीं होने देता और हमें ऐसा दीखता है कि झूठसे काम होगा, वे कर देगे, हम कर लेगे । इस प्रकार हम सदा उत्तरोत्तर भगवान्के आलोकसे दूर ही हटते रहते है, उस ओर नहीं बढ़ते । कभी विश्वास करते भी हैं तो वह डगमग करता रहता है । नेत्रोंकी ज्योतिमें मोतियाबिंदकी तरह उस विश्वासमें सशय समाया रहता है । मोतियाबिंद होनेपर जैसे ज्योति धुँधली हो जाती है, सामनेकी वस्तु हम स्पष्ट देख नहीं पाते, वैसे ही विश्वासमें संशय घुस जानेपर—‘प्रभु करेंगे कि नहीं ? क्या पता प्रभुने किया है या अमुक व्यक्तिकी सहायतासे हमारा काम हो गया ?’—इस प्रकारका सशय रहनेपर विश्वाससे होनेवाले प्रभुके चमत्कारको सामने रहनेपर भी हम स्पष्ट नहीं देख पाते । इसीलिये सशयहीन दृढ़ विश्वास करनेकी आवश्यकता है । ऐसा निर्मल, स्थिर विश्वास होनेपर ही सभी बातोंमें प्रभुकी ओर ताकनेकी हमारी प्रवृत्ति होगी, हम उनकी ओर देखना चाहेंगे, देखेंगे तथा देखनेपर आगे या पीछे उनका आलोक हमारे नेत्रोंमें व्यक्त होकर ही रहेगा । इस प्रकार बुद्धिमें भगवान्की सत्ताका दृढ़ निश्चय होना ही है श्रद्धाकी निर्मल आँख ।

दूसरी बात यह है कि हम इन्द्रियोंको विषयोंसे लौटाकर उनका मुख प्रभुकी ओर करें । जिस प्रकार उलटाये हुए दीपमें तेल रक्खा नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रभुकी ओर पीठ देकर विषयोंकी ओर

मुख रखनेवाली इन्द्रियोंमें भगवत्प्रेमकी स्निग्धता आ नहीं सकती । हमारी इन्द्रियोंका मुख उल्टा हो रहा है, प्रभुसे उल्टी दिशाकी ओर मुख करके ये दौड़ रही हैं—नेत्रोंको सुन्दर रूप, नासाको मीठी सौरभ, कानको मधुर शब्द, रसनाको मधुर रस, त्वक्को सुकोमल स्पर्श अत्यन्त प्यारा है । सुन्दर सुरभित मधुर सुकोमलके प्रति प्रीति बुरी भी नहीं है । पर सुन्दरता, सुवास, मधुरता, कोमलता आदि यहाँ हैं कहाँ ? यह तो भ्रम है ! हम थोड़ी देरके लिये विवेकसे विचार करें—हमारी इन्द्रियों किसीके (परस्पर स्त्री-पुरुषोंके) सुन्दर रूपपर, सुरीले कण्ठपर, इत्र या सेटसे सुवासित अङ्गोंके सुवासपर, अङ्गोंके कोमल स्पर्श आदिपर न्यौछावर होने लगती हैं । पर मान ले, कलको उसकी मृत्यु हो जाय तो फिर वह सुन्दरता, सुवास आदि नष्ट क्यों हो जाते हैं ? शरीर तो वही है, सुन्दरता क्या हो गयी ? मुख भी है, जीभ भी है, पर सुरीला कण्ठ लुप्त क्यों हो गया ? कितना भी इत्र-सेटसे उस मृत शरीरको चुपड दें, पर उसमें सडन क्यों आने लग गयी ? अङ्ग ऐंठ क्यों गये ? अब यदि हमारा विवेक ठीक-ठीक काम करता है तो हम सहजमें ही समझ सकते हैं कि जबतक जीवके रूपमें प्रभुकी सत्ता, प्रभुकी आंगिक ज्योति उस शरीरमें, इन्द्रिय-गोलकमें व्यक्त थी, तभीतक वह सुन्दरता थी, सुरीली वाणी व्यक्त हो रही थी, सुवास झरता था, कोमलता लहराती थी । वह सत्ता अव्यक्त हुई कि ये सब भी उसीके साथ अव्यक्त हो गये, चले गये । वास्तवमें सौन्दर्य, माधुर्य, सौरभ-सुवास प्रभुका था, प्रभुके रहनेपर शरीर-इन्द्रियोंमें उनकी छाया पड रही थी, हमारी इन्द्रियोंको भ्रम हो रहा था कि वह सुन्दरता आदि इस शरीरकी हैं । अब प्रभु

नहीं है, इसलिये ये भी नहीं देख रहे हैं। अतः ये सत्र प्रभुमें हैं, शरीरमें नहीं। प्रभु नित्य हैं, उनके सौन्दर्य-माधुर्य आदि गुण भी नित्य हैं, शरीर नश्वर है, सड़-गलकर मिट्टीमें मिल जानेवाली वस्तु है। इस विवेकको जाग्रत् करके नश्वर वस्तु, नश्वर भावसे चिपट हुई इन्द्रियोंको हमें वहाँसे अलग कर प्रभुकी ओर करना पड़ेगा। जब इनका मुख इधरसे मुड़कर प्रभुकी ओर हो जायगा, भ्रमकी ओरसे हटकर जब ये सत्यस्वरूप प्रभुकी ओर ताकने लगेंगी, तब ये प्रभुका आलोक प्रकट करनेके लिये दीपकका काम देंगी, भगवत्-प्रेमकी स्निग्धता इनमें एकत्र हो सकेगी। दूसरे शब्दोंमें हमारी इन्द्रियोंमें विषयोके प्रति वैराग्य होना ही यहाँ उनका दीपकका काम करने लग जाना है।

इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम सबसे सम्बन्ध तोड़कर 'वैरागी बाबा' बन जायँ। ऐसा करना तो इस पद्धतिको सर्वथा नहीं समझना है। इसका तात्पर्य यह है कि नश्वरमें अवस्थित अविनाशीको हम ढूँढ़ निकाले। सुन्दर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—इन सबका जहाँ उद्गम है, वहाँ—उन प्रभुकी ओर हमारी इन्द्रियाँ केन्द्रित हो।

इन्द्रियोंका मुख भगवान्की ओर हो जानेपर तीसरी एवं चौथी बात अपने-आप आरम्भ हो जायगी। विषयोंके सम्बन्ध एव प्रभुके सम्बन्धके परिणाममें एक भारी अन्तर यह है कि विषयोंके प्राप्त होनेपर जब इन्द्रियाँ उनका उपभोग करने लगती हैं, तब बस, उसी क्षणसे ही रस (आनन्द) की मात्रा कम होने लग जाती है। किसी

रूपके प्रति हमारा अत्यधिक आकर्षण है, पर जहाँ उस रूपका उपभोग हमारी आँखोको मिलने लगा कि बस, उसी क्षणसे दर्शनका रस कम होने लगता है । भले ही प्रारम्भमें यह लक्षित न हो, पर यह ध्रुव सत्य सिद्धान्त है । किंतु इससे ठीक विपरीत यदि एक बार भी हम सर्वत्र व्याप्त प्रभुके नित्य सुन्दर रूपकी ओर आकर्षित हो जायँ तो यह आकर्षण नित्य निरन्तर बढ़ता ही रहेगा, दर्शन-सुखकी मात्रा निरन्तर बढ़ती रहेगी । एक नवयुवक किसी रूपवती युवतीको देखकर मुग्ध हो रहा है तथा प्रभुके आलोकका अनुभव करनेवाला एक सत अपनी काली-कल्लटी पत्नीको देखकर प्रेममे डूब रहा है—इन दोनोंमें युवकका युवतीके प्रति आकर्षण, प्रेम, उससे प्राप्त होनेवाला सुख तो मिलनके प्रथम क्षणसे हासकी ओर बढ़ रहा है, किंतु संतका आकर्षण, प्रेम-सुख प्रतिक्षण वृद्धिकी ओर जा रहा है । ऐसा इसीलिये-कि वह युवक उस युवतीके बाह्य नश्वर सौन्दर्यको देख रहा है तथा सत उस काली-कल्लटी पत्नीके अन्तरमे व्यक्त प्रभुके नित्य नवीन हो जानेवाले सौन्दर्यको निहार रहा है । अत जहाँ इन्द्रियोंका मुख प्रभुकी ओर हुआ कि इनका आकर्षण प्रभुकी ओर क्षण-क्षणमें बढ़ने लगेगा, यह आकर्षण प्रेममें परिणत होने लगेगा, प्रेमजनित स्निग्धतासे ये भरने लगेगी । माथ ही यह नियम है कि मनके बिना इन्द्रियों काम नहीं कर सकतीं, जहाँ इन्द्रियों काम कर रही हैं, वहाँ मन भी निश्चय है ही । जब इन्द्रियाँ विषयोंमें भटक रही थीं, तो उस समय हमारे मनकी वृत्तियाँ भी बिखरे तन्तुओंकी भाँति इधर-उधर फैली रहती थीं, जब इन्द्रियाँ मुडकर एक प्रभुकी ओर उन्मुख हो गयीं, तब मनकी वृत्तियाँ भी एकाग्र हो

गयीं, मानो बिखरे हुए तन्तु एकत्र होकर, जुडकर वत्तीके रूपमें परिणत हो गये । साथ ही यदि हमारी इन्द्रियोंमें भगवत्-प्रेमकी स्निग्धता भरती जा रही है तो निश्चय है कि उनके साथ रहनेके कारण हमारा मन भी उस स्निग्धतासे सनता जा रहा है । यही है इन्द्रियरूप दीपका स्निग्ध पदार्थसे भर जाना एव मनरूपी वत्ती (आलोक ग्रहण करनेके साधन) का स्निग्ध हो जाना । इसीको कहते हैं भगवान्में राग हो जाना, रागयुक्त मनका भगवान्में एकाग्र हो जाना ।

अब बस, पाँचवीं बात शेष रही है । वह है इस दीपका किसी प्रज्वलित दीपसे ससर्ग करा देना । अर्थात् हमारा रागयुक्त एव एकाग्र हुआ मन किसी ऐसे संतके मनसे जा जुड़े, जिसमें प्रभुकी ज्योति जल रही हो तो यह भी अपने-आप प्रज्वलित हो जायगा । यदि हमारी बुद्धिमें भगवान्की सत्ताका दृढ़ निश्चय हो, इन्द्रियोंमें विषयोंके प्रति विराग हो, भगवान्के प्रति राग हो, रागयुक्त मन भगवान्में एकाग्र हो रहा हो तो अपने हृदयमें जलती हुई प्रभुकी ज्योतिको हमारे मनसे छुलाकर ज्योति जगानेवाले सत अपने-आप हमें ढूँढते हुए आ पहुँचते हैं, नहीं, नहीं, स्वयं प्रभु ही उन सतके रूपमें आकर, हृदयसे लगाकर हमारे हृदयको भी आलोकित कर देते हैं । फिर अनुभव होता है—हम नहीं, हमारा कुछ नहीं, एकमात्र वे ही वे हैं, सर्वत्र उन्हींकी लीला चल रही है ।

आरम्भसे लेकर अबतक—व्यवहार-सुधार (मानवधर्म), भगवान्में श्रद्धा, विषयोंमें वैराग्य, भगवान्में अनुराग, मनकी एकाग्रता

एव सत-मिलन—ये छः बातें हुईं । ये छः बातें हमारे जीवनमें आ जायँ इसके लिये हमें चेष्टा करनी ही चाहिये । यह नियम नहीं है कि सबके जीवनमें ये एक ही क्रमसे आयेगी । हमारे सस्कार एव वातावरणके अनुसार ही क्रम बनेगा और वह भिन्न-भिन्न होगा । पर यह सत्य है कि इनमें एक पूरी आ गयी तो शेष पॉचों भी आकर ही रहेगी, क्योंकि इनमें परस्पर सम्बन्ध है । हमें तो चाहिये कि एकको, दोको, तीनको—जितना हम अपने जीवनमें उतार सकें, उन्हें क्रियात्मकरूपसे अपने जीवनमें उतारे, शेष अपने-आप उतर आयँगी । इस प्रकार चेष्टा करके, जीवन समाप्त होते-न-होते हम भगवान्की ज्योति जगा लें, ज्योति जगाकर उनको पहचान लें । यह हो गया तब तो ठीक है, अन्यथा जीवन सर्वथा निरर्थक गया । लाभ तो कुछ हुआ नहीं, प्रत्युत ऐसी महान् हानि हुई कि उसे पूरा कर लेना अत्यन्त कठिन है । एक मानव-जीवन ही ऐसा है, जिसमें हमें विवेक प्राप्त है । इस विवेकका उपयोग कर हम प्रभुके आलोकका दर्शन पा सकते हैं, प्रत्येक प्राणीमें—सर्वत्र समस्त विश्वमें उन्हें भरा अनुभव कर परमानन्द-सिन्धुमें सदाके लिये निमग्न हो सकते हैं—

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।

भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः

प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥



प्रभुका आश्रय

कहते हैं कि बवडर (चक्रवात) के ठीक बीचमे एक ऐसा स्थान भी रहता है, जहाँ कोई हलचल नहीं, वायुका तनिक भी प्रकोप नहीं, प्रत्युत वहाँ इतनी शान्ति रहती है कि यदि किसी छोटे शिशुको वहाँ सुलाया जा सके तो वह सुखकी नींद सोता रहेगा, वायुका झकझोर उसे छूतक नहीं सकेगा । ठीक इसी प्रकार इस ससार कोलाहलके मध्यमे प्रभु विराजित हैं तथा जहाँ वे हैं, वहाँ न तो जगत्की हलचल है और न त्रितापकी विषमयी ज्वाला ही, वहाँ सर्वदा और सर्वथा सुख-शान्ति भरी रहती है, जो कोई भी वहाँ पहुँच जाता है उसके प्राण शीतल हो जाते हैं, जगत्के उलट-फेर फिर उसपर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते ।

हम अपने जीवनपर विचार कर देखें तो पता चलेगा कि उसमें न जाने कितने चढ़ाव-उतार हुए हैं, कितनी बार हम हँसे हैं और कितनी बार रोये हैं। संसारके प्रवाहमें बहते हुए हम सदा चञ्चल बने रहते हैं। अबतक कोई भी ऐसा विश्रामस्थल हमें नहीं मिला, जहाँ थोड़ी देरके लिये भी आरामसे ठिक्कर शान्तिसे स्थिर होकर हम थकान मिटा सकें। थककर हम जिसका सहारा लेने चलते हैं, देखते हैं वह भी हमारी ही भौंति चञ्चल है, सतत उसी प्रवाहमें बह रहा है। इस प्रकार संसारके थपेड़ोंकी चोट खाते-खाते हमारी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयी हैं, मन उद्विग्न हो उठा है और बुद्धि कुण्ठित हो चली है। इन्द्रियाँ यहाँकी वस्तुओंमें सुख ढूँढने जाती हैं, पर सुखके बदले आगे या पीछे इन्हे प्राप्त होती है सदा विपैली ज्वाला ही। ये बुरी तरह झुञ्झ जाती हैं। मन अनुकूलता ढूँढने जाता है, अमुक परिस्थिति ऐसी बन जाय, अमुक व्यक्ति ऐसा बन जाय, यो सोचता हुआ यहाँकी वस्तुओंमें अपने योग्य आश्रय ढूँढने चलता है, पर इसे भी पहले या पीछे मिलती है भयानक प्रतिकूलता ही। आजतक किसीके लिये भी सभी बातें सदा और सर्वथा अनुकूल बन गयी हों, यह न कभी हुआ है न होगा। इसीलिये अनुकूलता ढूँढनेवाले मनको प्रतिकूलता प्राप्त होती है और उस समय वह हाहाकार कर उठता है। बुद्धि सारा विवेक लगाकर निर्णय देती है कि बस, 'इस काममें लगे, इस बार सफलता अवश्य मिलेगी, इस बार तुम्हारे सारे अभावोंकी पूर्ति हो जायगी' किंतु परिणाम यह होता है कि हम असफल हो जाते हैं, अथवा कहीं सफल भी हुए, हमारा कोई-सा एक अभाव पूर्ण भी हो गया तो उसके साथ ही नये दसो-

वीसों अभाव खडे हो जाते हैं, अब इन नये अभावोंकी पूर्ति कैसे हो, इस विषयमें बुद्धि कोई भी निर्णय नहीं कर पाती । इस प्रकार हमारा जीवन इस संसारके बवंडरमें यहाँसे वहाँ उडता रहता है, सदा अशान्त बना रहता है, किंतु यदि हम बवंडरसे खिसककर, इसीके केन्द्रमें विराजित प्रभुसे जा लगे, उनकी छत्र-छायामें हम विश्राम पा जायँ तो फिर हमारी दशा सर्वथा दूसरी ही हो जाय । उस समय यहाँकी हलचल चाहे कितनी ही भयानक, कितनी ही प्रबल क्यों न हो, हम उससे कभी विचलित नहीं हो सकते ।

हम देखते हैं एक राष्ट्र दूसरेका विरोधी है, एक जाति दूसरीको पददलित करने जाती है, एक समाज अपने साथ-साथ चलनेवाले दूसरे समाजको कोसता है और एक व्यक्ति दूसरेको नीचा दिखानेकी भरपूर चेष्टा करता है । दूसरी ओर—यद्यपि पहलेकी तुलनामें बहुत ही कम हैं—ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि एक राष्ट्र दूसरेका मित्र है, एक जाति दूसरेका अभ्युत्थान चाहती है, एक समाज दूसरे समाजका आदर करता है और एक व्यक्ति दूसरेको ऊपर उठानेके लिये अपना सुर्वस्व दे डालता है । एक ओर अशुभ प्रवृत्तिका प्रवाह है, दूसरी ओर शुभका । प्रत्येक सद्भावना रखनेवाला मानव यही चाहेगा कि शीघ्र-से-शीघ्र जगत्में अशुभ प्रवृत्तिका अन्त हो जाय और शुभका अधिक-से-अधिक तथा शीघ्र-से-शीघ्र विस्तार हो, किंतु इस अशुभका विनाश एव शुभका विस्तार तबतक सम्भव नहीं, जबतक इस हलचलसे जुड़े हुए हम इसीके साथ बह रहे हैं । इसके लिये तो हमें इससे हटकर इसी हलचलके बीचमें अवस्थित, पर इसमें सर्वथा परे प्रभुको अपने जीवनका आधार बनाना

पडेगा, सबके केन्द्रमे विराजित प्रभुका आश्रय ग्रहण करना पडेगा ।
तभी अशुभके अन्त एवं शुभके प्रसारमें हम सहायक बन सकेंगे ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि चाहे हमारा उद्देश्य अपनेतक ही सीमित हो, हम केवल अपनी ही सुख-शान्ति चाहते हों, अथवा हमारा उद्देश्य अत्यन्त विशाल हो—समाजकी, जातिकी, राष्ट्रकी और सारे विश्वकी सुख-शान्ति हमारा लक्ष्य हो,—इन दोनो परिस्थितियोंमें जवतक इनके लिये किये जानेवाले बाहरी प्रयासपर ही हम निर्भर करते हैं, प्रभुपर नहीं, इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये जो-जो चेष्टाएँ होती हैं उन्हींपर हमारा ऐसा विश्वास है—इन्हें करते रहो, केवल इनके करते रहनेसे ही हमारे उद्देश्यकी सिद्धि हो जायगी, प्रभुकी कृपाकी हमें क्या आवश्यकता है, जवतक केवल-मात्र रजोमयी प्रवृत्तियों (हलचल) में ही हम तन्मय हो रहे हैं, प्रभुको भूले हुए हैं, तवतक तो हम भटकने ही रहेंगे । किसी भी शुभ उद्देश्यकी पूर्ति तवतक हो ही नहीं सकती, जवतक प्रभु हमारे आवार नहीं बन जाते ।

यह बात अच्छी तरह सदा ध्यानमे रखनेकी है कि हम चाहे अत्यन्त शुभ-से-शुभ उद्देश्यको लेकर ही किसी सत्कर्ममें प्रवृत्त क्यों न हुए हों, यदि प्रभुका आश्रय किये बिना ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह निश्चित है कि हमारा शुभ उद्देश्य बदलकर वीरे-वीरे किसी अशुभमे परिणत हो जायगा, साथ ही उस सत्कर्ममे भी अनेकों त्रुटियों आ बुरेसेगी और वह सत्कर्म भी बदलते-बदलते अन्तमें सम्भवतः पापकर्म बन जायगा । ऐसा इसीलिये होगा कि समस्त

शुभ विचार, समस्त सद्भाव आते हैं इनके अनन्त भण्डार प्रभुकी ओरसे । जहाँ प्रभुका सम्बन्ध नहीं, वहाँ ये आयेंगे कहाँसे ? रहेंगे कैसे ? जहाँ प्रभु नहीं, वहाँ शुभका सौरभ भी नहीं, सत्त्वका प्रकाश भी नहीं । वहाँ तो रजका बवडर है, तमोगुणका अँधेरा है । वृक्षसे टूटा हुआ एक सुन्दर पुष्प जैसे बवडरमें पडकर धूलिसे सन जाता है, अँधेरेमें नाचने लगता है, वैसे ही प्रभुका आश्रय छोड़ देनेपर हम ससारके प्रवाहमें पडकर रजोगुणी-तमोगुणी प्रवृत्तियोंमें उलझ जाते हैं । उन्हींमें चक्कर काटने लगते हैं । हम जब स्वयं अशुभसे चिपटे हुए होते हैं, अशान्त होते हैं, तब फिर दूसरेको सुख-शान्ति दे सके यह कैसे सम्भव है ? पहले हम स्वयं इस हलचलसे हटें- प्रभुका आश्रय ग्रहण करे, तभी हम स्वयं शुभसे जुड पायेंगे, शान्तिका अनुभव करेंगे एव तभी हमारे द्वारा जगत्में दूसरेको भी शुभ एव शान्तिकी प्राप्ति होगी ।

प्रभुके आश्रय ग्रहण करनेका यह अर्थ नहीं कि हम अकर्मण्य बन जायँ, 'काम करना तो रजोगुणी-तमोगुणी प्रवृत्ति है' यह कहकर अवश्यकर्तव्य कर्मोंकी अवहेलना करने लगे । प्रभुका आश्रय करनेपर तो हमारे लिये अकर्मण्य बनना सम्भव ही नहीं । फिर तो हमारे जीवनका प्रत्येक क्षण सदा शुभ चेष्टाओंसे ही पूर्ण रहेगा । जिस क्षण हमने वास्तवमें आश्रय ग्रहण किया कि वस, उसी क्षणसे प्रभुके दिव्य अनन्त सद्गुणोंका विकास हमारे अंदर भी होना आरम्भ हो जायगा । आगमें एक लोहेका टुकडा गिरा कि वस, उसी क्षणसे उसमें आगके गुण आने लगेंगे । ठीक वैसे ही प्रभुका आश्रय ग्रहण करने ही प्रभुके गुण भी हमारे अंदर प्रकट होने लगेंगे । दूसरे

शब्दोंमें कहे तो यह कहना चाहिये कि हमारे अंदर हमारे स्थानपर प्रभुकी सत्ता व्यक्त होने लगेगी । आज हमारे अन्तरालसे हमारा अहङ्कार बोलता है, अहङ्कार देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सब कुछ अहङ्कार करता है, पर फिर हमारे इस अहङ्कारके प्रभु बोलना आरम्भ करेगे, वे ही देखेगे, सुनेगे, स्पर्श करेगे, सब कुछ वे करने लगेगे । जहाँ वे ही सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ अकर्मण्यताके लिये स्थान कहाँ ? अकर्मण्यता तो तमोगुणका परिणाम है । प्रभु तो तीनों गुणोंसे अतीत हैं, किंतु साथ ही अनन्त अप्राकृत गुणोंसे भी विभूषित है । सदा सबका सर्वथा मङ्गल करते रहना उनका स्वभाव है । उनका यह स्वभाव हमारे अंदर अवश्य ही अभिव्यक्त होगा । हमारे द्वारा भी विश्वके समस्त प्राणियोंके हितकी सतत स्वाभाविक चेष्टा होगी । अतः हम यदि भगवदाश्रयके भ्रममें कहीं अकर्मण्य बनने लगे तो सावधान हो जाना चाहिये ।

वास्तवमें प्रभुका आश्रय हो गया है या आश्रय होनेका भ्रम हो रहा है, इसकी कसौटी यह है—

(१) पूर्णरूपसे आश्रय ग्रहण करनेके पश्चात् प्रभुकी सत्ता हमारे हृदयमें सदा जागरूक रहेगी । प्रभु है, अवश्य हैं, सर्वत्र सबमें समाये हुए हैं । यह भावना हमें कभी नहीं छोड़ेगी । आकाशमें, वायुमें, तेजमें, जलमें, थलमें, मनुष्यमें, पशुमें, पक्षीमें, कीटमें, मृङ्गमें, स्यावरमें, जङ्गलमें, जडमें, चेतनमें, कार्यमें, कारणमें, बडेमें, छोटेमें, गुणवान्में, गुणहीनमें, गोरेमें, कालेमें, सुन्दरमें, कुरूपमें—सर्वत्र एक ही प्रभु नित्य विराजित है, यह विश्वास कभी शिथिल नहीं होगा, बल्कि उत्तरोत्तर दृढतर होता जायगा ।

(२) हम एवं हमसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्त वस्तुओंपर एकमात्र प्रभुका ही अधिकार है, यह धारणा सदा बनी रहेगी ।

(३) जहाँ जिस समय जो कुछ जैसे हो रहा है, वहाँ वह सब कुछ सदा सभी प्रकारसे प्रभुके द्वारा हो रहा है और सर्वथा ठीक हो रहा है, कहीं भी तनिक भी भूल या प्रमाद नहीं है, मङ्गल-ही-मङ्गल हो रहा है, इस प्रकार प्रभुके प्रत्येक विधानमें पूर्ण सतोषकी सहज अनुभूति होगी ।

(४) हमारी प्रत्येक चेष्टा प्रभुके लिये होगी एवं अहङ्कारसे शून्य होगी । प्रभु यन्त्री बनेगे, हम यन्त्र बन जायेंगे । इस कोलाहलमय ससारमें हमारी इन्द्रियों, शरीर-मन-बुद्धि—सभी काम तो करते रहेंगे, पर ये सब-के-सब प्रभुकी मङ्गलमयी इच्छाका अनुसरण करेंगे । इसीलिये हमारी चेष्टामें अनाचार, दुराचार, द्रोह, द्वेष, दम्भ, कपट आदिकी गन्ध भी नहीं रहेगी । हमारी प्रत्येक चेष्टामें उत्कृष्ट सदाचार, विशुद्ध सेवाभाव और हित करनेका पवित्र उद्देश्य आदि ही भरे होंगे ।

यदि उपर्युक्त बातें हममें आ गयी हैं, आ रही हैं तब तो समझना चाहिये कि प्रभुका आश्रय हुआ है, हो रहा है । अन्यथा हम मार्ग भूल गये हैं, बवंडरमें ही अभीतक चक्कर काट रहे हैं, इस स्थितिमें हमारा उद्देश्य सफल होनेका नहीं, गिरेंगे, उठेंगे, पर फिर गिर जायेंगे, हमारा भटकना बंद नहीं होगा—यह मानना चाहिये । यही सत्य बात भी है ।

किंतु इसका यह अर्थ भी नहीं समझना चाहिये कि हमारे अंदर इतनी बातें पूरी हों, तभी हम प्रभुका आश्रय पानेके अधिकारी

होगे । पूर्ण आश्रय ग्रहण करनेपर तो ये बातें अवश्य आ जायँगी, पर उससे पूर्व हम जैसे हैं, उसी रूपमें आश्रय पानेके अधिकारी तो हैं ही । एक भिखारी अपने पेटकी ज्वाला शान्त करनेके लिये मुट्ठीभर अन्न पानेकी आशासे प्रभुका आश्रय ले सकता है । कोई बख्शीना स्त्री बच्चोका शरीर ढकनेके लिये पाँच गज बख्शी इच्छासे आश्रय कर सकती है । कोई अपने परिवारके भरण-पोषणके निमित्त दस रुपयेकी नौकरी दिला देनेके लिये, कोई सिरपर आयी हुई विपत्तिको टाल देनेके लिये एवं कोई फोडेकी पीडासे कराहता हुआ पीडा हर लेनेके लिये प्रभुका आश्रय माँग सकता है । इस प्रकार विविध उद्देश्योंसे विविध व्यक्ति विविध अवसरोंपर प्रभुके आश्रयकी चाह कर सकते हैं । प्रभु अपना आश्रय सभीको देते भी हैं । उनका द्वार तो सदा सबके लिये समान भावसे खुला रहता है । उनके द्वारपर वे प्रहरी नहीं जो मोटरपर चढ़कर आनेवालोके लिये द्वार खोल देते हो, और धूलसे सने अस्थिपञ्जरमात्र हुए भिखारीको आते देखकर गरज उठते हों—‘ठहर जा ! कहाँ जाता है ! अभी मिलनेका समय नहीं है, मालिक सो रहे है, यहाँसे दूर हट जा, तुझे द्वारपर खडे देखकर मालिक नाराज हो जायँगे ।’ विश्वेश्वर प्रभुके द्वारपर वाणीसे विष बिखेरनेवाले ऐसे प्रहरी नहीं, वहाँ किसीको भी कोई रोकनेवाला नहीं, वहाँ तो सबके लिये समानभावसे अपरिसीम सुखका भण्डार खुला है, वहाँ पक्षपात नहीं है । प्रभुके लिये कौन प्रिय और कौन अप्रिय है ? कौन अपना है, कौन पराया है ? वे तो सबके आत्मा हैं, सबके प्रियतम हैं । अतः जो भी आश्रय लेने

जाता है, उसीका—चाहे वह कितना भी पतित, उपेक्षित क्यों न हो—वे स्वागत ही करते हैं, उसे अपने हृदयसे लगा लेते हैं। उनके हृदयसे लग जानेपर, उनका आश्रय मिल जानेपर फिर भले ही चारों ओर ससारकी आँधी कितनी ही प्रबल वेगसे क्यों न बह रही हो, वह उसे स्पर्श कर नहीं सकेगी। वह तो उस आँधीके अन्तरालमें ही प्रभुके समीप सुखकी अखण्ड समाधिमें विलीन हो जायगा। फिर उसे विचलित कौन कर सकता है? उसकी सुख-समाधि भङ्ग करनेकी सामर्थ्य किसमें है?

क्षणभरके लिये भी, किसी उद्देश्यसे भी, यदि हम प्रभुका आश्रय ग्रहण कर सकें तो हमारा परम सौभाग्य है। यहाँसे निराश होनेपर हम कभी-कभी ऐसा करते भी हैं। पर भूल यह करते हैं कि उस आश्रयको पकड़े नहीं रहते, छोड़ देते हैं। जिस आवश्यकतासे हमने आश्रय लिया था, वह पूरी हुई कि आश्रय भी शिथिल हुआ, छूट गया। कदाचित् एक बार प्रभुका आश्रय ग्रहण कर, उनपर निर्भर होकर इसे हम अक्षुण्ण बनाये रख सकते तो आज हमारे सब ओर जो कर्मका—कर्म-फलका बवंडर बह रहा है, इसमें पड़कर विवश हुए हम जो नाच रहे हैं, नाचते-नाचते थक गये हैं, इससे त्राण पा जाते। फिर भी यह बवंडर रहता तो अवश्य, किंतु भयावह नहीं रहता, खेलकी वस्तु बन गया होता। हम प्रभुके हृदयमें रहकर इस खेलका आनन्द लेते रहते, आनन्दकी चिर समाधिमें अपने आपको खो देते। मानव-जीवन सफल हो जाता।



भगवान्का सम्बन्ध ही सच्चा सम्बन्ध है

राज प्रकारके सुख एव सुविधाएँ हमें प्राप्त हों, धन-सम्पत्ति हों, मान-सम्मान हों, प्रभुत्व-अधिकार हों, हमारे सम्बन्धसे लोगोका स्वार्थ सधता हों, स्वार्थ सभनेकी आशा हों, उरा राग्य तो हमसे सम्बन्ध रखनेवालोकी कमी नहीं होती । लोग हमसे सम्बन्ध दिखाकर अपना परिचय देनेमें गौरव अनुभव करते हैं । न होते हुए भी सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, परन्तु जब पलड़ा बदलता है, आपत्ति-निपत्ति हमें नारो ओरसे घेर लेती है, हमारा वैभवा नाश हो जाता है; पद-पदपर अपमान होता है, हमें कहीं टिकनेतकका अधिकार नहीं रह जाता, हमसे काग बननेकी बात दूर, हमारे सम्पर्कमें आनेसे गिभ्या कलङ्क लगनेकी सम्भावना हो जाती है, उरा राग्य अभिकांश लोग हमसे सम्बन्ध तोड़ लेते हैं । कभी हमसे सम्बन्ध था, यह प्रकट होनेमें भी लज्जाका अनुभव करते हैं । सम्बन्धकी बात छिपानेकी चेष्टा करते हैं । यह मानवी दुर्बलता हमसे अभिकांशके जीवनमें समय

आशामे कभी ठेस नहीं लगती, जीवन उत्तरोत्तर आनन्दसे भग्न जाता और सतोष पद-पदपर हमारा स्वागत करने आता ।

प्रथम तो यहाँका सम्बन्ध स्थायी नहीं, क्योंकि सहैतुक है तथा इसीलिये यहाँके सम्बन्धमे विशुद्ध सौहार्द भी नहीं । विशुद्ध प्रेममें कोई भी हेतु नहीं होता और जहाँ विशुद्ध प्रेम नहीं, वहाँ हमारे लिये कोई अपना सर्वस्व दान कर दे, यह सम्भव नहीं । यहाँके स्थापित सम्बन्धमे यह दूसरी त्रुटि है । तीसरी बात यह कि हमारा जिनसे सम्बन्ध होता है, उनकी शक्ति-सामर्थ्यकी भी एक सीमा है, उस सीमाके भीतर रहकर ही वे हमारी सहायता करते हैं, कर सकते हैं । चौथी बात यह कि उनका ज्ञान भी देश-कालसे सीमित है, वे नहीं जानते, नहीं जान सकते कि विश्वके किस स्तरमें कहाँ क्या हो रहा है, कल क्या हुआ है, और कल क्या होगा । उनके पास जो सीमित ज्ञान है, उसीके आधारपर ही वे हमारे साथ सम्बन्ध रखकर सम्बन्धके अनुरूप कर्तव्योका पालन करते हैं । इसीलिये न जाने कितनी बार भूल भी कर बैठते हैं, किंतु प्रभुके साथ हमारा जो सम्बन्ध है, वह तो अनादि है, सदा स्थिर एकरस रहनेवाला है । उनके सम्बन्धमें कोई हेतु नहीं । वह सम्बन्ध अत्यन्त निर्मल, अपरिसीम प्रेमसे भरा है । इसीसे वे हमारे लिये अपना सर्वस्व दान भी करते हैं । प्रभुकी शक्ति-सामर्थ्यकी भी सीमा नहीं, वह तो अनन्त असीम है । उनके लिये यह कहना नहीं बनता कि प्रभु यह तो कर सकते हैं और यह नहीं कर सकते । वे सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, असम्भवको सम्भव कर सकते हैं । साथ ही वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं; अतीत, वर्तमान,

भविष्यका अणु-अणु उन्हें ज्ञात है, अगणित विश्व-ब्रह्माण्डमे कहाँ किस समय क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, इसको वे पूरा-पूरा जानते हैं । इसीलिये उनसे कभी तनिक-सी भी भूल नहीं होती । ऐसे प्रभुको, प्रभुके साथ अपने नित्य सम्बन्धको यदि हम जान लें, उनके सम्बन्धका ही एकमात्र भरोसा करके हम अपने कार्यक्षेत्रमें उतरे, तब सफलता, आनन्द और संतोष तो आगे-से-आगे हमें वरण करनेके लिये तैयार खड़े मिलेंगे ही ।

प्रश्न होता है कि जब हमारा ऐसे महामहिम प्रेममय प्रभुसे नित्य सम्बन्ध है, वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, तब हम उनको आखिर जान क्यों नहीं पाते ? उनको जानकर, नित्य सम्बन्धका अनुभव करके हम उन्हींपर निर्भर क्यों नहीं करते ? तो इसका उत्तर यह है कि हमारी इन्द्रियाँ स्वभावसे ही बहिर्मुखी हैं, बाहरकी ओर देखती हैं, भीतरकी ओर नहीं—

‘पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भूः’

इसीलिये सबके अन्तरालमे विराजित प्रभुको हम नहीं जान पाते तथा तबतक जान भी नहीं पायेंगे, जबतक इन्द्रियोंका प्रवाह बाहरकी ओरसे मुडकर अन्तर्मुख न बन जाय, प्रभुकी ओर न हो जाय । अभी तो अन्तर्मुख होनेकी बात दूर, सत्त्वमुखी प्रवाह भी नहीं है, हमारी इन्द्रियाँ प्रगाढ तमोगुणकी ओर दौड रही हैं ।

हम अपने मनके भावोंका विश्लेषण करके देखें तो पता चलेगा कि हममेंसे अधिकांशके मन तमोमय आसुर भावोंसे भरे हैं । अधिकांश इस बातको जानतेतक नहीं कि किस-किस कर्मसे हमारा अपना एव दूसरोंका, इस जीवनमें एवं जीवनके पश्चात् परलोकमें यथार्थ कल्याण

होना सम्भव है, ऐसे किस-किस कर्ममें हमें लगना चाहिये तथा ऐसे कौन-कौन-से कर्म हैं, जिनसे हमारा अपना एवं दूसरोंका अकल्याण निश्चित है, जिनसे हमें अवश्य वचना चाहिये । इस ज्ञानका अभाव होनेके कारण हम मनमाने कर्म करते हैं । इनका अन्ततः परिणाम क्या होगा, इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता । हममें पवित्रता नहीं, सदाचार नहीं, फिर सत्य तो होता ही कैसे ? तमोऽभिभूत मनके फेरमें पड़कर कोई-कोई तो यहाँतक बहक जाते हैं और पुकार उठते हैं—‘अरे ! देखो, ईश्वर नामकी कोई वस्तु नहीं है, जगत्का निर्माण करनेवाला जगदाधार कोई ईश्वर है, ऐसा मानना भ्रम है, जगत् तो अपने-आप बनता है, स्त्री-पुरुषका सम्भोग हुआ और जगत् बन गया, कामभोगका परिणाम यह जगत् है, कामके अतिरिक्त और कोई भी जगत्का अन्य कारण है ही नहीं, हम-तुम सभी कामोपभोगके फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं तथा सोच लो, उत्पन्न होनेसे पूर्व हमारी कोई सत्ता नहीं थी, मृत्युके पश्चात् कोई सत्ता रहेगी भी नहीं ।’ हमारी यह भ्रान्त धारणा हमें इतना उच्छृङ्खल, इतना कठोर बना देती है कि भयानक-से-भयानक कर्म करनेमें हमें तनिक-सी भी हिचक नहीं होती; जगत्के ध्वंसका बीज अपने हाथोंसे बोनेमें हम तनिक भी संकुचित नहीं होते । भोग-वासनाकी आग इतनी अधिक प्रज्वलित हो गयी है कि अब बुझनेकी आशा ही प्राय नहीं रही । दम्भ तो हमारा स्वभाव बन गया है, मान-मद चिरसङ्गी हो गये हैं । मिथ्या आग्रह, अपवित्र व्यवहार हमारे लिये गौरवकी वस्तु हैं । अन्तिम श्वास आ रहे हैं, पर चिन्ता लगी है भोगोंकी । क्यों न हो, जीवनकी सार्थकता अधिक-से-अधिक भागोंको भोगनेमें ही है,

यह हमारा निश्चय जो बन गया है । भोग-प्राप्तिके सैकड़ो हजारो उपायोंमें मन फँसा है । पर प्रधान उपाय तो धन है । धन पासमें है तो फिर भोग इसके मूल्यमे प्राप्त हो ही जायेंगे । अत हमे तो धन एकत्र करना है, न्यायसे, अन्यायसे, चाहे जैसे हो, पैसे आने चाहिये । अजी, देख लो ! इतना धन हमने कमा लिया और देखते रहना इतना और कमा ही लेंगे । हमारे ये-ये मनोरथ थे, वे तो सब-के-सब पूरे हो गये, अब अमुक-अमुक इच्छाएँ रही हैं, देख लेना—इनकी पूर्ति भी करके छोड़ेंगे । भला, अमुक सज्जन आये थे हमारे मार्गमें रोडे बनकर ! जाकर देखो, उनकी चिता जल रही है । इन्हींके तीन साथी और हैं, कुछ ही दिनोंमें यदि वे तीनों भी चिताकी राख न बन गये तो तुम कहना । यहाँ तुम्हारे ईश्वरका शासन नहीं चलेगा, यहाँके ईश्वर तो हम हैं, हमारा शासन रहेगा । हमने कभी बाजी हारी हो तो बताओ ! जिस कार्यमें हाथ डाला, वही सिद्ध होकर रहा । ऐसी सिद्धि रखनेवाला सिद्ध हमारे अतिरिक्त कोई और है क्या ? हमारे-जितनी शक्ति किसमे है ? हमारे समान सुखी कौन है ? वनमें, जनमे हमारी होड करनेका साहस किसमे है ? किसी बातमें भी हमारे समकक्ष होनेका दम भरनेवाला कोई है ? हम इतनी संस्थाओका सञ्चालन करते हैं, इतनीका और करने-वाले हैं, करके छोड़ेंगे । पैसे हमने कमाये ही हैं इसलिये कि इनसे अधिक-अधिक शुभ कर्म करेगे, लोगोको दान देंगे, कीर्ति कमायेंगे और मौज भी करेंगे ।’—इस प्रकारके अगणित आसुर भावोंसे हमारा मन भरा है, ऐसी तमोमयी भावनाओंसे हमारी इन्द्रियाँ नीचे-ऊपर, बाहर-भीतर—सब ओरसे पूर्ण हो रही है । अब ऐसे

तमसाच्छन्न मन एव इन्द्रियोंको अन्तर्मुख कर लेना सहज काम थोड़े ही है । इन्हे तो पहले क्रमशः सत्त्वमुखी करना पड़ेगा । दृढ अभ्यासके द्वारा इनकी धारा सत्त्वगुणकी ओर मोडनी पड़ेगी । जब इनमें सत्त्वगुणकी प्रतिष्ठा होने लगेगी, तभी ये अन्तर्मुख हो सकेंगे, प्रभुकी ओर इनका मुख हो सकेगा ।

इन्हे सत्त्वमुखी करनेके लिये निम्नलिखित बातोंको ध्यानमें रखना आवश्यक है—

(१) सबसे पहले हमारा यह दृढ विश्वास हो कि प्रभु है, अवश्य हैं, निस्सन्देह हैं । जबतक यह विश्वास नहीं होगा, तबतक हमारा कोई भी प्रयास इस दिशामें सफल नहीं हो सकेगा । प्रभुकी सत्तामें विश्वास न करनेवालेकी इन्द्रियाँ कभी सत्त्वमुखी हो ही नहीं सकतीं—

‘असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत्’

‘जो समझता है कि ईश्वर नहीं है, वह सदाचारसे भ्रष्ट हो ही जाता है ।’

(२) हमारे अदर जैसे सत्कार सञ्चित हैं, उन्हींके अनुरूप मनमें स्फुरणाएँ होती हैं, और फिर इन्द्रियोंसे कर्म बनते हैं । हमें गम्भीरतासे विचार करना पड़ेगा कि हमारी स्फुरणाएँ शुभ हैं या अशुभ । जिन स्फुरणाओंसे हमारा एव जगत्के प्रत्येक प्राणीका परिणाममें भला हो, वे तो शुभ हैं, तथा जिनसे हमारा एवं जगत्का परिणाममें बुरा हो, वे अशुभ हैं । यदि शुभ स्फुरणाएँ होती हैं, तब तो सुन्दर बात है ही, अन्यथा अशुभ स्फुरणाओंका दमन करना

ही पडेगा । इसके लिये सर्वोत्तम साधन है शुभमय वातावरणमे निवास । जिन सत्पुरुषोमे दैवी गुणोका विकास हो चुका है, जिन स्थानोमे दैवी भावके परमाणु भरे है, वहाँ उनके पवित्र सङ्गका यथा-सम्भव अधिक-से-अधिक सेवन करना । इससे अशुभका दमन एवं शुभका उन्मेष हममें अवश्य होगा ।

(३) कुछ किये बिना तो हम रह नहीं सकते, मन, इन्द्रियाँ एव शरीरसे कुछ-न-कुछ कर्म होते ही रहेंगे, किंतु सत्कारवश हमारा स्वभाव बन जाता है कि किसी कर्मके प्रति—शुभ हो या अशुभ—हमारी अत्यधिक प्रवृत्ति हो जाती है । हमारा दृढ़ आग्रह हो जाता है कि हम तो यही करेंगे । यदि वह अशुभ कर्म है, तब तो उसका अविलम्ब परित्याग कर ही देना चाहिये, किंतु यदि वह शुभ भी हो तो उसमेंसे हम अपनी आसक्ति शिथिल करें । हम अपनेको प्रभुका सेवक समझे । सेवकका यह आग्रह कदापि नहीं होता कि हम तो अपने स्वामीकी अमुक सेवा ही करेंगे । सेवकका जीवन सेवाके लिये होता है । मालिककी रुचि देखकर ही वह अपनी सेवा समर्पित करता है । स्वामीकी रुचि यदि यह है कि अमुक सेवक घरमे झाड़ू लगानेका ही कार्य करे तो सेवकका यह आग्रह क्यों हो कि नहीं, हम तो आपको सङ्गीत सुनाया करेंगे । प्रभु यदि यह चाहते हैं कि अपने घरको आश्रमके रूपमे परिणत कर दो, वृक्षके नीचे पड़े हुए असहाय, रुग्ण भिखारियोंको आश्रय देकर उनकी सेवा करो तो हमारा यह आग्रह क्यों हो कि नहीं, हम तो व्याख्यान देकर जनतामे फैली कुरीतियोंको ही मिटायेगे । हमें तो उसी कर्ममे प्रवृत्त होना चाहिये जिसमे प्रभुकी रुचि है । प्रभुकी रुचि हमे किस कर्ममें

प्रवृत्त करनेकी होगी, इस बातको इस कसौटीपर कसकर हम निर्णय कर ले—(क) कर्म परम शुभ है, (ख) इसे करनेके लिये कम-से-कम आदमी आगे बढ़ रहे हैं, (ग) इसे करनेकी योग्यता हमारे अंदर प्रभुने दी है। वस, यही कर्म है, जिसमे हमें लगना है, इसीके लिये प्रभुकी रुचि है। इसीमें हम लगे। पर सावधान रहे, कहीं इसमे भी हमारी आसक्ति न हो जाय, इसके बदले यदि प्रभु फिर किसी अन्य कार्यका भार सौंपे तो समान प्रसन्नतासे ही हम इसे छोड़कर उसमें प्रवृत्त हो सके।

(४) हम पहलेसे ही किसी निश्चित फलकी कामना रखकर ही किसी कर्ममें लगते हैं। हमारे इस कर्मका अनुकूल फल हो, यह इच्छा पहले ही मनमें उदय हो जाती है। इस फलकी इच्छाको हमें छोड़ना पड़ेगा। प्रभुने जो काम सौंपा है उसे पूरी तत्परतासे हमें करना है, हम कर रहे हैं, किंतु इसका फल क्या होगा, यह प्रभु जानें, उनकी जो इच्छा हो, इस कर्मका वही फल हो। इस भावनाको सुदृढ़ करके, अन्ततक सुदृढ़ रखते हुए ही हमें कर्ममें लगना चाहिये। साथ ही शुभके आचरणसे प्राप्त होनेवाली प्रतिष्ठा, मान-सम्मान आदिमें भी हम फँस न जायँ, प्रभुके आज्ञा-पालनका भाव हटकर कहीं मान-बड़ाईकी प्राप्ति हमारे कर्मका उद्देश्य न बन जाय, इसके लिये भी हम सदा सजग रहें। यह बात कहने-सुननेमें जितनी सरल है, आचरणमें उतनी नहीं। पर्वतके समान दृढ़ अचल निश्चय हो, अविराम सतत प्रयत्न हो, प्रभुकी कृपाका संबल हो—तभी इसमें सफलता मिलती है। अतः बड़ी लगनसे हमें इसके लिये प्रयत्न करना होगा।

(५) हम सोचकर देखे, इन्द्रियोंमें अपने-अपने कार्य-सम्पादन-की शक्ति कहाँसे आती है ? नेत्रमें देखनेकी शक्ति, कानोंमें श्रवणकी शक्ति, नाकमें घ्राणकी शक्ति—ये सब कहाँसे आयीं ? वाणीमें बोलनेकी शक्ति, हाथमें ग्रहण-त्यागकी शक्ति, पैरोंमें चलनेकी शक्ति—ये सब शक्तियाँ किसने दी हैं ? मनमें सोचने-विचारनेकी, बुद्धिमें निश्चय करनेकी शक्ति किसकी दी हुई है ? प्राणोंमें जीवित रखनेकी शक्ति किसकी है ? हमारा शरीर किसकी शक्तिपर अवलम्बित है ? ये सब शक्तियाँ प्रभुकी ही तो है ? प्रभुसे ही तो हमें प्राप्त होती हैं ? एकमात्र प्रभुकी शक्तिसे शक्तिमान् होकर ही तो इन्द्रिय, मन, शरीर कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, कर्म कर पाते हैं । फिर हम जो पद-पदपर कह बैठते हैं, 'यह हमने किया' यह हमारा 'मैं' कितनी निरर्थक, कितनी मिथ्या वस्तु है ? अतः इस अहङ्कारकी वृत्तिको हमें नष्ट करना चाहिये ।

(६) समुदायका प्रवाह तमोगुणकी ओर है । अतः जिस समय हम सत्त्वगुणकी ओर अपने जीवनको मोड़ने चलेगे, उस समय अनेक विघ्न-बाधाएँ हमारी प्रगति रोकनेके लिये, हमें पीछे लौटा देनेके लिये सामने आयेंगी । यदि पर्याप्त धैर्य हममें नहीं होगा तो उसी तमोमय प्रवाहमें हम पहलेकी भाँति बह चलेगे । इसलिये धैर्य धारण करें, उन विविध विघ्न-बाधाओंसे हम तनिक भी विचलित न हों । जय सत्यकी ही होगी । अन्तमें सत्त्वमुखी प्रवाह ही विजयी होगा, यह विश्वास करके सदा अपने निश्चयके अनुरूप कार्य करते रहें । विघ्न-बाधाओंको देखकर हम धैर्य न खो दें, अपितु दूने उत्साहसे आगे बढ़ें ।

(७) यदि हमारा कोई कार्य सफल हो जाय तो हम हर्षसे फूलकर कुष्पा न बन जायँ, कार्य विफल हो जाय तो शोकमें भरकर सिर न पीटने लगे—यह सावधानी प्रत्येक कार्यका परिणाम ग्रहण करते समय अवश्य रहे । सफलता हुई है प्रभुकी इच्छासे, असफलता आयी है प्रभुकी इच्छासे । दोनोको ग्रहण करते समय, प्रभुकी इच्छा पूर्ण हो रही है, इस भावनाका समरस आनन्द ही हमारे मनको स्पर्श करे, हर्ष-शोकके विकार हमें छू न ले—इसके लिये भी हम दृढ़ प्रयत्न करें ।

उपर्युक्त बातोंको ध्यानमें रखकर यदि हम सतत प्रयत्न करेंगे, तो हमारी इन्द्रियोंका प्रवाह क्रमशः सत्त्वमुखी होने लगेगा । सत्त्वगुण भरनेपर ही ये अन्तरकी ओर, प्रभुकी ओर दौड़ सकेंगी । तभी त्रिगुणातीत, दिव्य चिन्मय अनन्तगुणगण-भूषित आनन्दमय प्रभुका हम स्पर्श पा सकेंगे, उन्हें पहचान पायेंगे । तभी हमारे इतने निकट नित्य अवस्थित प्रभुके सम्बन्धकी भी हमें पहचान होगी । उस समय वास्तवमें हमारी क्या अनुभूति होगी, वाणीमें यह बतानेकी तो सामर्थ्य नहीं है । वह इतना ही कह सकती है कि हमें उस समय अनुभव होगा कि प्रभुका—भगवान्का सम्बन्ध ही सच्चा सम्बन्ध है । अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना भी इसीलिये हो पाती है कि उन-उन स्थलोंमें प्रभुकी छाया पड़ती है, वे सम्बन्ध प्रभुकी छायापर अवलम्बित हैं, पर हैं वे अस्थायी । निर्भर करनेयोग्य एवं सत्य तो एकमात्र प्रभुका सम्बन्ध ही है ।



भगवान्की पूजा-आरती

मन्दिरमें प्रभुके श्रीविग्रहके सामने हम विविध सामग्रियोसे उनकी पूजा करते है, उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल अर्पण करते हैं; उनकी आरती उतारते हैं, उनके लिये सुन्दर ज्य्या विछाकर उन्हें शयन कराते हैं तथा फिर बडे भावसे वीजना (पखा) डुलाकर उनकी सेवा करते हैं । ऐसा करना बडे सौभाग्यकी बात है, अवश्य-अवश्य करना चाहिये । पर यदि इस पूजाके साथ ही हम विश्वरूप भगवान्की पूजाको भी अपनी दिनचर्यामें सम्मिलित कर लेते तो हमारा जीवन फिर पूजामय बन जाता, हमारी पूजा सर्वाङ्गीण पूजा हो जाती ।

यदि हृदयमे प्रभुकी ज्योति जग गयी है तथा उस ज्योतिके आलोकमें मन्दिरके देवता—श्रीविग्रहके रूपमे विराजित प्रभु हमारी दृष्टिके सामने सर्वथा चिन्मय बन गये है, एक क्षणके लिये भी हमे यह अनुभूति नहीं होती कि ये धातु-पापाण आदिसे बनी हुई मूर्ति हैं, तब तो कुछ कहना बनता ही नहीं, क्योंकि फिर तो हमारे द्वारा विश्वरूप प्रभुकी उपेक्षा सम्भव ही नहीं । हमारी दृष्टिमें विश्वकी सत्ता ही नहीं रहेगी, एकमात्र प्रभु-ही-प्रभु रहेंगे और यदि कहीं विश्वकी सत्ता रहेगी भी तो विश्वके अणु-अणुमें हमें अपने इष्टदेव ही भरे दीखेंगे । जितने आदरसे, जिस प्रेमसे हम मन्दिरमें भेंट चढ़ायेंगे, उतने ही आदरसे उसी प्रेमसे विश्वरूप प्रभुको भी हम यथायोग्य यथासम्भव उपहार समर्पित करेंगे, किंतु जबतक यह ज्योति नहीं जगी है, तबतक सावधान होकर हमें अपनी पूजाको विशुद्ध एव परिपूर्ण बनानेकी चेष्टा करनी पड़ेगी ।

हम देखते हैं कि पूजा समाप्त करनेके बाद जब हमें भूखकी अनुभूति होती है, तब हम स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा इष्ट-मित्रोंको भी प्रसाद देते हैं । हमें जब शीतका अनुभव होता है, तब हम अपने अङ्गोंको आवश्यक वस्त्रोंसे ढकते हैं । जब हमारे शरीरमें रोग होते हैं, तब उनको दूर करनेके लिये हम ओषधियोंका भी सेवन करते हैं, किंतु ऐसा करते समय, सभी तो नहीं, पर हममेंसे अधिकांश इस बातको भूल जाते हैं कि अभी-अभी हम जिन प्रभुकी पूजा मन्दिरमें कर आये हैं, वे ही प्रभु पुन हमारी पूजा ग्रहण करनेके लिये विविध रूप धारण किये बाहर खड़े हैं ।

वे ही स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण किये, सिरपर तिलक लगाये, निर्मल पवित्र धातु-पात्र हाथमे लिये हुए सतमण्डलीके रूपमें प्रसाद पानेकी, शान्तिसे बाट देख रहे हैं तथा वे ही अपने अङ्गोंमें चिथडा लपेटे, धूलमे सने, टीनका टूटा डिब्बा हाथमे लिये, कगाल बनकर कुछ भी दे देनेके लिये करुण पुकार मचा रहे है। एक रूपमें वे शरीरपर ऊनी वस्त्र धारण किये, भद्रपुरुषके वेशमें हमारी बैठकमें हमसे गरीबोको कम्बल बाँटनेके सम्बन्धमें परामर्श एव सहायता लेने आये हैं तथा दूसरे रूपमे वे ही हमारे द्वारके सामने बाहर खडे रहकर जाड़ेसे ठिठुरते हुए हमारे बाहर आनेकी बाट देख रहे है और ठढसे बचनेके लिये हमे चादर ओढ़ते देखकर, 'बाबूजी ! जाड़ेसे मरा जा रहा हूँ, एक पुराने टाटका टुकड़ा मुझे भी दे दो, भगवान् तुम्हारा भला करेगा' ऐसा बार-बार चिल्ला रहे हैं ! हम जिस समय सक्क प्रकारसे सजे हुए कमरेमें मोटे गद्देपर तकियेके सहारे बैठे यह कह रहे हैं—'वैद्यजी ! पूजा करते समय मामूली सिर-दर्द हो गया था, अभीतक वह मिटा नहीं, इसीसे भगवान्की पूजाके समय भी कुछ विक्षेप हुआ' और वैद्यजीसे अपने रोग-नाशके लिये दवाकी व्यवस्था करवा रहे हैं, ठीक उसी समय वे प्रभु, मन्दिरमें विराजित रहनेवाले वे हमारे इष्टदेव ही, पेचिस रोगसे पीड़ित, अत्यन्त दुर्बल, अनाथ भिखारीके वेशमें सडकपर पडे हुए होते है तथा हमारे पास एक दूसरे रूपसे सूचना भेजते हैं कि 'बाबूजी ! एक भिखारी पड़ा है, उसके सारे कपडे टट्टीमें सन गये हैं, बड़ा ही दुर्बल और दुखी है, उसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये' किंतु ऐसे अवसरोपर हमें यह याद नहीं रहता कि इन सभी रूपोंमें प्रभु ही हमारी पूजा ग्रहण करने आते

हैं। इसीलिये हम कभी तो उनकी उपेक्षा कर देते हैं तथा कभी-कभी उनके प्रति बहुत बुरा व्यवहार कर बैठते हैं। यदि हम प्रभुको इन सभी रूपोंमें पहचान पाते तो जो सुख हमें स्वयं प्रसाद पानेमें, जो आदर-प्रेम-भाव अपने इष्ट-मित्रोंको प्रसाद देनेमें होता है, उससे बहुत अधिक सुख एव प्रेमकी अनुभूति भिखारीके दीनवाले पात्रमें भोजन परसते समय होती। जो रस हमें स्वयं ऊनी कपडे ओढ़नेपर ठंड मिटनेसे प्राप्त होता है, उससे बहुत अधिक बढ़कर रस हमें उस दीन-हीन, सर्दीसे ठिठुरते हुएको कपडा देनेमें प्राप्त होता। जो तत्परता अपने रोगको दूर करनेके लिये हममें होती है, उससे बहुत अधिक मात्रामें लगन उस रुग्ण अनाथ व्यक्तिकी समुचित व्यवस्था एवं सेवा करनेमें होती। पर हममें तो इनसे विपरीत भाव होते हैं। इसीलिये हमारी पूजा भी अधूरी ही रह जाती है।

प्रभुको पहचाननेवाले भक्तके द्वारा पूजा कैसी होती है, यह हमे जानना चाहिये। संत एकनाथके जीवनकी एक घटना है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस समय भारतवर्षमें रेल नहीं थी। दक्षिण भारतसे उत्तरकी सीमा हिमालयकी गङ्गोत्तरीतक आना सहज काम नहीं था। हृदयमें प्रभुकी झाँकी करते हुए संत एकनाथ गङ्गोत्तरी आये, वहाँके पुनीत जलको काँवरमें भरकर ले चले, काशी होते हुए रामेश्वरकी ओर जाने लगे, वहाँ जाकर उस जलसे वे प्रभुकी पूजा करना चाहते थे। धीरे-धीरे रामेश्वर निकट आने लगा, अत्यन्त समीप आ गया। ग्रीष्म ऋतु थी। एक दिन

दुपहरीकी जलती धूपमे एकनाथने रेतीले मैदानमे एक गधेको पडे छटपटाते देखा । वे उसके निकट चले गये । देखा—प्याससे उस असहाय पशुकी बुरी दशा हो रही है । नाथको अनुभव हुआ, मेरी पूजा स्वीकार करनेके लिये ही प्रभु यहीं पधार गये हैं । अत्रिलम्ब उन्होंने काँवर उतारी और गङ्गोत्तरीका वह पुनीत जल गधेके मुखमे डालना आरम्भ किया । ठढा जल पीनेसे उस मरणासन्न प्राणीमें नवीन प्राणोका सञ्चार हो आया । गधा उठ खड़ा हुआ तथा सुख-पूर्वक एक ओर चला गया । एकनाथकी पूजा सम्पन्न हो गयी । वे उल्लासमें भर रहे थे, किंतु उनके अन्य साथी दुःख कर रहे थे कि 'हाय, इतने परिश्रमसे लाया हुआ गङ्गोत्तरीका जल व्यर्थ चला गया । रामेश्वर जाकर इससे प्रभुकी पूजा नहीं हो सकी । इस जीवनमें पुन गङ्गोत्तरीसे जल लाकर पूजा हो सकेगी, यह तो सम्भव नहीं ।' उनकी भावना देखकर एकनाथ हँसे । हँसकर बोले— 'भाइयो ! शरीरका पर्दा हटाकर देखो, फिर दीखेगा कि एकमात्र प्रभु ही सर्वत्र परिपूर्ण हैं । मेरी पूजा तो रामेश्वरके मन्दिरमे विराजित स्वयं प्रभुने यहींसे स्वीकार कर ली ।'

अब कहीं हम भी सत एकनाथकी तरह विश्वके कण-कणमें विराजित प्रभुको पहचान सकते तो हमारी पूजा भी सर्वाङ्गीण पूजा बन जाती । हमारी आजकी जो यह दशा है कि पासकी नदीसे जल भरकर हम किसी मन्दिरमें प्रभुकी पूजा करने चलते हैं, मन्दिरसे कुछ दूरपर ही हमें एक ऐसा असहाय, उपेक्षित प्राणी—पशु नहीं, मनुष्य—मिलता है, जिसके अन्तिम श्वास आ रहे हों, हमारी दृष्टि भी उसपर पड

जाती है, किंतु हम उस ओरसे दृष्टि हटा लेते हैं, क्षणभरके लिये रुककर कौतूहलकी दृष्टिसे हम भले कुछ पूछ-ताछ कर ले, पर आखिर हमारा भी उस मरणासन्न व्यक्तिके प्रति कोई कर्तव्य है, यह भावना भी हमारे मनमें नहीं उदय होती । अधिक-से-अधिक कुछ हुआ तो इतना कि करुणामिश्रित दो-चार शब्द मुँहसे उच्चारण कर लेते हैं और फिर मन्दिरमें पूजा करने चले जाते हैं । इतना भी नहीं करते कि अपने लोटेके जलकी कुछ बूँदे उस मुमूर्षुके सूखते हुए कण्ठमें तो डाल दें—हमारी ऐसी दशा प्रभुको पहचाननेपर कदापि नहीं होती । फिर तो हमें भी यह दीखता कि मन्दिरके देवता हमारी पूजा ग्रहण करनेके लिये यहाँ इस रूपमें प्रकट हो गये हैं तथा उस समय केवल जल ही नहीं, हमारे पास जो कुछ भी साधन प्राप्त हैं, हमारे द्वारा जो कुछ भी होना सम्भव है, उन सबका पूर्ण उपयोग करते हुए पूरी-तत्परतासे हम उस रूपमें विराजित प्रभुकी पूजामें ही जुट पड़ते ।

कभी-कभी हम ऐसा सोचते हैं कि 'क्या करें, विश्वरूप भगवान्की पूजाके उपयुक्त साधन ही हमारे पास नहीं है । साधनके अभाववश ही 'हम पूजा नहीं कर पाते ।' पर ऐसी धारणा हमारे मनका भ्रम ही है । यह बात बिल्कुल नहीं है कि जो साधन हमारे पास नहीं हों, वे हो जायँ, तभी प्रभुकी पूजा होगी । असलमें तो हमारे अदर पूजाकी सच्ची चाह होनी चाहिये । चाह होनेपर हम अपने द्वारा होनेवाले प्रत्येक कर्मसे, प्रत्येक चेष्टासे उनकी पूजा कर सकते हैं । जीवन-निर्वाहके लिये आखिर कोई-न-कोई कार्य तो हम

करते ही हैं । हम दूकानदार है—चावल, दाल, नमक, मसाला, धी, चीनी, बर्तन, वासन, कपडा, गहना, हीरा, मोती आदिमेसे किसी वस्तुकी हमारी दूकान है । दूकानपर हम प्रतिदिन दस घंटे नियमसे बैठते है । अब सांचकर देखे, ग्राहकके रूपमे हमारी दूकानपर कौन आता है ? प्रभु ही तो आते हैं । फिर प्रभुको उस रूपमें देखकर, पहचानकर सम्मानपूर्वक उचित मूल्य लेकर उनकी सेवाकी दृष्टिसे यदि हम उन्हें ईमानदारीके साथ अच्छी वस्तु दे देते है, तो यह माल बेचना ही हमारी पूजा हो जायगी, किंतु हमारी वृत्ति तो यह होती है कि ग्राहकसे अधिक-से-अधिक मूल्य लेकर बदलेमें घटिया माल उसके हाथमें खपा दें । हम नमूनेमें कुछ दिखाते हैं, और देते समय देते कुछ दूसरा ही हैं । इस प्रकार अपने ही इष्टदेवकी हम वञ्चना करते है । इतना ही नहीं, उन्हें ठगकर उल्टा हम उन्हींपर झूठा अहसान लादते है कि 'देखो जी ! यह वस्तु इतने मूल्यमें हमने आपको दे दी, दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी ।' भगवान् देखते हैं—'देखो, यही व्यक्ति मन्दिरमें तो मेरे समक्ष विविध उपचार रखकर बड़े आदर-भावसे मेरी पूजा करता है, पर जब मैं इस रूपमें यहाँ इसकी पूजा ग्रहण करने आया हूँ, तब बुरी तरहसे यह मुझको एव अपने आपको ठग रहा है ।' वास्तवमें तो हम ही ठगे जाते है, क्योंकि सर्वसमर्थ प्रभु तो नित्य अपनी अखण्ड महिमामें स्थित हैं, अपने स्वरूपानन्दसे नित्य परिपूर्ण हैं, हमारी पूजा ग्रहण करनेकी आवश्यकता उन्हें नहीं है, वे तो स्वभावगत करुणावश हमारा मङ्गल करनेके लिये ही हमारी पूजा स्वीकार करते हैं । पूजा करनेका जो कुछ भी फल है, लाभ है,

वह तुरत पूजा करनेवालेको ही वे लौटा देते हैं। जैसे सज-श्रजकर हम दर्पणके सामने खडे होते हैं तो उस समय हमारे मुखका सौन्दर्य दर्पणमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बको भी ठीक उसी मात्रामें सुन्दर बना देता है, हमारी सजावटको दर्पण पूरा-पूरा हमें ही तुरत उसी क्षण लौटा देता है, वैसे ही प्रभुके प्रति की हुई सद्भावना, उन्हे समर्पित की हुई वस्तु, उनको छूकर उसी क्षण हमारे पास चली आती है, हमारी पूजाको प्रभु ज्यों-की-त्यों अविलम्ब हमे ही अर्पित कर देते हैं। हमारी दूकानपर ग्राहकके रूपमें आये हुए भगवान्की यदि हम वञ्चना करते हैं, तो वह असद्व्यवहार हमपर ही प्रतिफलित होता है, दूसरेपर नहीं, प्रभुको ठगने जाकर हम स्वयं ठगे जाते हैं। ऐसा न करके यदि हम अपने दैनिक व्यवहारको विशुद्ध बना ले, दूकानपर आये हुए प्रत्येक ग्राहकके रूपमें प्रभुको पहचानकर, सबको समान आदरभाव देने हुए पवित्र लेन-देन करे, तो यह हमारी खरीद-बिक्री ही विश्वरूप प्रभुकी पूजा बन जायगी। ऐसे ही, यदि हम चिकित्सक हैं तो प्रत्येक रोगीमें प्रभुको पहचानकर, शिक्षक हैं तो प्रत्येक छात्रमें भगवान्को विराजित देखकर और वकील हैं तो प्रत्येक वादी, प्रतिवादी, न्यायाधीश, साक्षीमें अपने इष्टदेवको ही अभिव्यक्त देखकर यथायोग्य अपने उचित विशुद्ध व्यवहारसे उनकी पूजा कर सकते हैं। हम जहाँ जिस क्षेत्रमें हैं, जिस परिस्थितिमें जो भी काम करते हैं, वहीं उसी क्षेत्रमें, उसी परिस्थितिमें अपने कामको विशुद्ध बना सकते हैं तथा फिर अपने सम्पर्कमें आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिमें प्रभुको देखकर उन्हे यथायोग्य रूपमें अपनी विशुद्ध पूजा समर्पित कर सकते हैं। अनादि-सत्कार-

वश एक बार ऐसा करनेमे कुछ कठिनताका अनुभव हो सकता है, पर यदि हममें लगन है, अपने जीवनको पूजामय बनानेके लिये हम कटिबद्ध हैं तो अनन्त शक्तिमान् प्रभुकी शक्ति अपने-आप हमें ऊपर उठाने लगेगी, कठिनाइयाँ दूर होती जायँगी, आगे-से-आगे सुगम पथ दीखता जायगा । फिर हमे यह भ्रम नहीं होगा कि पूजाके उपयुक्त साधन ही हमारे पास नहीं हैं, हम करें तो क्या करे । हमें तब स्पष्ट दीखेगा कि जिस वेषमें प्रभु पूजा ग्रहण करने आये है, उसके अनुरूप पूजाकी सामग्री उन्होंने पहलेसे ही हमारे पास भेज रक्खी है । परम उत्साहसे हम उन सामग्रियोंका खुले हाथों उपयोग करेंगे तथा धीरे-धीरे हमारा जीवन पूजामय होकर ही रहेगा ।

मन्दिरमे विराजित ठाकुरजीकी नित्य पूजा करनेवाले, अचल श्रद्धा, निश्चल प्रेमसे पूजाकी विविध सामग्रियोंको अर्पण करके रामको रिझानेवाले भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीने पूजाका एक अत्यन्त सुन्दर क्रम बताया है । वे कहते हैं—रे मन ! समस्त दुःख-द्वन्द्वोंको नाश कर देनेवाले आनन्दमय प्रभुकी तू ऐसी आरती (पूजा) किया कर । इन्द्रियोंके नियामक प्रभुने ऐसी आरती करनेकी शक्ति तेरी इन्द्रियोंमें दे रक्खी है, उनकी शक्तिसे शक्तिमान् होकर तू इस प्रकारकी आरती आरम्भ कर ! देख, तू धूप देना तो जानता ही है पर आज एक नया धूप तुझको बताता हूँ । जड, चेतन सारा विश्व प्रभुका ही रूप है । वे सर्वत्र निरन्तर विराजमान हैं—इस वासना (सुगन्ध) की धूप तू प्रभुको समर्पित कर । इस धूपसे प्रभुका विश्वरूप सारा मन्दिर सुवासित हो जायगा । तेरी भी 'यह

अपना, यह पराया, यह अच्छा, यह बुरा' इस प्रकारकी भेदरूप दुर्गन्ध मिट जायगी । ऐसी धूप देकर फिर स्व-रूप ज्ञानका दीपक जला दे, प्रभुके साथ सदा-सर्वदा सयुक्त रहनेकी अनुमति कर ले । इस प्रदीपके आलोकमें तेरे ऊपर छाया हुआ क्रोध, मद, मोह आदिका अँधेरा नष्ट हो जायगा, इतना ही नहीं, इस ज्ञानके प्रकाशमें तेरे समीप रहनेवाले सपरिकर अभिमानरूप प्रबल डाकूकी शक्ति नष्ट हो जायगी, यही डाकू तो तेरी की हुई पूजाका फल लूट लेना है । इस ज्ञानकी ज्योतिके सामने फिर इसकी शक्ति ठहर नहीं सकेगी, क्षीण हो जायगी । अब निश्चिन्त होकर भाव (भक्ति) का नैवेद्य अर्पण कर । तेरी प्रत्येक चेष्टा प्रभुको सुख पहुँचानेके उद्देश्यसे ही हो, इस निर्मल भावका ही तू भोग धर, तेरा यह सुन्दर नैवेद्य प्रभुको अत्यन्त सतोषकर होगा । यह करके फिर प्रेमका ताम्बूल सामने रख दे, तू इतना कोमल, सरस, सुगन्धित दोषहारी बन जा कि प्रभु तुझे अपने ओठोंपर धारण कर लें, तू उनकी स्मृतिका विषय बन जाय । इसका परिणाम यह होगा कि दुःख तुझे झू नहीं सकेगा, शय तुझे चञ्चल नहीं बना सकेगा, उनकी अनन्त शोभा, असीम सौन्दर्यके प्रवाहसे तू इतना भर जायगा कि अपार ससारकी वासनाओंके बीज फिर तुझमें ठहर नहीं सकेगा, बह जायँगे । फिर तुझे यह अनुभव होगा कि अभी-अभी जो दस इन्द्रियरूपी दस वक्तियाँ अशुभ-शुभ कर्मरूपी वृत्तमें सनी थीं, उनका आसक्तित्यागरूप अग्निसे संयोग हो गया है, उनमेंसे सत्त्वगुणरूपी लौ निकल रही है । लौ भक्ति, वैराग्य, विज्ञानमें परिणत हो रही है । बस, इन्हीं भक्ति-वैराग्य-विज्ञानरूपी दीपोंसे तू जगन्निवास प्रभुकी नीराजन (आरती)

कर, अपने भक्ति, वैराग्य, विज्ञान—ये भी तू उन्हे समर्पित कर दे । रे मन ! धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, नीराजनसे पूजा हो चुकी । अब तो अपने हृदयके मन्दिरमे शान्तिकी शय्या बिछा दे, शान्तिसे हृदयको भर ले । इस शान्तिके पलगपर ही प्रभु श्रीराघवेन्द्र सुखसे शयन करेंगे । देख, उनकी सेवाके लिये अपने हृदयमन्दिरमे क्षमा एव करुणा आदिके रूपमे परिचारिकाएँ भी नियुक्त कर दे । इतना करके फिर झॉककर देख । तुझे दीखेगा कि वहाँ प्रभु है एव उनकी ज्योतिसे हृदयमन्दिर चम-चम चमक रहा है । 'मै-मेरा, तू तेरा' मायासे उत्पन्न भेदका यह अँधेरा सदाके लिये मिट गया है । मन ! तू जान ले, यही वह आरती है जिसमें महान् तत्त्वदर्शी ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी, ध्यानी सदा लगे रहते हैं, प्रभुकी पूजा करते रहते हैं । ऐसी पूजा जो भी करता है, वह कामादि समस्त दोषोसे मुक्त होकर तरण-तारण बन जाता है—

ऐसी आरती राम रघुबीरकी करहि मन ।
हरन दुख-दुंद गोबिंद आनन्दघन ॥
अचर-चर रूप हरि, सरबगत, सरबदा
बसत, इति बासना धूप दीजै ।
दीप निजबोधगत कोह-मद-मोह-तम,
प्रौढ़ अभिमान चितवृत्ति छीजै ॥
भाव अतिसय बिसद प्रवर नैवेद्य सुभ
श्रीरमण परम संतोषकारी ।
प्रेम-तांबूल गत सूल संसय सकल,
विपुल भव-वासना-बीजहारी ॥

असुभ-सुभकर्म-घृतपूर्ण दस चर्तिका,
 त्याग पात्रक, सतो गुण प्रकृतं ।
 भक्ति-वैराग्य-विज्ञान दीपावली,
 अपि नीराजनं जगनिवासं ॥
 विमल हृदि-भवन कृत शांति-पर्यंक सुभ,
 सयन विश्राम श्रीरामराया ।
 क्षमा-करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका,
 यत्र हरि तत्र नहि भेद, माया ॥
 एहि
 आरती-निरत सनकादि, श्रुति, सेप, सिव,
 देवरिपि, अखिल मुनि तत्व-दरसी ।
 करै सोइ तरै, परिहरै कामादि मल,
 बढति इति अमलमति दास तुलसी ॥

यदि गोखामी तुलसीदासके इस सन्देशको हम भी ग्रहण कर सके, इसे अपने जीवनमे उतार सकें तो हमारा जीवन भी वास्तवमें पवित्र भगवत्-पूजामय बन जाय । पूरा नहीं, हम यदि केवल इस प्रकारकी धूप एवं ऐसा नैवेद्यमात्र, केवल दो सामग्री ही प्रभुको अर्पित कर सकें—सर्वत्र प्रभुको विराजित, सबको प्रभुका ही रूप देखकर यदि उन्हे सुख पहुँचानेकी चेष्टा कर सकें तो हमारा काम तो इतनेसे ही हो जाय । मन्दिरमें तो हम पूजा करे ही, साथ ही अपनी दिनचर्यामे ये दो बातें और बढा ले । फिर हमारी पूजा सर्वाङ्गीण हो ही जायगी, हमारा एवं प्रभुका मिलन भी तुरत ही हो जायगा और उनसे मिलकर हम सदाके लिये सुखी हो जायेंगे ।

मानसिक विष और उसके त्यागके उपाय

एक विष तो ऐसा होता है कि उसकी क्रिया सीमित रहती है, परिणाम भी निश्चित रहता है—जैसे सखिया । किसीने सखिया खा लिया तो उसकी क्रिया शरीरतक ही सीमित रहेगी । शरीर जलने लगेगा, असह्य पीडा होगी, हृदयकी गति बद हो जायगी, प्राण निकल जायँगे । बस, इससे अधिक सखिया खा लेनेपर और कुछ भी नहीं होगा । पर कुछ विष ऐसे हैं जिनकी क्रिया बड़ी व्यापक होती है, परिणाम भी निर्धारित नहीं होता । वे विष हैं—वृणा, द्वेष, वैर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि दुर्गुण । इनका सेवन मनके द्वारा होता है । इनमेसे किसीको भी किसी प्राणीने यदि अपने अदर स्थान दे रक्खा है तो वह सखियाकी तरह सीमित क्रिया करके, निश्चित फल देकर ही निवृत्त नहीं होगा । ये दुर्गुणरूपी विष तो ऐसे हैं जो जन्म-जन्मान्तरतक साथ रहेंगे, सदा जलते रहेंगे, अनेक प्रकारकी यातनाएँ देते रहेंगे और न जाने कितनी बार जन्म-मरणकी मार्मिक पीडा देंगे ।

किंतु जब मनुष्यकी बुद्धिमें तमोगुण बढ़ता है, तब वह भ्रमवग इन दुर्गुणोंमें अमृतकी भावना करने लगता है । फिर तो वह विरोधी

व्यक्तिसे, समाजसे, जातिसे, राष्ट्रसे असूया-घृणा करनेमें अपने गौरव-की रक्षा मानता है, द्वेष-वैर करनेमें अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा होते देखता है, कामनाओंको पोषण करनेका नाम प्रगति रखता है, अदर बसी हुई क्रोधकी वृत्तिको तेज मानने लगता है, मटका नाम आत्मसम्मान रखकर उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझने लगता है, लोभको अपनी उन्नतिका साधन समझता है, मोहका नाम प्रेम रखकर जीवनको वर्बाद कर देना आदर्श मानता है, मात्सर्यको व्यक्ति, समाज, जाति और राष्ट्रके सुधारके लिये आवश्यक वस्तु अनुभव करता है। इसीलिये ये विष—ये दुर्गुण मनुष्यमें बढ़ते चले जाते हैं। अन्तःकरण इनसे इतना ढक जाता है कि हृदयमें विराजित प्रभुकी ओरसे निरन्तर बहती हुई आनन्दधाराके लिये द्वार ही बंद हो जाता है, हमारी इन्द्रियोंमें प्रभुके द्वारा दिये हुए उस परमानन्दका एक कण भी नहीं आ पाता। इन्द्रियों स्थायी आनन्द पानेके लिये तरसती रहती हैं, भटकती रहती है, पर उन्हें स्थायी आनन्द कभी नहीं मिलता।

जिस समय हमारे अदर किसीके प्रति घृणाकी वृत्ति जागती है, द्वेषका भाव उदय होता है, किसी वस्तुके लिये कामना होती है, किसी वस्तु या व्यक्तिको निमित्त बनाकर क्रोध उत्पन्न होता है, अपने प्रभाव, प्रभुत्वकी स्मृति होकर मदके विचार आने लगते हैं, किसी वस्तुके प्रति लोभ होने लगता है, किसी व्यक्तिविशेष या वस्तुविशेषमें मोह (ममता) जाग उठता है, किसीकी उन्नति देखकर मात्सरता (ईर्ष्या, डाह) आती है, उस समय उन-उन

चुत्तियोंके अनुरूप ही विचारोकी मूर्तियाँ बनने लग जाती है। घृणासे बनी हुई विचारमूर्तिमें नीचे-ऊपर, भीतर-बाहर घृणा भरी रहेगी, द्वेषकी विचारमूर्तिमें द्वेष भरा होगा। इसी प्रकार अन्य विचारमूर्तियोंमें भी वे-वे भाव भरे होते हैं। इन मूर्तियोंमें कम्पन होता रहता है तथा ये जैसी हैं, उसी प्रकारकी किरणें इनसे निकलती रहती है। साथ ही, जैसे ये मूर्तियाँ हमारे अदर बर्नीं कि बस, उसी क्षण, जिनके निमित्तसे ये बनी हैं, उनकी ओर दौड़ जाती है, उनके पास पहुँच जाती है। उदाहरणके लिये हम घृणाको ले। हमारे अदर किसीके प्रति घृणाकी वृत्ति आयी कि उसी क्षण एक घृणामयी विचारमूर्ति बन गयी तथा तुरत ही वह उस व्यक्तिके पास जा पहुँची कि जिसके प्रति हमने घृणा की है। वहाँ जाकर यह उस व्यक्तिके शारीरिक तेज (Aura) से चिपट जाती है तथा यदि उसमें पहलेसे ही वैसा बीज (घृणाका सुप्तभाव) वर्तमान है तो उसमें भी अपने अनुरूप घृणाका भाव पैदा कर देती है। यदि वह व्यक्ति उस दूषित भावको ग्रहण करनेके लिये पहलेसे ही घृणाका भाव लिये तैयार बैठा है तब तो कहना ही क्या है, फिर तो क्षणभरका भी विलम्ब न होकर उसपर इसका प्रभाव पड जाता है और उसके अदर भी घृणाका दूषित भाव बेहद बढ़ जाता है। पर कहीं वह व्यक्ति दूसरे विचारमें लगा है, ऐसे विचारोंसे उसका मन भरा है कि जिनसे इसका मेल नहीं खाता तो वहाँ यह हमारी घृणासे निर्मित मूर्ति उस मनुष्यके चारों ओर घूमती रहती है, मौका ढूँढ़ती रहती है कि प्रवेग करनेका कोई भी अवसर मिल जाय। जहाँ एक नी छिद्र इसे मिला, उसके मनमें एक भी घृणासम्बन्धी

स्फुरणा आयी कि हमारी वह घृणामयी मूर्ति उसकी स्फुरणासे जुड़ जाती है तथा फिर तो वहाँ घृणाके भावोका ताँता लग जाता है । इसी प्रकार द्वेष, वैर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि भी हमारे अदर उत्पन्न होते हैं, इनकी विचारमूर्तियाँ बन जाती हैं, जिनके निमित्त बनती हैं, उनके पास जा पहुँचती हैं तथा उनमें द्वेष, वैर, काम, क्रोध आदि उत्पन्न कर देती हैं ।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी स्थानपर बैठे हैं तथा किसी निमित्तको लेकर हममें पहले घृणा, द्वेष, वैर, काम, क्रोध आदिके भाव उत्पन्न हुए । पर फिर कुछ देर बाद उस निमित्त-को तो हम भूल गये और यों ही—किसी व्यक्तिविशेषको लक्ष्य करके नहीं—स्वभाववश हमारा मन क्षण-क्षणमे बदलते हुए घृणा, द्वेष, वैर, काम, क्रोध आदि भावोंसे भावित होने लगा । तो उस समय भी इनकी विचारमूर्तियाँ तो बनती ही रहती हैं । तथा कोई निश्चित लक्ष्य न रहनेके कारण यद्यपि निश्चित व्यक्तिके पास दौडकर नहीं जातीं, किंतु जहाँ जिस स्थानपर ये पैदा हुई हैं, वहाँके आकाशमे, वहाँके वातावरणमें ये बिखर जाती हैं । वहाँ ये नाचती रहती हैं तथा वहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसपर न्यूनाधिक प्रभाव डालती हैं । हममेंसे अधिकांश इस वातको कई बार अनुभव करते हैं, भले ही हम इसका असली रहस्य न समझे । हम देखते हैं—हम कहीं चले जा रहे हैं, कोई भी कारण नहीं है, पर सहसा हमारे अदर घृणाके भाव आने लगते हैं, द्वेषकी वृत्ति जाग उठती है, कामवासना उत्पन्न हो जाती है । ऐसा क्यों होता है ? इसीलिये कि उस स्थान-पर वहाँके आकाशमें, वातावरणमें, घृणा-द्वेष-कामकी विचारमूर्तियाँ

तैर रही है, हमसे आकर टकरा गयी है। हम असावधान थे, हमारा अदरका द्वार खुला था, वह प्रवेश कर गयी और अपने अनुरूप घृणा, द्वेष आदिके विचार उसने हमारे मनमे भी उत्पन्न कर दिये। साराश यह कि हमारे अंदरके दुर्गुणरूपी विष केवल हमें ही नहीं जलाते, हमारे अदरसे निकल-निकलकर तथा दूर-दूरतक फैलकर दूसरोके पास भी जा पहुँचते हैं और उन्हे भी सतप्त करने लगते हैं। यह भी नहीं कि एक बार जलाकर ही शान्त हो जायँ, इन्हे जहाँ एक बार भी स्थान मिल गया तो फिर ये सदा चने रहते है और इनकी लपट बढती ही रहती है। ऐसे व्यापक एव भयङ्कर फल देनेवाले है ये दुर्गुणरूपी विष !

इस विषसमूहका—दुर्गुणोंका त्याग अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा हम सदा जलते रहेंगे, कभी सुखी नहीं होंगे। प्रभुके दिये हुए निराविल परमानन्दकी अनुभूति हमें कभी नहीं होगी। वह आनन्द हमे मिलनेका ही नहीं है। आज उस आनन्दकी छायाको विषयभोगके समय यदि हम पाते भी हैं तो उसमे भी ये विष मिल जाते हैं, क्योंकि जिस अन्त करणसे, जिन इन्द्रियोसे हम भोगने जाते हैं, उनमे ये दुर्गुणरूपी विष भरे पडे हैं, हमारे लौकिक आनन्दको भी ये विषैला कर देते है। इसलिये इनका प्रतीकार हमे करना ही है। पर प्रतीकार वातोंसे नहीं होगा। इन्हे शान्त करनेके लिये हमे साधनामे तत्पर होकर लगना पडेगा, न जाने कबसे स्थान पाये हुए और निरन्तर बढते हुए इन दुर्गुणोंको जड़-मूलसे उखाड फेकनेके लिये हमे सदा सजग रहकर परिश्रम करना पडेगा।

वह साधना क्या है ? किस प्रकारका परिश्रम है ? इसका उत्तर यह है कि इसके लिये पहले तो यह दृढ विश्वास करना पड़ेगा कि वास्तवमें ये भयानक विष है और जीघ्र-से-जीघ्र त्यागने योग्य हैं । यदि इनमें हमारी गुण-बुद्धि बनी रही तब तो ये छूटने असम्भव ही हैं । इसलिये पहले तो इन समस्त दोषोंमें हमारी विष-बुद्धि हो, एव फिर साधनामें लगे । जिस समय हमारे मनमें किसीके प्रति घृणाकी वृत्ति जागे, उसी समय उसी क्षण हम अपनेमें उसके प्रति प्रेमकी भावना जाग्रत करें । किसी दोषको देखकर ही तो हम उससे घृणा कर रहे हैं ? पर क्या उस व्यक्तिमें केवल दोष-ही-दोष भरे हैं ? उसमें कोई भी सद्गुण नहीं है ? सब दोष-ही-दोष भरे हो, एक भी सद्गुण न हो, यह तो असम्भव है । जगत् बना है सत्, रज एव तमके मिश्रणसे । जहाँ तम है वहाँ रज, सत् भी है ही । मात्रा कितनी भी अल्प हो । जहाँ हमें केवल तमोगुण दीखता है, तमोगुणके परिणाम दोष दीखते हैं, वहाँ सत् एव सत्त्वगुणके परिणाम-स्वरूप कोई-न-कोई सद्गुण भी है ही । फिर हम क्यों नहीं अपनी दृष्टि उस सद्गुणपर ठहराकर उस व्यक्तिसे प्रेम करना आरम्भ करे ? उसके उसी सद्गुणको देखते हुए हम उसके प्रति प्रेमकी भावना भेजे । इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि जैसे घृणाकी भावना दूसरेमें भी घृणा उत्पन्न करती है, वैसे ही प्रेमसे सनी हुई हमारी गुणदृष्टि उस व्यक्तिके पास जाकर उसके उस अल्प सद्गुणको बढ़ा देगी, उसमें प्रेमका बीज बो देगी । उसके प्रति प्रेमकी भावना करके, उसमें सद्गुण देखकर हमने उसे तो ऊपर उठवा ही. हमारे अंदर जो एक घृणाकी गंदी लहर उठी थी, उसे इस

प्रेमकी लहरने दवा दिया, हम जलने लगते पर उसके बढले हममे सुखमयी शीतलता आ गयी ।

जब हममे किसीके प्रति द्वेषका भाव उत्पन्न हो उस समय तुरत हम यह भाव करें कि 'नहीं, यह तो हमारा मित्र है, निश्चय मित्र है, इसके द्वारा हमारी चुराई हो नहीं सकती ।' जहाँ ये भाव हमारे मनमें आये कि ये दौडकर उसके पास भी जा पहुँचेंगे, उसके अनजानमे उसके अंदर हमारे प्रति मित्रताका बीज बो ही देंगे । यह सम्भव है कि उस व्यक्तिका हृदय उपयुक्त न होनेके कारण अथवा हमारे मित्रभावका बीज पुष्ट न होनेके कारण इसके अङ्कुरित होनेमे समय लगे । पर उसमें मित्रभावका आरम्भ तो हो ही गया । साथ ही जो द्वेषकी वृत्ति हमें जलाती थी, वह शान्त हो गयी ।

जिस क्षण कामसम्बन्धी कोई भावना मनमे प्रकट हो, उस क्षण हम भोगके त्यागकी परम उज्ज्वल भावनाएँ बढ़ाने ला जायँ । भोगको त्याग करनेवाले संत पुरुषोंकी त्यागमयी सुन्दर घटनाओंका स्मरण कर जैसे विचारोंकी आवृत्ति करने लगे । परिणाम यह होगा कि तत्परतासे की हुई यह आवृत्ति त्यागमयी विविध सुन्दर विचार-मूर्तियोंका निर्माण करने लगेगी । इतना ही नहीं, वातावरणमें ऐसे सुन्दर जो भी विचार फैले होंगे, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, हमारे ये सुन्दर भाव पुष्ट होने लगेगे । हमारे अंदर तो वह कामकी कुत्सित वृत्ति दवेगी ही, वातावरणमें सुन्दर त्यागमय परमाणु बिखर जायँगे जो दूसरोंकी जलन शान्त करनेमें भी सहायक बनेंगे ।

क्रोध आनेकी सम्भावनासे पूर्व ही हम क्षमाके विचारोका मनन आरम्भ कर दे । परिणाम यह होगा कि स्वभाववश क्रोध आनेपर उसके आगे-पीछे क्षमाके भाव, क्षमाकी मूर्ति घेरे रहेगी । हम सोचे—जब हमसे अपराध बन जाता है, तब 'हमपर कोई नाराज न हो, हमें क्षमा कर दे,' यह इच्छा हममे होती है या नहीं ? न जाने हम प्रभुका कितना अपराध प्रतिदिन, प्रतिक्षण करते हैं । यदि प्रभु हमें क्षमा न करें तो हमारी क्या दशा हो ? अनन्त अपराध हमसे होते हैं और प्रभु अनन्त बार क्षमा करते हैं । फिर हम भी ऐसा निश्चय क्यों न करे कि हमारा भी यदि कोई बार-बार अपराध करता है तो हम भी उसे बार-बार क्षमादान ही देंगे । तभी हम प्रभुसे क्षमा पानेके अधिकारी है । कहनेका तात्पर्य यह कि हमारा यदि क्रोधी स्वभाव है तो हम बड़ी तत्परतासे दिन-रात निरन्तर क्षमाकी भावनाओको अपने अंदर बढ़ाये । अन्यथा जैसे आग जिस वस्तुमे प्रकट होती है, पहले उसे जलाती है, फिर सम्पर्कमें आनेवाली दूसरी-दूसरी वस्तुओंको, वैसे ही क्रोधाग्निसे हम पहले जलेंगे, फिर औरोंको जलायेंगे । यदि हमें इस क्रोवरूपी विषकी ज्वालासे स्वयं बचना है तथा औरोंको बचाना है तो क्षमाकी भावनासे मनको भरते चले जायें । क्षमाके ये भाव कभी निष्फल तो होंगे ही नहीं, बल्कि हमें शीतल करके दूसरोंके उन दोषोंको भी निश्चय धो देंगे ।

ऐसे ही जब अपनेमे पूर्णताकी मिथ्या अनुभूति होकर, अथवा अपना प्रभुत्व, गुण देखकर मट जागे, तब हम सोचें—'यह हमारा

मद कितना मिथ्या है । हम बड़े भारी वक्ता है । माना, पर वाणीमे बोलनेकी शक्ति किसकी दी हुई है ? प्रभुने ही तो यह शक्ति दी है । यदि प्रभु आज वाणीकी शक्ति छीन ले, लकवा मार जाय तो हमारा यह मद धूलमे मिल जाय या नहीं ? हम बड़े भारी विद्वान् है, सभी विषयोंकी जानकारी रखते हैं । ठीक है, पर हमारे मनमे विद्याका उन्मेष किसने किया ? विद्याग्रहणकी शक्ति मनमे किसने दी ? प्रभुकी शक्तिके बिना क्या यह सम्भव है ? यदि वे अपनी शक्ति हटा ले, हमारा मस्तिष्क विकृत हो जाय तो हमारा यह विद्यामद चूर-चूर हो जाय या नहीं ? हमारा रूप बड़ा सुन्दर है, कण्ठ बड़ा मीठा है, सद्गीतमे हमारी बरावरी कर कौन सकता है ? बहुत ठीक, पर कल यदि हमारे अनन्त दुष्कर्मोंमेसे किसीके फल-स्वरूप प्रभु यह विधान कर दे कि चेचक हो जाय, कोढ़ हो जाय, गलेमे कैंसर हो जाय, तो हमारा वह सुन्दर रूप, कलापूर्ण कण्ठ तीन कौडीका हो जायगा या नहीं ? मतलब यह कि मदकी वृत्ति जागते ही मनमे अपनी दीनताके भाव तथा सारा महत्त्व प्रभुका है यह भाव बढ़ाने लगे । ये पवित्र दैन्यके विचार और इनसे निर्मित भावमूर्तियों हमारे मदको तो कुचल देगी ही, दूसरेमें भी प्रभुके प्रति आस्तिकताका, प्रभुके महत्त्वका भाव उदय करेगी । स्वयं हम प्रभुके चरणोंमें नत होकर अभिमानके भारसे मुक्त होंगे, दूसरेका भी भार हल्का कर देंगे ।

लोभकी वृत्तिको हम सतोषकी भावनासे नष्ट कर दे । जहाँ मनमें किसी भी वस्तुका लोभ आया हुआ दीखे, वस, तुरत सोचना आरम्भ कर दे—‘हमे तो सभी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त है

ही, हमें और चाहिये ही क्या ? दयामय प्रभु स्वयं हमारी आवश्यकताओं-का ध्यान रखते हैं, अपने-आप वे हमारी सारी व्यवस्था करते हैं ।' ऐसी भावनाएँ हमें तो तृप्त करेगी ही, हमारे सम्पर्कमें जो भी आयेंगे, उनकी अतृप्ति मिटनेमें भी हेतु बनेंगी । हमारे चारों ओर 'अभी तो और चाहिये' यह जो हाहाकार मचा हुआ है, वह भी किसी-न-किसी अंशमें शान्त होगा ही, भले ही वह शान्ति आरम्भमें अत्यन्त नगण्य क्यों न हो ।

मोह (ममता) का अवसर आनेपर हम सोचें—'क्या सचमुच यह वस्तु हमारी है ? यदि हमारी है तो हमसे हमारी इच्छाके बिना अलग क्यों होती है ? हमारी मानी हुई कोई भी वस्तु सदा तो हमारे साथ नहीं रहती । अत्यन्त निकटका हमारा यह शरीर भी तो हमारा साथ नहीं देता । बहुत-से व्यक्ति कहते थे, शरीर हमारा है, पर साथ नहीं गया, चिताकी राख बन गया । फिर थोड़ी-सी इनी-गिनी वस्तुओंको हम 'अपनी' क्यों मानते हैं ? यह तो हमारा भ्रम है ।' ऐसे विचारोंको हम अपनेमें उद्बुद्ध करें । फिर इनकी भावमूर्तियाँ सदा हमारे चारों ओर नाचती रहेगी । मोहका प्रसंग उदय होते ही ये हमारे मनमें ऐसे ही विचार जगा देगी, क्योंकि यह नियम है, जो विचार हमारे अपनेसे सम्बद्ध होते हैं, वे एक बार उदय होनेके पश्चात् हमारे ही चारों ओर तैरते रहते हैं, रह-रहकर अपने अनुरूप विचारोंको मनमें उदय कराते रहते हैं । फिर यह होगा कि मोहमें पडकर कर्तव्य-विमुख होनेसे हम बच जायेंगे । केवल स्वयं ही नहीं, हमारे ये वैराग्यपूर्ण विचार वातावरणमें फैलकर सर्वथा अनजानमें ही बहुतोंकी

व्यथा मिटा देगे, उनको कर्तव्यपथमें आरूढ कर देगे, नित्य सत्य परमात्माकी ओर बढ़नेका द्वार खोल देगे ।

इसी प्रकार जब दूसरेकी उन्नति देखकर मत्सरता (डाह) मनमें झॉकने लगे, तब तुरत ही उल्लासकी वृत्ति जगाकर हम इसे रोक दे । हमारा अणु-अणु दूसरेकी उन्नतिसे प्रसन्न होने लगे, प्रसन्न होकर हम उसके उन्नत सुखमय जीवनके चित्रोंकी कल्पना मन-ही-मन आरम्भ करे । बिना विलम्ब ये विचारके चित्र उसके पास पहुँच जायँगे । जाकर उसके सुखको तो बढ़ायेगे ही, साथ ही हमारे चारो ओर वैसा ही उन्नत सुखमय वातावरण बन जायगा । हम सुखी हो जायँगे, क्योंकि यह नियम है, हमारे विचारोके अनुरूप ही हमारा बाहरी ससार भी बनता है ।

यह बात नहीं है कि उपर्युक्त दुर्गुणोका एव उनके प्रतीकार-का बस इतना ही रूप है कि जितना ऊपर कहा गया है । ये दुर्गुण तो विविध प्रकारसे विविध मनुष्योंमें व्यक्त होते हैं तथा उनके प्रकारके अनुरूप ही अनेक उपायोसे उनका प्रतीकार भी होता है । इनके त्यागकी एक सुन्दर प्रक्रिया यह भी है कि इनका प्रयोग बदल दिया जाय । उचित मात्रामें रोग-विशेषपर जैसे सखिया अमृतका काम करता है, वैसे ही ये दुर्गुण भी हमारे सहायक बन सकते हैं । यदि हममें घृणा है, नहीं मिटती तो कोई बात नहीं; यह रहे, अवश्य रहे, पर हम दूसरेसे घृणा न करके अपने अदर जो दम्भकी वृत्ति है—मलिन, गिरे हुए, पापोसे भरे हुए होनेपर भी अपनेको उज्ज्वल, ऊँचा, पवित्र दिखानेकी जो आदत है, उससे घृणा करे । ऐसे ही द्वेष दूसरोसे न करके हम अपनी नीच


दुर्बलताओंसे करे, उन्हें पनपने न दे, वे तनिक भी बढी हुई दीखें कि उनकी जड़ काट दें । कामना करे तो ऐसी करे—‘हमे राज्य-सुख नहीं चाहिये, स्वर्गसुख भी नहीं, मोक्ष-सुखकी भी आवश्यकता नहीं, हमे तो यह चाहिये कि ससारमें पडे हुए, दुःखनापसे पीडित समस्त प्राणियोंका दुःख मिट जाय, सभी सुखी हो जायँ ।’ क्रोध आवे तो अपने मनकी चञ्चलतापर ही आवे, जो बार-बार हमे प्रभुके सयोगसे अलगकर संसारमें घसीट लाती है, हमारे क्रोधसे ऐसी आग निकले कि जिसमें हमारे मनकी चञ्चलता भस्म हो जाय और वह प्रभुमें सदाके लिये समाहित हो जाय । मद हो तो इस बातका कि ‘हमपर प्रभुकी कैसी अनन्त अपार असीम कृपा है, उनकी कृपा पाकर हम कितने महान् बन गये हैं ।’ ऐसे ही लोभ हो तो जगत्-रूपमें विराजित प्रभुकी सेवाका ही हो । तन, मन, धन—अपना सर्वस्व लगाकर अतिशय प्रेम एवं आदरसे हम जगत्के प्रत्येक प्राणीकी, उसमें प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर निरन्तर सेवा करे । फिर भी अतृप्ति बनी रहे—‘हाय ! सेवाका बहुत ही कम अवसर मिला, साधन भी हमारे पास नहीं । कब हमें प्रभुकी सेवाके और भी सुन्दर अवसर एवं साधन प्राप्त होंगे ।’ यदि मोह नहीं मिटता तो न मिटे, बल्कि यह और भी बढ जाय, इतना बढ जाय कि समस्त जगत्में फैल जाय, सारा जगत् हमारे मोहका विषय हो जाय, प्रभुके नाते सभी हमारे अपने बन जायँ । मत्सरतासे भी डर नहीं, वह भी रहे, पर वह उदय हो हमारी अपनी ही ख्यातिको देखकर, हम उन्नतिके पथपर तो निरन्तर आगे बढते चले, पर अपनी ख्याति देखकर, जगत्में अपना मान-सम्मान देखकर हममें डाह हो, हम

उनके मिटनेकी इच्छा करने लगे । इस प्रकार यदि इन दुर्गुणोंका अपने ऊपर उचित मात्रामे प्रयोग हो तो ये दोष ही हमें प्रभुकी प्राप्ति करानेवाले, पद-पदपर परमानन्द, परम शान्तिका दान करने-वाले सद्गुण बन जायेंगे ।

अनवरत, दीर्घकालतक, आदरपूर्वक हमें या तो दुर्गुणोंके विरोधी भावोंका पोषण करना होगा, या इनको अपने प्रति ही उपर्युक्त ढंगसे जोड़ना होगा । तभी हम इन्हे छोड़ पायेंगे या सहायक बना सकेंगे । पर यदि ऐसी साधनामें लगना, इतना परिश्रम करना हमारे लिये सम्भव न हो तो उस परिस्थितिमें हम एक काम करें—जिन प्रभुसे जगत्में अनन्त सद्गुण आते हैं, जो अनन्त सद्गुणोंकी खान हैं, उनके हाथोंमें हम अपने-आपको पूर्णरूपसे सौंप दें । सौंपते ही हमारे 'अह' के स्थानपर प्रभुकी सत्ता व्यक्त हो जायगी, उनके परम दिव्य आलोकमें हमारा अनादि अन्धकार उसी क्षण विलीन हो जायगा । हमारे दोष-दुःख सदाके लिये मिट जायेंगे । यह संसार ही हमारे लिये कुछ और हो जायगा । आज जो हमें यह सर्वत्र पाप-तापसे भरा दीखता है, वह फिर दिव्य मधुसे भरा प्रतीत होगा—

मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः ।

वायुमें मधु भरा है, मधुर मन्दगतिसे वह प्रवाहित हो रही है । नदियों मधुरसका स्राव कर रही हैं—ऐसी अनुभूति करके हम कृतार्थ हो जायेंगे ।



हम इन भयोसे वचनेके लिये न जाने कितना प्रयास करते हैं। एडी-चोटीका पसीना एक कर देते हैं। फिर भी ये तो आते ही हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये सत्र-के-सत्र हम समीके जीवनमें एक ही समान क्रमसे आवें। क्रमसे, मात्रामें, विभावमें तो अन्तर होगा ही, क्योंकि हममेंसे प्रत्येकके सस्कार, वासना एव कर्म भिन्न-भिन्न हैं, किंतु यह अन्तर रहनेपर भी ये आते तो हैं ही। हम देखते ही रह जाते हैं। तथा हमारे किसी अत्यन्त प्रियका हमसे वियोग हो जाता है। हमारे आकाश-पाताल एक कर देनेपर भी हमारी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। कल-बल-छल—सब लगा देनेपर भी हमारा प्रभुत्व, हमारा सम्मान, हमारी कीर्ति धूलमें मिल जाती है। सारा कौशल लगा देनेपर भी, पूरी सावधानी रखनेपर भी आधि-व्याधिसे जर्जर होकर अथवा किसी आकास्मिक घटनाको निमित्त बनाकर हमारा सुन्दर प्रिय शरीर नर-कङ्कालके रूपमें परिणत हो ही जाता है। तथा ऐसा जब हो जाता है अथवा होने लगता है, तब उस समय हममेंसे जो आस्तिक होनेका—ईश्वरकी सत्तामें विश्वास करनेका दम भरते हैं, वे भी हाहाकार कर उठते हैं—‘हाय रे भगवन् ! तुमने यह क्या कर दिया।’

अब कहीं ऐसे अवसरोंपर हम यह सोच पाते—क्या भगवान् इतने निष्ठुर हैं कि जननीकी गोदसे पुत्रको छीन लेनेमें, पिताकी दृष्टिसे पुत्रको ओझल कर देनेमें, पति-पत्नीके प्रेमिल सम्बन्धको छिन्न-भिन्न कर देनेमें उन्हें तनिक भी दया नहीं आती ? भगवान् भी क्या चोर-डाकूकी तरह धनके लोलुप हैं, जो हमारी सम्पत्ति हरण कर

लेते हैं ? क्या वे भी हम-जैसे जागतिक प्राणीकी भाँति ईर्ष्यालु हैं, जो हमारा प्रभुत्व, सम्मान, कीर्ति वे महन नहीं कर पाते और उमे नष्ट कर देते हैं ? क्या प्रभुको भी यह स्वस्थ-सुन्दर कलेवर असह्य हो गया, जो उन्होंने नजर लगा दी और शरीर मूखकर अस्थिपञ्जर हो गया ? इस प्रकार यदि हम एकान्तचित्तसे भयके पूर्व एव पश्चात्-की स्थितिकां प्रभुमे जाँझकर उनपर विचार कर पाते तो अन्तर्यामी प्रभु हमे उत्तर देकर हमारा समाधान अवश्य कर देते तथा हम ठीक-ठीक अनुभव करने लगते कि नहीं, प्रभु निष्ठुर नहीं, वे ता दयाके सागर हैं, वे लोलुप नहीं, वे तो नित्य पूर्णकाम, आप्तकाम हैं । वे ईर्ष्यालु नहीं, बल्कि हमारा उत्कर्ष तो उन्हे परम उल्लाससे भर दता हैं । उनकी दृष्टिमे अशुभका लेश नहीं, परम शुभ, परम मङ्गल एव अमृतका स्रोत उनकी दृष्टिसे सतत झरता रहता है । वे लेनेकी दृष्टिसे कुछ भी नहीं लेते, जो कुछ लेते हैं, उसे कई गुना बनाकर देनेके लिये लेते हैं । हमारी मलिन अवस्था उन्हे सह्य नहीं है, इसीलिये मलिनता मिटाकर, उममे अपना निर्मल तेज भरकर लौटानेके लिये ही वे लेते हैं । वे तो किसीका भी अपने प्रियजनसे वियोग नहीं कराने । जहाँ वियोग होते दीखता है, वहाँ वे वास्तवमें भ्रान्ति मिटाने हैं । वे देखते हैं कि मेरी यह भोली सतान मेरी ही कृत्रिम मूर्तिको, मेरी ही एक छायाको प्रियजन मानकर इतना भ्रान्त हो गयी है कि इसकी आँखें ब्रह्म हो गयी हैं, जिस पथसे इसे जाना चाहिये, उस ओर न जाकर यह भोला मानव उधर जा रहा है, जहाँ कँटीली वेलोंका वीहड़ वन है । उसमें फँसकर यह अत्यधिक दुःख पायेगा, इसे बड़ी यन्त्रणा होगी । मेरी इस कृत्रिम मूर्तिमें यह इतना आसक्त

हो गया है कि अन्य सारे कर्तव्योंकी अवहेलना कर रहा है; इसके तो उत्थान एव सुखका द्वार बंद हो रहा है। यह देखकर प्रभु अपनी ही उस कृत्रिम मूर्तिको, अपनी ही एक छायाको, जिसे हम 'लडला लाल', 'प्रियतमा', 'प्रियतम' आदि नामोंसे पुकारते हैं, कुछ समयके लिये स्थानान्तरित कर देते हैं। फिर हमारी आँखें खुल जाती हैं तथा हम गन्तव्यकी ओर चलने लगते हैं। प्रभुकी यह चेष्टा क्या निष्ठुरता है ? यह तो परम स्नेहकी परिचायक है। इसी तरह प्रभु किसीकी सम्पत्ति नहीं हरते। वे तो देखते हैं कि ओह ! वन-सम्पत्तिके भ्रममे इसने अपने अङ्गोमें, हाथोंपर गदे कीचडकी पद्रह तहे लपेट ली हैं, पद्रह बुराइयोंमें नीचेसे ऊपरतक यह सन गया है*। बस, यह देखकर दयापरवश हुए वे अपने हाथोंसे हमारा कीचड धो देते हैं। हमें दीखता है कि वे हमारी सम्पत्ति हर ले रहे हैं, पर वास्तवमें वे हमारा मल धोते रहते हैं। स्वयं पूर्णकाम होनेपर भी हमारे हितका उन्हें कितना अधिक ध्यान है। ऐसे ही किसीकी सच्ची प्रतिष्ठाको भी वे कभी नहीं मिटाते। उन्हें जब दीखता है कि इसके लिये यह प्रतिष्ठा नहीं, घोर विष है और यह इसे

* धनसे पद्रह दोष उत्पन्न होते हैं—चोरी, हिंसा, झूठ, पाखण्ड, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, जुआ, शराव ।

स्तेय हिंसानृत दम्भ काम क्रोध स्वयो मद ।

भेदो वैरमविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २३ । १८)

पीने लग गया है, इसपर जहर चढ़ने लगा है और प्रतीकार हुए बिना इस विषकी ज्वालामे यह भस्म हो जायगा—तब वे पहला काम यह करते हैं कि प्रतिष्ठाके प्यालेको फोड़ देते हैं, फिर अपमानके रूपमें विरोधी ओषधि (Antidote) देकर चढे हुए जहरको उतार देते हैं । तथा यदि कहीं वे किसीकी सच्ची प्रतिष्ठा भी ले लेते हैं तो हीरेको खरादपर चढ़ाकर और भी चमकीला बना देनेकी भाँति उस प्रतिष्ठाको स्थायी—परमोज्ज्वल बना देनेके लिये, उसमें अपना प्रकाश भर देनेके लिये ही वे लेते हैं । अकारण, निरर्थक वे हमारी प्रतिष्ठाका अपहरण कदापि नहीं करते । इसी तरह जिस मृत्यु (शरीरवियोग) को हम अत्यन्त भयङ्कर मानते हैं, जो हमारे लिये 'हौआ' बनी रहती है, वह भी वास्तवमें भगवान्का वरदान है । मृत्यु वस्तुतः प्रभुके द्वारा दिये जानेवाले नवजीवनके उपहारके लिये स्थान बनाने आती है । हम देखते हैं कि यह हमारा प्यारा शरीर है । पर प्रभु देखते हैं कि यह मेरे अमुक प्यारे शिशुपर लपेटा हुआ बख है, यह जीर्ण हो गया है, जगह-जगह इसमे छेद हो गये हैं । अमुकका बख ऊपरसे देखनेमें तो सुन्दर दीखता है, पर विषैले कीटाणुओसे भर गया है, अमुकका तो अत्यन्त मलिन हो गया है । इन बातोंकी ओर उनकी परम शुभ दृष्टि ठीक उपयुक्त समयपर चली ही जाती है तथा वे हमारा बख बदल देते हैं, पुराना उतारकर हमारी वासनाके अनुरूप नवीन बख (शरीर) हमपर लपेट देते हैं । अबोध शिशुकी भाँति हम उस समय चीत्कार करते हैं और वे स्नेहमयी जननीकी भाँति हँस-हँसकर अपने लाड़भरे हाथोंसे हमे नवीन बख धारण कराते हैं । निस्सन्देह हमें ऐसी ही अनुभूति होती यदि हम

उन-उन भयके अवसरोपर अपने एव भयके बीचमें प्रभुको, उनके मङ्गलमय हाथको देख पाते । फिर भयका दीखना तो वंद हो ही जाता ।

बात यह हो गयी है कि हम निरन्तर अपनी सीमित बुद्धिके आधारपर वस्तुओंको दो भागोंमें बाँटते रहते हैं—ये तो हमारी 'इष्ट' हैं और ये 'अनिष्ट' हैं । आज जो इष्ट हैं, कल अनिष्ट प्रतीत हो सकती हैं, अनिष्ट इष्ट बन सकती हैं, किंतु वर्गाकरण तो सदा चलता ही रहता है । दो वर्ग बनाकर हम इष्टका स्वागत करते हैं, अनिष्टसे भय करते हैं । अब कदाचित् हम ठीक-ठीक यह समझ जाते कि जिस अनिष्टसे हम भय करते हैं, वह तो हमारे आनेवाले इष्टकी ही पूर्व भूमिका है तो फिर उसी क्षण भय जाता रहता । यदि हम आँख उठाकर देख सकने तो हमें दीखता कि प्रभुकी सृष्टिमें घटनाएँ यह प्रमाणित कर रही हैं कि अनिष्ट आता ही है इष्टको लानेके लिये । अमावस्याका तम आता है चन्द्र-ज्योत्स्नाको प्रकट करनेके लिये । ग्रीष्मका ताप आता है वर्षाकी शीतल धारासे पृथ्वीको सींचकर प्रफुल्लित कर देनेके लिये । पतझड आता है नववसन्तके लिये । आँधी आती है आकाशको निर्मल बना देनेके लिये । ऐसे अगणित उदाहरण मिलेंगे जहाँ हम गम्भीरतासे विचार करनेपर प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि अनिष्ट आया है इष्टको ही प्रकाशित करनेके लिये । फिर यदि हमारी टूटी झोंपड़ी जली है तो हम क्यों नहीं ऐसा मानें कि जली है सुन्दर मकान या महल बनानेके लिये, जो कुछ भी ध्वंस हुआ है, वह हुआ है इससे अधिक सुन्दर नवीन निर्माणके लिये; जितने अनिष्ट हुए हैं, वे सब-के-सब हुए हैं परम इष्टकी योजना बनानेके लिये । हमने ऐसा जहाँ माना कि भय भागा ।

हममेंसे कई कह सकते हैं कि श्लोपड़ीको जलते समय तो हमने देखा, पर वहाँ महल बनते नहीं देखा, ध्वसकी विभीषिका देखी, किंतु पुनर्निर्माणका सुन्दर दृश्य सामने नहीं आया; अनिष्ट तो आये, पर इष्टकी शॉकी नहीं हुई तो इसके लिये हमें तनिक और भी गम्भीरतासे सोचना पड़ेगा । हमारा जीवन तो अनादि-अनन्त इतिहासकी एक पोथी है । वर्तमान जीवन उसी पोथीका एक पृष्ठ है । यदि इस पृष्ठपर जलनेकी, ध्वंसकी, अनिष्टकी कथा लिखी हो, इनके चित्र अङ्कित हो तो यह आवश्यक नहीं कि इसी पृष्ठपर पुनर्निर्माणकी, इष्टकी सुखद गाथा भी लिखी ही जाय । ध्वसका वर्णन पूरा होनेपर ही तो निर्माणकी कथा लिखी जायगी ? यदि ध्वसके वर्णनमें ही पृष्ठ पूरा हो गया है तो अगले पृष्ठोंमें (अगले जन्मोंमें या मरणान्तरकी गतिमें) नवान निर्माणके वर्णन (दृश्य) अवश्य मिलेंगे । इस पृष्ठपर नहीं है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अगले पृष्ठोंपर भी नहीं होंगे । पृष्ठ उलटें, फिर देख पायेगे कि जगन्नियन्ताके इस क्रममें— अनिष्टके बाद इष्टकी प्राप्तिवाले विधानमें कभी व्यतिक्रम होता ही नहीं । अनिष्टके बाद इष्टकी शॉकी मिलेगी ही ।

दार्शनिक दृष्टिकोणसे यदि हम भयके हेतुपर विचार करें तो हमे यह पता चलता है—‘द्वितीयाद्वै भयं भवति ।’ ‘परमात्माके अतिरिक्त अन्य वस्तुकी अनुभूति होनेपर ही भय होता है ।’

यदा ह्येवैष पतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य ।

‘जब कोई परमात्मामे थोडा-सा भी भेददर्शन करता है, उनके अतिरिक्त किसी और सत्ताका अनुभव करता है, तब उसे भय होता

है, भेददर्शन करनेवाले विद्वान्के लिये वे परमात्मा ही भयरूप बन जाते हैं ।'

‘भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ।’

‘देह आदि अनात्मपदार्थमें अभिनिवेश होनेसे ही भय होता है ।’ निष्कर्ष यह कि यदि हम एकमात्र प्रभुकी सत्ता ही सर्वत्र अनुभव करने लगे, हम प्रभुमें स्थित हो सके तो हमारा भय सदाके लिये छूट जाय । वास्तवमें ही प्रभुके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं । हमे जो कुछ भी प्रतीत होता है, उन सब-के-सब रूपोंमें एकमात्र वे ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, किंतु उनके अतिरिक्त अन्यकी सत्ता न होनेपर भी जब हम अन्यकी सत्ता मान लेते हैं तथा मान-कर अन्यका चिन्तन करते हैं, अन्यमें मन लगाते हैं, तब हमें इस ओर मन ले जानेके कारण ही अन्यकी प्रतीति होती है । स्वप्नके समय यह मन ही तो एक विचित्र सृष्टिकी रचना करता है । जागते समय भी जब हम मनोरथके प्रवाहमें बहने लगते हैं, तब मन कितना विचित्र ससार खडा कर देता है ? मनकी कल्पनासे ही तो यह स्वप्नकी सृष्टि, मनोरथका ससार प्रतीत होता है । इस स्वप्नकी सृष्टि, मनोरथके संसारमें सर्वथा सब ओरसे केवल हम-ही-हम भरे हैं या नहीं ? ठीक इसी प्रकार यह जगत् प्रभुका सकल्प है । एकमात्र वे ही इस जगत्में सर्वथा सब समय सब ओरसे सर्वत्र परिपूर्ण हैं । फिर भी, उनकी ही एकमात्र सत्ता रहनेपर भी हमारे मनकी कल्पनासे अन्यकी प्रतीति हो रही है । इसीलिये सीधा उपाय यह है कि हम अन्यका सकल्प-विकल्प करनेवाले मनको प्रभुमें निरुद्ध कर दें । मन उनमें निरुद्ध हुआ कि एकमात्र उनकी ही सत्ता

बच रहेगी । फिर भय सदाके लिये निवृत्त हो जायगा । आत्मविद्या-
विगारद 'कवि' नामक योगीश्वर भी भयसे त्राण पानेका उपर्युक्त
सकेत ही करते हैं—

अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो
ध्यातुर्धिया स्वप्ननोरथौ यथा ।
तत् कर्मसंकल्पविकल्पकं मनो
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ३८)

किंतु हम यदि इस सिद्धान्तको न समझ सके, मनको निरुद्ध
न कर सके, तो क्या करें ? हमारा भय फिर कैसे मिटे ? क्या हम
निराश हो जायें ' नहीं, निराश होनेकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं ।
इससे भी अत्यन्त सरल मार्ग है । जिसका अनुसरण निर्बाधरूपसे
हममेंसे प्रत्येक कर सकता है । वह है—प्रभुकी शरणमें चले जानेका
मार्ग । उनके दिव्य अमर सदेशको स्मरण कर, समस्त देहधारियोंके
आत्मरूप प्रभुकी शरण हम सम्पूर्ण अन्त करणसे ग्रहण कर ले, हम
सब प्रकारसे एकमात्र उनकी ही शरण ले लें । बस, फिर उनसे
जुड़कर, एक होकर हम सदाके लिये समस्त भयोंसे मुक्त हो ही
जायेंगे—

मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् ।
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥

भयकी निवृत्ति यदि हम चाहते हों तो अविलम्ब हमें ऐसा
कर ही लेना चाहिये ।



शान्तिकी खोज

सागरके वक्ष.स्थलपर उठती हुई लहरोंको देखकर हम सोचते हैं—ओह ! सागर कितना क्षुब्ध है, कितना चञ्चल है । पर कदाचित् हम उसी समय सागरके भीतर प्रवेश करके देख पाते तो हमें दीखता कि इन तरङ्गोंसे कुछ ही दूर नीचे जानेपर समुद्रका गर्भ तो बिल्कुल शान्त है । ठीक इसी प्रकार जब हम अपने मनको टटोलते है तो दीखता है कि यहाँ तो विषयोंकी आँधी चल रही है, किंतु यदि मनके भीतर प्रवेश करते, मन जिस परमात्माके आधारपर अवलम्बित है, उस परमात्माको छूने लगते, तब अनुभव होता कि यहाँ तो अखण्ड शान्ति छापी हुई है । क्षोभ नहीं, विकलता नहीं, यहाँ तो पूर्ण शान्तिका साम्राज्य छाया हुआ है ।

क्या यह सम्भव है कि हम मनके भीतर चले जायँ, परमेश्वरको छू लें, हमें यह पूर्ण शान्ति मिल जाय ? अवश्य सम्भव है । वह शान्ति तो हमारी प्रतीक्षा कर रही है, प्रभु तो हमारी बाट देख रहे है कि कब हम बाहरकी ओर शान्ति ढूँढना छोड़कर भीतरकी ओर चल पडे, प्रभुसे जा मिलें, उनसे मिलकर हमारी जलन शान्त हो जाय, सदाके लिये हमें पूर्ण शान्ति मिल जाय । पर हम तो उस ओर जा रहे हैं, जिधर शान्ति मिलनेकी नहीं । चाहते हैं हम शान्तिको ही, हममेंसे प्रत्येक निरन्तर शान्ति ही ढूँढ रहा है, पर ढूँढ रहा है वहाँ जहाँ शान्ति

नहीं हैं। शान्ति तो एकमात्र प्रभुमें है। प्रभु नित्य हमारे अंदर ही विराजित है, हमारे इसी अशान्त मनकी ओटमें वे अवस्थित है, उन्हींके आश्रित हमारा मन है। अपने इतने निकट वर्तमान प्रभुमें जब हमारा मिलन होगा, तभी शान्ति मिलेगी।

अभी हमारी बुद्धि प्रभुको छोड़कर अन्यको विषय कर रही है, हमारा मन प्रभुको भूलकर अन्यका मनन कर रहा है, इन्द्रियाँ प्रभुकी ओर न जाकर दूसरी ओर दौड़ रही है, शरीर प्रभुकी सेवासे विमुख हो रहा है, हमें झूठी ममता फाँसे हुए है और मिथ्या अहङ्कार भ्रमित किये हुए है। इसीसे हम अशान्त है। हमारी बुद्धि प्रभुको समर्पित हो जाय, मन प्रभुपर न्यौछावर हो जाय, इन्द्रियाँ प्रभुपरायणा हो जायँ, शरीर प्रभुकी सेवामें सलग्न हो जाय, झूठी ममता टूट जाय और मिथ्या अहङ्कार मिट जाय—बस, फिर अशान्ति भी सदाके लिये मिट जायगी।

हमें इसीके लिये प्रयत्न करना है। बुद्धिके द्वारा, हम प्रभुके स्वरूपका निश्चय करे—‘शान्तिसमृद्धममृतम्’ हमारे प्रभु शान्तिरूप है, पूर्ण है, अमृतस्वरूप है, ‘शान्त ब्रह्मेदमक्लमम्’, प्रभु पूर्ण शान्त हैं, पूर्ण प्रसन्न हैं, ‘विज्ञानमानन्द ब्रह्म’, प्रभु विज्ञानस्वरूप हैं, आनन्दस्वरूप है, ‘सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म’, प्रभु सत्य है, ज्ञानस्वरूप हैं, अनन्तस्वरूप है, ‘रसो वै सः, रसं ह्येवाय लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति, को ह्येवान्यात्कः प्राप्याद् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्, एष ह्येवानन्दयति’। प्रभु रसस्वरूप है, प्रेमस्वरूप हैं, रसस्वरूप प्रेमरूप प्रभुको ही पाकर तो पुरुष आनन्दभाजन बन जाता है। यदि हृदयके आकाशमें

स्थित आनन्दस्वरूप प्रभु न होते तो प्राण-अपानकी क्रिया कौन कर सकता । ये प्रभु ही तो सारे विश्वको आनन्द दान करते हैं, 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इन्हीं आनन्द-स्वरूप प्रभुके कलामात्र आनन्दके आश्रित रहकर ही तो समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, आनन्दाद्भवेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिसविशन्तीति ।' आनन्दस्वरूप प्रभुसे ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दस्वरूप प्रभुके द्वारा ही जीवित रहते हैं, एवं प्रयाण करते समय आनन्दस्वरूप प्रभुमें ही समा जाते हैं ।

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
 सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
 कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
 साक्षी चैता केवलो निर्गुणश्च ॥

हमारे प्रभु ही वे प्रसिद्ध एक देव हैं जो सब प्राणियोंमें छिपे हुए हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जीवोंके अन्तरात्मा हैं, कर्मोंके अध्यक्ष हैं, सब भूतोंके अधिष्ठान हैं, सबके साक्षी हैं, सबको चेतना देनेवाले हैं, केवल हैं, निर्गुण हैं । 'तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' प्रभु ही तो इस विश्वकी रचना करके इसमें प्रवेश कर गये । 'स एव इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः' प्रभु तो हमारे शरीरमें नखसे लेकर शिखापर्यन्त अनुप्रविष्ट हैं, 'सर्वेषा भूतानामन्तरः पुरुषः स म आत्मैति' समस्त प्राणियोंके भीतर जो पुरुष विराजित हैं, वे हमारे अन्तरात्मस्वरूप प्रभु ही तो हैं, 'पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम्' भूत, वर्तमान, भविष्यका समस्त जगत् हमारे प्रभुका ही तो स्वरूप है ।

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥

‘प्रभु अनित्य पदार्थोंमें नित्यस्वरूप हैं, चेतनोंके भी चेतन हैं, वे अकेले अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं, जो धीर पुरुष अपनी बुद्धिमें स्थित उन प्रभुको देख लेते हैं उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती है, औरोको नहीं ।’ इस प्रकार बार-बार निश्चय करके हम बुद्धिको इन भावोंमें स्थित कर दें, इन भावोंपर दृढ़ अटल संशयहीन विश्वास कर लें, यही बुद्धिका प्रभुमें समर्पण है ।

बुद्धिका निश्चय हो जानेपर भी इन भावोंको बार-बार मनसे मनन करनेकी आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं—बुद्धिसे हमे यह दृढ़ निश्चय रहता है कि जिधर सूर्योदय होता है, उधर ही पूर्व दिशा है; किंतु यदि हमे दिशाका भ्रम हो जाय तो मनको, नेत्रोंको यह अनुभव होता है कि सूर्योदय तो पश्चिम, दक्षिण या उत्तरमें हुआ है । दिशाभ्रमकी दशामें—कल्पना करे—जहाँ हम कभी पहले नहीं गये, ऐसे किसी अपने घरमें पूर्वकी ओर यदि हमे जाना हाता है तो हम मनकी प्रतीतिकी अवहेलना कर देते हैं, जिधर सूर्योदय हुआ दीखता है उमी ओर चल पड़ते हैं । साथ ही बार-बार, इधर सूर्योदय हुआ है, इधर ही पूर्व है, इधर ही हमारा घर है, यह बात हम अपने भ्रान्त मनको समझाने हुए चलते हैं, अन्यथा पथ भूल जानेकी सम्भावना है । ठीक ऐसे ही, बुद्धिमें प्रभुके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर भी उसके मननकी, अधिकाधिक स्मरणकी

आवश्यकता रहती है, नहीं तो, विषयोंके बाजारमे दौड़ते हुए मनके लिये पथ भूल जाना साधारण बात है। हमें चाहिये प्रभुके उपर्युक्त स्वरूपका खूब मनन करे। मनन करते-करते मन तदाकार हो जाय, यही मनका प्रभुपर न्यौछावर हो जाना है।

मन प्रभुमे तन्मय हो जानेपर तो इन्द्रियाँ अपने-आप उनमे लग ही गयीं। पर इससे पूर्व हमें इन्द्रियोंको प्रभुकी ओर मोडना पडेगा। हमारे नेत्रोंके सामने जो भी रूप आवे, हम अनुभव करें यह तो हमारे प्रभुका ही रूप है, हमे प्रभुके ही दर्शन हो रहे हैं। कानोंमे जो भी शब्द सुन पडे, हम सोचें, ये तो हमारे प्रभु बोल रहे हैं, हमें प्रभुके शब्द सुन पड रहे है। नासिकामें किसी प्रकारकी गन्ध आवे, हम अनुभव करें कि इस गन्धके रूपमें प्रभु ही व्यक्त हो रहे हैं। कौसा भी स्पर्श प्राप्त हो, यह प्रतीति हो कि हमें प्रभुका ही स्पर्श प्राप्त हो रहा है। रसनेन्द्रिय जिस रसका आस्वाद ले, उसके लिये हमे यह भान हो कि रसरूपमें प्रभु ही हमारे आस्वाद्य बने हुए हैं। ऐसा कर लेना ही इन्द्रियोंको प्रभुपरायणा बना देना है।

वाणीके द्वारा भी प्रभुकी सेवा ही हो। चिथडा लपेटे राहका भिखारी मिलने आवे, हमे अनुभव हो कि 'प्रभु पधारे हैं', तथा हम आगे बढ़कर अमृतमयी वाणीसे उनका यथायोग्य स्वागत करें। इसी तरह कदाचित् सम्राट् पधारे, तो हमें यह अनुभव हो कि 'जो प्रभु चिथडे लपेटे आये थे, वे ही सम्राट् बनकर आये हैं।' सम्राट्की सेवा तो उनके अनुरूप ही होनी चाहिये, पर उस भिखारीमें एवं

इनमें आभ्यन्तरिक आदरभाव, अपनत्व एव प्रेमका तिलमात्र भी तारतम्य नहीं हो। यदि कमी-वेशी हुई तो हमें समझना चाहिये कि परीक्षामें हम अनुत्तीर्ण हो गये। तथा आगेके लिये प्रयास करना चाहिये कि समान भावसे हम सबमें प्रभुको विराजित देख सके, समान प्रेम कर सके, समान अपनत्व दे सके। हमारी वाणी किसीके लिये भी कभी उद्वेगका कारण न बने, वाणीमें सदा मधुरता भरी हो, कभी किसीको रूक्षताकी गन्ध भी न मिले, पूर्ण सत्य भरा हो, उसमें झूठ-कपट-दम्भकी छायातक नहीं हो, सबके हितकी भावनासे ओतप्रोत हो, वैर-विरोध तथा द्वेष-ईर्ष्यासे सर्वथा शून्य हो। इस कसौटीपर कसी हुई वाणी ही हमारे मुँहसे आवश्यक व्यवहारके समय जगत्स्वरूप प्रभुकी सेवाके लिये निकले। तथा इमके अतिरिक्त समयमें भी निरन्तर प्रभुके स्तवन, विशुद्ध प्रार्थना, प्रभुके स्वरूपके प्रवचन, गुण-वर्णन आदिमें ही वाणी डूबी रहे। यह हाँ गया तो हम समझे कि वाणी भी प्रभुकी ओर मुड गयी।

शरीरकी सेवाका कोई अवसर हम खो न दे, इसके लिये सावधान रहे। हमारे शरीरका अणु-अणु प्रभुकी सेवामें ही लगे। अनेकों रूपोंमें प्रभु हमारी सेवा लेनेके लिये उपस्थित होते हैं। कभी जेठकी दोपहरीमें केवल पानी पिला देनेके लिये कहते हैं। कभी पथके किनारे अधे बने हुए खड़े पथ दिखा देनेकी प्रार्थना करते हैं। कभी पगु बने हुए हाथका सहारा माँगते हैं। कभी हमारे औषधालयके सामने फोडेकी वेदना लिये हमसे मरहमपट्टी कर देनेकी, अपने जर्जर शरीरके लिये अच्छी-सी ओषधि देनेकी भीख माँगते हैं तथा कभी स्टेशनसे छूटती हुई गाडीके डिब्बेके सामने

आकर हमसे किवाड़ खोल देने, भीतर आ जाने देनेकी प्रार्थना करते हैं। माता-पिता, भाई-बन्धु, गुरुजन, परिजन आदि बनकर विविध भौतिसे विविध अवसरोंपर वे हमारे शरीरसे सेवा लेने आते हैं, सेवा कर देनेकी प्रेरणा करते हैं। पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता बनकर भी वे हमारे सामने आते हैं, हमें सेवाका अवसर देते हैं। दिनभरमें न जाने कितनी बार किन-किन रूपोंमें आते हैं और हमे धन-जनसे नहीं, केवल शरीरमात्रसे सम्पन्न होनेवाली अपनी सेवाका मौका देते हैं। हमे चाहिये कि इन सभी अवसरोंपर पूरे उत्साहसे हम अपने शरीरको प्रभुकी यथायोग्य सेवामें नियोजित कर दे। साथ ही पूरी सावधानी रखें कि सेवाके भ्रममें कहीं प्रभुके किसी रूपको हमारे इस शरीरसे पीडा न पहुँच जाय।

उपर्युक्त चारों बातें यदि द्यो गयीं, बुद्धि प्रभुके स्वरूपमें स्थित हो गयी, मन प्रभुमें तन्मय हो गया, इन्द्रियों प्रभुमें लग गयीं, शरीर सेवामें समर्पित हो गया, तब फिर तो इनका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि झूठी ममता टूट जायगी, मिथ्या अहङ्कार विलीन हो जायगा। जहाँ अहङ्कार है, वहीं ममता है। जब वास्तवमें सर्वस्वरूप भगवान्-की अनुभूति हो जायगी, तब हमारा यह 'मैं' नहीं रहेगा, और इसीलिये 'मैं' की संतान 'मेरा' भी नहीं रहेगा। 'मैं' के स्थानपर एकमात्र प्रभु बच रहेंगे और 'मेरा' के स्थानपर भी प्रभुका ही पसारा रहेगा। यहाँ एक अखण्ड अनन्त असीम अनिर्वचनीय शान्तिका साम्राज्य फैला होगा तथा यहीं हमारी शान्तिकी खोज भी समाप्त होगी।



श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारद्वारा लिखित या अनुवादित कुछ पुस्तकें

- बिनय-पत्रिका—सानुवाद पृष्ठ ४७२, सचित्र, मू० १) सजिल्द १।=)
- भगवच्चर्चा भाग १—(तुलसीदल)—सचित्र, पृष्ठ २८४, मू० ॥) स० ॥।=)
- भगवच्चर्चा भाग २—(नैवेद्य)—सचित्र, पृष्ठ २६४, मू० ॥) सजिल्द ॥।=)
- सत्सङ्गके बिखरे मोती—ग्यारह मालाएँ, पृष्ठ २४४, सचित्र, मूल्य ॥।)
- दोहावर्ली—सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य .. ॥)
- उपनिषदोंके चौदह रत्न—पृष्ठ ९०, सचित्र, मूल्य ॥=)
- लोक-परलोकका सुधार—[कामके पत्र] (प्रथम भाग) पृष्ठ २२०, मू० ॥=)
- लोक-परलोकका सुधार—[कामके पत्र] (द्वितीय भाग) पृष्ठ २४४, मू० ॥=)
- लोक-परलोकका सुधार—[कामके पत्र] (तृतीय भाग) पृष्ठ २९२, मू० ॥)
- लोक-परलोकका सुधार—[कामके पत्र] (चतुर्थ भाग) पृष्ठ २८८, मू० ॥)
- लोक-परलोकका सुधार—[कामके पत्र] (पञ्चम भाग) पृष्ठ २८०, मू० ॥)
- प्रेम-दर्शन—नारदकृत भक्तिसूत्रोंकी टीका, पृष्ठ १८८, सचित्र, मूल्य १=)
- भवरोगकी रामबाण दवा—पृष्ठ १७२, मूल्य ... १=)
- कल्याण-कुञ्ज [भाग १] मननीय तरंगोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ १३६, मूल्य १)
- कल्याण-कुञ्ज [भाग २]—सचित्र, पृष्ठ १६०, मूल्य .. १=)
- कल्याण-कुञ्ज—[भाग ३] सचित्र, पृष्ठ १८४, मूल्य . ॥=)
- प्रार्थना—इक्कीस प्रार्थनाओंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ ५६, मूल्य ≡)
- मानव-धर्म—(मनुकथित धर्मके दस लक्षण) पृष्ठ ९८, मूल्य ... ≡)
- साधन-पथ—साधनोपयोगी चुनी हुई बातें, सचित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य =)॥
- भजन-संग्रह [भाग ५] (पत्र-पुष्प)—पृष्ठ १४०, मूल्य .. =)
- स्त्रीधर्मप्रश्नोत्तरी—(दो वहिनोंके संवादरूपमें) पृष्ठ ५६, मूल्य .. -)॥
- गोपी-प्रेम—(माधुर्य प्रेमका अनूठा वर्णन) पृष्ठ ५२, मूल्य -)॥
- मनको वश करनेके कुछ उपाय—पृष्ठ २४, मूल्य ... -)।
- भानन्दकी लहरें—पृष्ठ २४, मूल्य -)
- ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्यरक्षाके अनेक उपाय, पृष्ठ ३२, मूल्य . -)
- हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप—पृष्ठ २४, मूल्य ... -)

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी कुछ पुस्तकें—

- १—श्रीमद्भगवद्गीता—तत्त्वविवेचनी नामक हिन्दी-टीकासहित,
 पृष्ठ ६८४; रगीन चित्र ४; कपड़ेकी जिल्द; मूल्य ४)
- २—तत्त्व-चिन्तामणि—(भाग १) पृष्ठ ३५२; मू० ॥=) सजिल्द १)
- ३— ” ” (भाग २) पृष्ठ ५९२; मू० ॥=) सजिल्द १।)
- ४— ” ” (भाग ३) पृष्ठ ४२४; मू० ॥=) सजिल्द १-)
- ५— ” ” (भाग ४) पृष्ठ ५२८; मू० ॥=) सजिल्द १=)
- ६— ” ” (भाग ५) पृष्ठ ४९६; मू० ॥=) सजिल्द १=)
- ७— ” ” (भाग ६) पृष्ठ ४५६; मू० १) सजिल्द १=)
- ८— ” ” (भाग ७) पृष्ठ ५३०; मू० १=) सजिल्द १॥)
- ९— ” ” (भाग ४) छोटे आकारका सस्करण,
 सचित्र; पृष्ठ ६८४; मू० ॥=) सजिल्द ॥=)
- १०—रामायणके कुछ आदर्श पात्र—पृष्ठ १६८; मूल्य ॥=)
- ११—परमार्थ-पत्रावली—(भाग १) ५१ पत्रोका संग्रह; मूल्य १)
- १२— ” (भाग २) ८० ” मूल्य १)
- १३— ” (भाग ३) ७२ ” मूल्य ॥)
- १४— ” (भाग ४) ९१ ” मूल्य ॥)
- १५—महाभारतके कुछ आदर्श पात्र— पृष्ठ १२६; मूल्य १)
- १६—आदर्श नारी सुगीला— सचित्र; पृष्ठ ५६; मूल्य =)
- १७—आदर्श भ्रातृ-प्रेम— सचित्र; पृष्ठ १०४; मूल्य =)
- १८—गीता-निबन्धावली— पृष्ठ ८०; मूल्य =)॥
- १९—नवधा भक्ति— सचित्र; पृष्ठ ६०; मूल्य =)
- २०—बालशिक्षा— सचित्र; पृष्ठ ६४; मूल्य =)
- २१—श्रीभरतजीमें नवधा भक्ति—सचित्र; पृष्ठ ४८; मूल्य =)
- २२—नागीधर्म— सचित्र; पृष्ठ ४८; मूल्य -)॥

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीहरि

सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें

सम्पादक—श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार

- भक्त बालक—पाँच बालक भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ७२, सचित्र, मूल्य 1-)
- भक्त नारी—पाँच स्त्री भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ६८, चित्र ६, मूल्य 1-)
- भक्त-पञ्चरत्न—पाँच भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, चित्र २, मूल्य 1-)
- आदर्श भक्त—सात भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ९६, चित्र १२, मूल्य 1-)
- भक्त-चन्द्रिका—छः भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य 1-)
- भक्त-सप्तरत्न—सात भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८६, सचित्र, मूल्य 1-)
- भक्त-कुसुम—छः भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८४, सचित्र, मूल्य 1-)
- प्रेमी भक्त—पाँच भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य 1-)
- प्राचीन भक्त—पंद्रह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १५२, चित्र ४, मूल्य 11)
- भक्त-सौरभ—पाँच भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ११०, सचित्र, मूल्य 1-)
- भक्त-सरोज—दस भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १०४, सचित्र, मूल्य 1=)
- भक्त-सुमन—दस भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र ४, मूल्य 1=)
- भक्त-सुधाकर—बारह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र १२, मूल्य 11)
- भक्त-महिलारत्न—नौ भक्त महिलाओंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ७, मूल्य 1≡)
- भक्त-दिवाकर—आठ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ७, मूल्य 1≡)
- भक्त-रत्नाकर—चौदह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ८, मूल्य 1≡)

ये बड़े-बालक, स्त्री-पुरुष-सबके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर और शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं। एक-एक प्रति अवश्य पास रखने योग्य है।

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)



जैसे अबोध शिशुके रोनेकी परवा न कर माता उसे स्नान कराती है, शरीरपर जमे हुए मैलको मल-मलकर धोती है, उलझे हुए बालोंको ठीक करती है तथा कभी जब यह देख लेती है कि बच्चेके कपड़े जीर्ण हो गये हैं अथवा अत्यन्त मलिन हो गये हैं, तब उन्हें बदल देती है, वैसे ही दयामय प्रभु हमारे रोने-चिल्लानेकी परवा न कर हमें दुःख, विपत्ति, अपमान, निन्दा आदि विधानोंसे परिशुद्ध करते हैं और आवश्यकता होनेपर वस्त्र-परिवर्तनकी भाँति ही हमारे इस शरीरका मलिन आवरण हटाकर नव-जीवन प्रदान करते हैं ।

—इसी पुस्तकसे